

श्राद्ध मीमांसा.

प्रकाशक—

* श्रद्धा प्रेस इटावा *

निर्माता—

पं० भीमसेन शर्मा ।

श्रीः

श्राद्धमीमांसा

सनातनधर्मिजनानामुपकाराय आर्यभूम्यानां
भूमनिवारणाय च
कलिकातास्थ विश्वविद्यालयस्य वेदव्याख्यात्रा
पं० भीमसेनशर्मणा विश्विचिता



श्री ३
श्री ३
श्री ३
श्री ३
श्री ३

द्वितीयवार
१०००

} सन् १९१८
चं० १९१४

{ मूल्य
॥

Printed by Brahma Deva Misra at the
Brahma Press-Eaawah.



अथ श्राद्धमीमांसा प्रस्तावः

सभी पाठक महाशयों को चिदित होगा कि श्राद्ध विषय में दो प्रकार की मीमांसा अपेक्षित है उनमें एक तो श्राद्धविषय-निर्णय-सिन्धु धर्मसिन्धु आदि संग्रह पुस्तकों में अथवा अनेक विद्वानों ने की है जिसका विषय यह है कि श्राद्ध के देश काल राज और साधनादि अङ्गों में आस्तिक लोगों का जो जो सन्देह हो सकता है उन सबकी व्यवस्था शास्त्रप्रमाणानुसार करदी गई है उस प्रकारकी मीमांसा करना हमारा उद्देश इस पुस्तक में नहीं है। द्वितीय प्रकार की मीमांसा वर्तमान समयमें यह उपस्थित हो गई है कि श्राद्ध किसी कर्म का नियत नाम है वा जो कुछ श्रद्धा से किया जाय वह सभी कर्म श्राद्ध कहावेगा ?। क्या श्राद्ध मृतपुरुषोंका होता है वा जीवितोंका भी होसकता है ?। यदि मरों का श्राद्ध होता है तो जो मरे हुये प्राणी लोकान्तर देशान्तर की किन्हीं योनियों में स्वकर्मानुसार जन्म पायुके हैं उनके पास श्राद्धाल कैसे पहुंचजाता है ? क्या जिनका श्राद्ध करनेवाला कोई नहीं होता वे भूखे ही मराकरते हैं ? जब अपने अपने कर्मानुसार सबको ईश्वर फल देता है तब यदि पितादिने अच्छे पुण्य कर्म किये हैं तब तो अपने कर्मानुसार उनको उत्तम भोग प्राप्त होंगे ही, उनकेलिये मरण पश्चात् पुत्रादिक का श्राद्ध करना व्यर्थ है तथा यदि उनके कर्म बुरे हैं जिनके अनुसार उनको ईश्वरीय न्यायसे नरक होना चाहिये तब यदि पुत्रादि श्राद्ध करते हैं तो भी व्यर्थ है क्योंकि ईश्वरके न्यायसे उन को दुःख अवश्य मिलेगा। तथा मूल वेद मन्त्रोंमें मरोंका श्राद्ध करना नहीं कहा इस से मृतकश्राद्ध वेदविरुद्ध है इत्यादि अनेक सन्देह सम्प्रति नास्तिकता बढ़जानेसे कियेजाते हैं।

ऐसे पूर्वोक्त बहुविध सन्देहोंकी निवृत्तिके लिये यह पुस्तक लिखा छपाया गया है। पाठक महाशय ! हम यह प्रतिज्ञा नहीं करते कि यावत् सन्देह उद्विगत हुए हैं वा कहीं कभी किसी को हो सकते हैं उन सभीका समाधान हम करेंगे किन्तु जितने प्रकार के प्रश्न वा सन्देह हमारे दृष्टिगोचर अबतक हुए हैं उन सबका समाधान हमने

इस पुस्तक में किया है और न होने से वा अन्य लोगोंके छपाये पुस्तकोंसे इसमें श्राद्धसम्बन्धी लेख आप लोगोंको युक्तिप्रमाणोंसे विशेष पुष्ट अवश्य दीख पड़ेगा । इस पुस्तकमें स्मृतिपुराणादि के प्रमाणों का विशेष समावेश इसलिये नहीं किया गया कि श्राद्ध के प्रतिपक्षी लोग स्मृतियों के प्रमाणों को वेदविरुद्ध वा प्रक्षिप्त कहने को तत्पर होजाते हैं इसलिये इस पुस्तक के पूर्वभाग में पितृ शब्द का विशेष व्याख्यान वा अनेक शंकाओंके समाधान दिखाते हुए उन वेदमन्त्रों के प्रमाण अर्थ सहित लिखे गये हैं जिनसे मरे हुए मनुष्यों का श्राद्ध करना सिद्ध होता है, साथ ही प्रतिपक्षी कृत वेद के अनर्थ का खण्डन भी किया गया है । तदनन्तर द्वितीयोद्गम में वादी कृत बहुविध आशेषों के युक्तिप्रमाण सहित विचित्र समाधान लिखे गये हैं । अन्तमें श्राद्ध के प्रतिपक्षियों से पूछने योग्य कई प्रश्न लिखे गये हैं कि जिनका उत्तर उन लोगों से नहीं बन सकता । इस प्रकार समयानुसार श्राद्ध-विषय में उल्लिखित होने वाले कुतर्क जालकी अच्छी मीमांसा इस पुस्तक में की गयी है । आशा है कि पाठक लोगोंको सन्तोषदायक होगी । यदि इसमें कहीं कुछ भूल प्रतीत हो तो पाठक लोग कृपया क्षमा करें और शुद्ध करलेंगे ॥

॥ इति शम् ॥

भीमसेन शर्मा-वेदव्याख्याता



श्रीगणेशायनमः ।

अथ आहुमीमांसा ¹

अग्निष्वात्तशब्द पर विचार ।

इस शब्द को कलकत्ते के छपे (शब्द कल्पद्रुमकोश) में दन्त्य सकार से लिखा है यथा—

अग्निष्वात्ताः, पुं०, (अग्निना सुष्ठु यथा स्यात् एवं आत्ताः भक्षिताः, श्रौतस्मार्त्ताग्निदग्धाइत्यर्थः । मन्वादिस्मृतिषु सूद्धन्वयकारवान् एव पाठः सूद्धन्यादेशस्तु न युक्तः) मदीचिपुत्रपितृगणविशेषः । नित्यं बहुवचनान्तशब्दोऽयम् । इति शब्दमाला ॥

सब महाशय ध्यान रखें कि अग्निष्वात्त शब्द वैदिक है लौकिक नहीं, स्मृति पुराणादि में जहां २ यह शब्द आता है वहां २ वैदिक शब्द का ही अनुवाद करके विचार किया है, वेद में सर्वत्र सूद्धन्वय प्रकारवान् ही इसको वैदिक लोग लिखने बोलते मानते हैं । यद्यपि व्याकरण में सूद्धन्यादेशका सूत्रवार्त्तिक कोई नहीं दीखता तथापि—

दूहानुविधिश्छन्दसि भवति । तथा—अविहित-
लक्ष्णो सूद्धन्वयः सुषामादिषु द्रष्टव्यः ॥

व्याकरण के इन दो प्रमाणों के अनुसार सूद्धन्यादेश होना युक्त है । इससे (सूद्धन्यादेशस्तु न युक्तः) यह लिखना प्रामादिक है । द्वितीय इस पद का कोपकार कृत निर्वचन भी वेद विरुद्ध है तथा निरुक्त के अभिप्राय से और पदपाठ से भी जिन प्रकार विरुद्ध है सो आगे लिखे प्रमाणों से विस्पष्ट हो जायगा । आर्यसमाज के नेता स्वा० दयानन्द जी ने ऋग्वेदादि भूमिका में यों लिखा है कि—

अग्निः परमेश्वरो भौतिको वा सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते अग्निष्वात्ताः ।

अग्नि नामक परमेश्वर को वा भौतिक अग्नि को सुष्टु प्रकार से जिनने स्वीकार किया वे जीवित मनुष्य अग्निष्वात्त कहाये । यह दयानन्दीय अर्थ भी आगे लिखे प्रमाणों से वेद विरुद्ध मनमाना कल्पित सिद्ध किया गया है देखिये-

चातुर्मास्यनामक यागों के तृतीय साकमेध पर्व में महा पितृयज्ञ नामक एक पितृयज्ञ होता है उसका व्याख्यान शतपथ ब्रा० में करते हुए अग्निष्वात्त पद का अर्थ लिखा है कि शतपथ ब्रा० कार्ण० २ अ० ६ । ब्रा० १ कं० ७ ।

यानग्निरेव दहन्त्स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ॥
सायणभाष्यम् । कैवलसौपासनाग्निरेव शरीरान्ते दहन्त्स्वदयति, आस्वादयति, भक्षयतीत्यर्थः । अर्थादकृत-
श्रौताधानाः कृतस्मार्त्ताधानाः पञ्चत्वमाप्ताः ।

भाषार्थ-जिन लोगों ने श्रौताग्नियों का आधान न करके केवल आबसथ्य नामक स्मार्त्ताग्निका आधान किया हो उनके मरण समय केवल औपासन नामक स्मार्त्ताग्निने ही जिनके शरीरका खाद लिया अर्थात् उस एक गृह्याग्नि से ही जिनका दाहकर्म हुआ वे पितर अग्निष्वात्त कहाये । अब देखिये कि खद् धातु से शतपथ ब्राह्मण में ष्वात्त शब्द बना स्वीकृत किया तथा शब्दकण्डुमकोष वाले ने अद् धातु से माना और स्वा० दयानन्द ने बाङ्पूर्वक दा धातु से आत्त शब्द बनाया सु उपसर्ग दोनों ने माना । सो यदि सु उपसर्ग इस में वेदानार्यों को अभिमत होता तो पद पाठ में ऐसा अवग्रह लिखा जाता कि (अग्निष्वात्ताइत्यग्निऽसुऽश्वात्ताः) सो ऐसा न लिखकर (अग्निष्वात्ताइत्यग्निऽश्वात्ताः) ऐसा अवग्रह पदपाठमें किया गया है इससे सु उपसर्ग मानकर तीन पद का अवग्रह करना शतपथ ब्राह्मण और पद पाठ से विरुद्ध होने के कारण वेद विरुद्ध है । तथा निरुक्त अ० १ पा० ६ खं० १ में लिखा है कि-

अवसाय पठते रुद्रमृलेति । अवतेर्गत्यर्थस्यासौ
नामकरणस्तस्मान्नावगृह्णन्ति । अवसायाश्चानिति
स्यतिरुपसृष्टो विमोचने तस्मादवगृह्णन्ति ॥

भा०-(अवसाय पद्धते०) मन्त्र में आया अवसाय पद गत्यर्थ अव धातु से आँगादिक अस प्रत्ययान्त माना गया इसी कारण एक पद होनेसे पदकार महर्षि लोग अवग्रह नाम विच्छेद नहीं करते किन्तु (अवसाय) ऐसा चतुर्थ्यन्त एक ही पद पदपाठ में पढ़ते हैं और (अवसायाश्वान्०) इस मन्त्र में विमोचनार्थ अवपूर्वक सा धातुका ल्यन्त पद (अवसाय) है इसीसे पदकार लोग इसका अवग्रह नाम विच्छेद ऐसा करते हैं कि-(अवसायेत्यवसाय) इस निरुक्त के प्रमाण में पदपाठ को प्रामाणिक मानके तदनुसार पदों का विग्रह करना माना है परन्तु कोशकार और स्वा० दयानन्द इन दोनों का किया अग्निष्वात्त पदका विग्रह पदपाठसे विरुद्ध है इस से दोनों का ही अर्थ त्याज्य है और शतपथ के ही अनुसार पदपाठ होने से वही अर्थ सम्यक् वेदानुकूल होने से प्राण्य है ॥

जब कि विना मरे कोई भी अग्नि में जलाया नहीं जाता तब वेद में आये अग्निष्वात्त नाम एक ही अग्निसे दग्ध किये गये स्वर्गस्य मृत पितरों का श्राद्ध होना सिद्ध होगया ऐसी दशा में जीवितों का श्राद्ध कहना ऐसा ही है जैसा मरों का विवाह करना कोई कहे । ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ख्रा० द० की प्रतिज्ञा थी कि हमारा वेदार्थ शतपथादि के अनुकूल होगा सो शतपथ से विरुद्ध होने के कारण प्रतिज्ञा भङ्ग हो गयी ॥

द्विविध पितर ।



एक दिव्य पितर हैं जो सप्त प्रकारके गण हैं ये ही दिव्य पितर हैं । सोमसदः । अग्निष्वात्ताः । वर्हिपदः । सोमपाः । हविर्भुजः । आज्यपाः । सुकालिनः । इनमें से अग्निष्वात्त, सोमप और वर्हिपद ये तीनों वाजसनेयी शाखा वाले ब्राह्मणोंके नित्य तर्पणमें लिये हैं इन के नाम से नित्य तर्पण करना चाहिये तथा महापितृयज्ञादि के समय भी ये पूज्य हैं । हविर्भुज पितर क्षत्रियों के, आज्यपा वैश्यों के

और सुकालिन पितर विशेष कर शूद्रोंको समय २ पर तर्पण पिएह-
दानादि से पूज्य हैं। द्वितीय प्रकारके मानुष पितर कहाते हैं पर
ध्यान रहे कि पितृ शब्दका अर्थ यहां श्राद्ध तर्पण के प्रसंग में उत्पा-
दक पितादि नहीं है किन्तु—

ताताश्वात्रितयं सपत्नजननी, मातामहादित्रयम्,
सस्त्रिस्त्रीतनयादितातजननी स्वभ्रातरः सस्त्रियः ।
ताताश्वात्मभगिन्यपत्यधवयुग्जायापिता सद्गुरुः,
शिष्याक्षाः पितरो महालयविधो तीर्थे तथा तर्पणे ॥

संग्रह ग्रन्थ में यह लिखा है —

पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, सौते-
लीमाता मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह मातामही, प्रमाता-
मही, वृद्धप्रमातामही, स्वपत्नी, स्वपुत्र, स्वकन्या, पितृव्य, नाम चाचा
मामा, स्वभ्राता, चाची, मामी, भ्रातृजाया, पितृभगिनी, [शुभा],
मातृभगिनी [मौसी], श्वशुर, गुरु शिष्य, मित्र ये सब कनागतों
के समय, तीर्थ में और तर्पण करने में पितर कहाते हैं। पार्वणश्राद्ध
में वा पिएहपितृयज्ञके समय पितृपितामह, प्रपितामह, माता, पिता-
मही, और प्रपितामही. ये विशेष कर पितर कहाते और मातामह,
प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह । मातामही, प्रमातामही और वृद्धप्रमाता-
मही ये भी पितर कहाते हैं। जब कि पूर्वोक्त कन्या पुत्रादि तक
पितर कहाते हैं तब यहां उत्पादक अर्थ लेना नहीं है किन्तु ये सब
पितृयोनि धो प्राप्त होने के कारण रक्षा करने वाले होने से पितर
कहाते हैं ॥

इस अंश पर और भी विशेष विचार यहां दिखाते हैं सो यह वि-
चार इसलिये उठा है कि सम्प्रति कुछ लोग परोक्षवादरूप आस्तिक
सिद्धान्तको नाम मात्र मानते भी वस्तुतः न मानते हुए कहते हैं कि
श्राद्धकर्म में पूज्य पितर भी येही प्रत्यक्ष जीवित पितादि हैं। इसी
पर हमको विचार करना है कि पितर कौन हैं? पितृ शब्द के प्रयोग
विषय में प्रकरणानुसार दो प्रकार का अर्थ वेदादि सर्व शास्त्रों में

प्रतीत होता है एक तो प्रत्यक्ष जीवित पिता वा पितृ सदृश लोग पितर कहाते हैं जैसे-

जनकश्चोपनेताच यश्चविद्यांप्रयच्छति ।

अन्नदाता भयत्राता पंचैतेपितरःस्मृताः ॥

यह स्मृति रक्षा करने वाले होनेसे जनकादिको पितर बताया है वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते ।

वेदका-दान करनेवाला होनेसे आचार्यको पितर कहते हैं अन्यत्र पिता भवति मन्त्रदः। अच्छा उपदेश शिक्षा विद्यादाता पिता है, तथा-

मानोवधीः पितरं सोतमातरम् ।

इस श्रुति में भी जीवित ही माता पिता का ग्रहण है परन्तु इत्यादि सब श्रुति स्मृति श्राद्ध से भिन्न प्रकरण की हैं।— अब शोचना यह है कि श्राद्ध में पितर कौन कहाते हैं?। कोई लोग परोक्ष लोकान्तरस्थ पितरों को मानते भी हैं तो वे कहते हैं कि वे सनातन पितर हैं जो यहांसे मरने के जाते हैं वे नहीं और श्राद्ध प्रकरण में भी जीवित प्रत्यक्ष पितर लिये जाते हैं इस के लिये प्रमाण देते हैं। तथा च मनुः—

अक्रोधनान् सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान् ।

लोकस्याप्यायनेयुक्तान्श्राद्धदेवान्द्विजोत्तमान् । म०३।२१३

अर्य-क्रोध रहित प्रसन्न मुख संसार की उन्नति उपकार करने में तत्पर ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के प्राचीन देवता कहाते हैं। मनुस्मृति में श्राद्ध प्रकरण का यह श्लोक है इस में विद्यमान जीवित ब्राह्मणों को श्राद्ध का देव कहा है और तुम कहते थे कि श्राद्ध प्रकरण में जीवितों का ग्रहण नहीं है सो ठीक नहीं रहा।

इसका उत्तर यह है कि वर्तमान शा०स० के अधिकांश मनुष्यों ने अबतक मूल सिद्धान्त यह मान लिया है कि हमने जिसको अच्छा समझ लिया वही अच्छा और जो हमारी समझ से विरुद्ध है वही ख्याज्य है। इसके अनुसार कोई २ यहां तक कहते हैं कि श्राद्धादि वेद से भले ही सिद्ध हो जाय, वा ईश्वर स्वयं आकर कहे कि श्रा-

द्धादि ठीक २ गन्तव्य वा कर्त्तव्य है अथवा किसी प्रकार स्वा० २० जी फिर से लौट कर आवें और कहें कि हम भूल गये थे श्राद्धादि सब ठीक है तो भी हम कदापि नहीं मानेंगे । उक्त भूल सिद्धान्त की रक्षा वा पुष्टि वे लोग तीन प्रकार से करते हैं ।

१-एक तो ग्रन्थोंके जो वचन इनकी समझ से विरुद्ध हैं उन का प्रकणादि से विरुद्ध मनमाना अर्थ करके साधारण बुद्धिवालों को ब्रम में डाल देना । २-द्वितीय वेदविरुद्ध कह देना अर्थात् अपनी समझ से विरुद्ध प्रमाणको वेद विरुद्ध कहा तो इनकी समझही इन लोगोंका वेद ठहर गया । ३-तृतीय जहां कुछ उपाय न दीख पड़ा वहां उस वचन को प्रक्षिप्त कह देना कि किसी ने मिला दिया है । इसीके अनुसार मनु के उक्त श्लोक का आशय प्रकरण विरुद्ध मान लिया है । मनु के श्लोक का मुख्य आशय यह है कि श्राद्ध में देव और पितर दोनोंका पूजन आराधन होता है । श्राद्ध विधि में पिण्ड दानसे पूर्व श्राद्धका अङ्गरूप देवताओं के लिये दो आहुति देने का विधान सर्वत्र किया है मनु में मुख्य बड़ा प्रकरण श्राद्ध का है उस के अन्तर्गत २०३ श्लोक से अध्यान्तर प्रकरण देवकार्य का है । २१२ श्लोक में कहा है कि “ अग्न्यभावेतु विप्रस्य पाणावेचीपपादयेत् ” पिण्डदान से पूर्व देव-पूजा की आहुति देने के लिये अग्नि प्राप्त न हो तो वे दोनों आहुति (प्रत्यक्ष) ब्राह्मण के हाथ में दे देनी चाहिये । इस विधिवाक्य की पुष्टि के लिये उक्त २१३ श्लोक में प्रत्यक्ष जीवित ब्राह्मणों की प्रशंसा रूप अर्थवाद कहा है कि जगत् के उपकारी क्रोध रहित ब्राह्मण श्राद्ध के पुराने देवता हैं इनके हाथ में मन्त्र पढ़के आहुति दे देने से भी श्राद्ध का अंग देव कर्म पूरा हो जाता है । इस प्रकार उक्त श्लोक में जीवितों का ग्रहण करना तो ठीक है परन्तु वे जीवित श्राद्ध के पितर नहीं हैं इसी लिये पितर नहीं कहे किन्तु श्राद्ध के देव कहे हैं सो ठीक ही है । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि श्राद्ध में जीवित पितरों के ग्रहणार्थ यह मनु का प्रमाण नहीं है तथा अन्य भी कोई प्रमाण नहीं है यदि कहीं मिला भी तो ऐसा ही होगा जिसका प्रकरणानुसार ठीक अर्थ होनेसे श्राद्धकेपितर जीवित सिद्ध कदापि नहीं होंगे ।

१-पितृयज्ञ वा श्राद्ध में पितर कौन हैं उनका लक्षण वा स्वरूप क्या है ? । २-श्राद्ध परोक्ष मृत पितरों का ही क्यों होता है जीवितों का क्यों नहीं होता ? ॥

इत्यादि कुतर्कोंका उत्तर हम क्रमशः प्रबल प्रमाणों और दृढ़ पुष्ट युक्तियों द्वारा आगे २ लिखेंगे पाठकलोग बराबर विचारपूर्वक देखें ।

अब पहिली बात यह है कि पितृयज्ञ वा श्राद्ध में पितर कौन हैं? उनका लक्षण वा स्वरूप क्या है ? ।

पितृयज्ञ वा श्राद्ध में पितर वे ही मानने वा समझने चाहिये जो श्राद्ध के मन्त्रार्थों से सिद्ध हों । मन्त्रों से ही उनके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं । पाठक लोग इस सामान्य नियम पर विशेष ध्यान रखें कि-लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः । प्रत्येक प्रत्यक्ष वा परोक्ष तथा सूक्ष्म वा स्थूल वस्तु के स्वरूप का बोध लक्षण और प्रमाणों द्वारा ही होता है । प्रत्यक्ष स्थूल पदार्थों का भी यथार्थ स्वरूप बोध लक्षण और प्रमाण के बिना नहीं होता जैसे कोई कहे कि प्रत्येक प्राणी के शिर में दो आंखें होती हैं उन्हीं का नाम चक्षु है तो इसमें दो भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं एक तो आंखों की पुतली देखने में ज्यों की त्यों बनी हों परन्तु देखने की शक्ति मारी गयी हो तो वह चक्षुहीन अन्धा कहावेगा । तथा किसी ने बनाबटी आंखें लगा लीं हों जो ठीक २ असली आंखों के तुल्य हों तो लक्षण प्रमाण से निश्चय किये बिना उन दोनों प्रकार के मिथ्या चक्षुओं को भी आंखें मान लेगा इस दशा में उसको चक्षु के स्वरूप का बोध होना नहीं माना जायगा । परन्तु चण्डे पश्यत्यनेन तच्चक्षुः । जिससे रूप को देखता है वह चक्षु कहाता है यह लक्षण और “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च” चक्षु का विषय रूप देखना है यह श्रुति का प्रमाण ठीक जान लेगा तो जिससे रूप न दीख पड़े वह चक्षु नहीं किन्तु जिसके द्वारा रूप को देख सकते वा जिस का विषय रूप को देखना है वही चक्षु है । जब बनाबटी आंखों से वा जिनकी दर्शन शक्ति मारी गयी उनसे रूप नहीं दीखता तो वे चक्षु नहीं ठहरेंगे उनका खण्डन लक्षण प्रमाण द्वारा होकर चक्षु के ठीक स्वरूप का बोध हो जायगा । प्रसिद्ध में जो हाथ कहाते हैं उन्हीं को

हस्त मानें तो "महान् लम्बीभूतः प्रशस्ता वा हस्तोऽस्यास्तीति हस्ती" बड़ा लम्बा वा प्रशंसा के योग्य जिसका दाथ हो उसका नाम हाथी है यह ठीक नहीं बनेगा क्योंकि हमने पांच अंगुलियों वाले अङ्ग का नाम हाथ समझ रक्खा है। परन्तु प्रमाण से सिद्ध है कि "हस्ती चादातव्यं च" जिसका विषय पदार्थों का ग्रहण करना पकड़ना है उसका नाम हाथ है हाथी भी सूँड़ के द्वारा ही सब चीजों को पकड़ता है। इसी से वह उसका हाथ है और उस हाथ वाला होने से वह हाथी है इसके अनुसार पशु आदि के मुख का नाम हाथ और मुख दोनों पड़ेगा क्योंकि वे मुख से पकड़ते हैं किन्हीं पंजे से पकड़ने वाले पक्षियोंके पग भी दाथ मानें जायगे। जिससे खड़े हो सकें वा चल सकें वे पग कहाते हैं।

क्योंकि (पादौच गन्तव्यञ्च) पगका विषय गमन है वृक्ष अपनी जड़ोसे खड़े रहते हैं इससे वेही उनके पग हैं और पगों द्वारा ही खाते पीते हैं इसलिये संस्कृतमें वृक्ष पादप कहाते हैं। इन सब दृष्टान्तोंसे हमारा प्रयोजन यह है कि प्रत्यक्ष वा प्रसिद्धिमात्र होने पर भी हमको जब स्थूल पदार्थों के स्वरूप का ही यथार्थ बोध नहीं होता तो सूक्ष्म वस्तुओं का बोध बिना लक्षण प्रमाण के होजाये यह कदापि सम्भव नहीं है। और पितर जो ध्राद्धमें लिचे जाते हैं वे सूक्ष्म तथा परोक्ष हैं। यह भी स्मरण रहे कि लक्षण सदा ही प्रमाणानुकूल मानने पड़ेगा जो प्रमाणसे विरुद्ध होगा वह लक्षण नहीं होगा किन्तु लक्षणाभास कहावेगा। वेद का वा वेदानुकूल ग्रन्थों का प्रमाण निर्विकल्प सर्वोपरि माना जायगा। यही आस्तिक लोगोंकी आस्तिकता का चिन्ह है। पितरों का लक्षण यह है कि "पुत्रादीन् पान्तीतिपितरः" पुत्रादि की रक्षा करने वाले पितर कहाते हैं ? प्र० यहीतो हम भी कहते हैं कि पालनकरने वाले पितर कहाते और पालन करना जीवित विद्यमानोंमें घटता है मरोंमें घटनहीं सकता इसलिये जीवितोंको पितर मानो उ० मरोंका अर्थ सूक्ष्म मानना पड़ेगा क्योंकि अभाव किसी वस्तु का नहीं होता स्थूल शरीर सूक्ष्मदशामें परिवर्तित होजाय यही मरना कहाता है वा जीव और स्थूल शरीर के वियोगका नाम मरना है।

इस दशामें स्थूल ही पालन करने वाला है सूक्ष्मसे पालन नहीं होता यह कहना युक्ति प्रमाण विरुद्ध है पृथिव्यादि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है " वायुः पालयति प्रजाः " वायु स्व प्रजाकी रक्षा पृथिव्यादिकी अपेक्षा अधिकर इसलिये करता है कि अन्न जल न मिलनेसे जितने काल जीवन रह सकता है उतने काल वायु न मिलने से जीवन नष्ट रह सकता। और सूक्ष्म अदृश्य परमेश्वर सर्वोपरि स्वका रक्षक पालक होनेसे पिता है। इस से सिद्ध है कि स्थूल वस्तु परिमित देशकाल में रहने वाला होने से उनसे थोड़े ही देशकाल में रक्षा कर सकता है और सूक्ष्म अधिक देश काल में रहने वाला होने से बहुत अधिक देश कालमें रक्षा कर सकता है। इससे सूक्ष्म मुख्य रक्षक वा पितर हैं और स्थूल उस की अपेक्षा गौण रक्षक वा पितर हैं। तथा यह भी नियम विद्यमान ही है कि " गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्य-सम्प्रत्ययः " गौण और मुख्य दोनों के ग्रहण होने की सम्भावना में मुख्य का ग्रहण होने से जीवित गौण पितर नहीं लिये जायेंगे किन्तु मुख्य सूक्ष्म पितरोंका ग्रहण होगा। (प्र०) यदि हम सूक्ष्मोंकी ही मुख्य पितर मान भी लें तो सूक्ष्म पितर वायु आदि सूक्ष्म तत्त्व क्यों नहीं ग्रहण किये जायें ?। उ०-सूक्ष्मों का मुख्य होना तो युक्ति प्रमाण सिद्ध होने से तुमको मानना ही पड़ेगा सूक्ष्म पितर वायु आदि तत्त्व इससे नहीं लिये जायेंगे कि वे पितरों का निरूपण करने वाले मन्त्रों से विरुद्ध हैं। सूक्ष्म पितर (पालन करने वाले) वे ही गृहीत होंगे जो मन्त्रार्थों से सिद्ध हों। प्र० तुमने पितरों का स्वरूप बोध नहीं कराया कि वे सूक्ष्म पितर कैसे हैं। उ०-सूक्ष्म अदृश्य पदार्थों को कोई आंखों से नहीं दिखा सकता न हाथ में पकड़ा सकता है पितर तो दूर हैं तुम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही साक्षात् नहीं कर सकते। हम लक्षणों द्वारा वा प्रमाणों द्वारा जिस प्रकार सूक्ष्म वस्तु का स्वरूप बोध कराया जा सकता है वैसा कराने के लिये आगे २ यथाशक्ति लेख करेंगे। अब हम यहां कुछ प्रमाणोंको लिखते हैं जिससे ज्ञात होगा कि पितर कौन हैं ?।

अथैनं पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्यो-
पासीदंस्तानब्रवीन्मासिमासि वीऽशनं स्वधा वी मनो-
जवश्चन्द्रमा वी ज्योतिरिति ॥ शत० कां० २ प्र० ३ ।
ब्रा० ४ । कां० २ ॥

अर्थः—सृष्टि के आरम्भ में जब सब लोक लोकान्तरस्थों की व्यवस्था परमात्मा ने की तब पितर लोग जनेऊ को अपसव्य कर चाया (जानु) घोंटू पृथिवी में लगा के प्रजापति के सन्मुख जाकर बैठे तबउनसे प्रजापतिने कहा कि महीने २ भरमें एकवार अमावस्या को तुम्हारा भोजन होगा [यह भी स्मरण रहे कि मनुष्य के एक महीने का पितरों का एक दिन रात सब शाखां में माना गया है । इसलिये कृष्णपक्ष रूप रात्रि की समाप्ति में प्रातःकाल अमावास्या के समय पितरों को अपने दिन के हिसाब से नित्य भोजन मिला मानुष दिन के हिसाब से महीने २ में भोजन मिलना कहा गया है] तुम्हारे लिये कर्मकाण्ड में स्वधा शब्द बोला जायगा । वह स्वधा प्रद वाच्य वस्तु तुम्हारे लिये मन के तुल्य वेग वाला होगा । और चन्द्रमा तुम्हारा ज्योति अर्थात् तुमको प्रकाश पहुंचाने वाला होगा । इस कथन से यह आया कि अपसव्य रहने, चायां घोंटू टेक के बैठने वाले, महीने २ में अमावास्या को एकवार भोजन करने वाले तथा चन्द्रमा जिन का ज्योति है वे पितर हैं । वा जिन का नाम पितर है वे अपसव्य रहने वाले आदि हैं । मनुष्य प्रतिदिन भोजन करते हैं और पितर महीने में एकवार अमावास्या को भोजन करते हैं इस कारण पितर मनुष्य नहीं होसकते किन्तु मनुष्योंसे प्रथक् हैं । तथाच-

तिरिद्व वै पितरो मनुष्येभ्यः ।

शतपथ २ । ३ । ४ । २१ ॥

सूक्ष्म होनेके कारण वा यथेच्छाचारी होने के कारण पितर मनुष्यों से अदृश्य अर्थात् छिपे से होते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि जो सूक्ष्म अदृश्य हैं जो सर्वसाधारण मनुष्योंके दृष्टिगोचर नहीं होते वे पितर मनुष्योंसे भिन्न हैं क्योंकि मनुष्योंको मनुष्य दीखते हैं । परन्तु

पूर्ण शुद्ध पूण अर्द्धा भक्ति युक्त, पूर्ण धर्मात्मा को पितर साक्षात् भी दीख पड़ते वा दर्शनों देते हैं इस बात को जताने के लिये श्रुति में इय शब्द कहा है। यह भी ध्यान रहे कि शतपथ ब्राह्मण के उक्त दोनों प्रमाण श्रौत कर्मों सम्बन्धी पिण्ड पितृयज्ञ प्रकरण के हैं इस कारण महीने २ में एक बार भोजन पितरों को पिण्ड पितृयज्ञ द्वारा मिलता है किन्तु पञ्च महायज्ञादि नित्यकर्म जो अन्य श्रुतियों से चिह्नित है उसके नित्यश्राद्ध वा नैस्त्यिक पितृयज्ञ द्वारा सामान्य पितरोंको नित्य भोजन मिलता है उसका यहाँ खण्डन नहीं है।

अहरहः स्वधाकुर्यादोदपात्रात्तथैतं पितृयज्ञं समा-

प्रोति । शतप० का० ११ । प्र० ३ । ब्रा० ८ । कं २

नित्य २ अन्न वा फलमूलादि के अभाव में जलमात्रसे भी (पितृ-
भ्यः स्वधानमः) कहकर पितरों के लिये जल छोड़ने मात्रसे भी पितृ-
यज्ञ पूरा होजाता है। इस प्रकार मासिक पिण्ड पितृयज्ञ द्वारा
महीने २ में एक बार पितरों को भोजन प्राप्त होना और नित्य पितृ-
यज्ञ द्वारा नित्य २ भोजन मिलना दोनों ठीक हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं,
क्योंकि—श्रुति द्वैधन्तु यत्रस्यात्तत्रधर्माद्युभौस्मृतौ । इस मनु अ०
२ के कथनानुसार श्रुति प्रमाण की प्रबलता से मासिक और नित्य
दोनों प्रकार के पितृयज्ञ कर्त्तव्य कीटिके धर्म हैं।

दक्षिणाप्रवणो वै पितृलोकः । शतप० १३ । ४ । ४ । ७॥

दक्षिण की ओर झुका हुआ पितृलोक है। अर्थात् देव मनुष्य
और पितरोंके लोक अलग २ स्वतन्त्र हैं। शतपथ १३ । ४ । ४ । ५ ।
उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां चैत-
स्याश्नुह दिशि पितृलोकस्य द्वारं द्वारैवैनं पितृलोकं
प्रपादयति ॥

यहाँ शतपथमें श्मशान बनाने का विधान है इसके लिये कहा है
कि ग्राम नगरादि से पूर्व दक्षिण दिशा के बीच आग्नेय कोणमें चतु-
ष्कोण वेदि बनावे। क्योंकि इसी आग्नेय दिशा में पितृलोकका द्वार
है। ऐसा श्मशान बनाने वाला इस स्मृतक को द्वार के मार्ग से
पितृलोक को पहुँचाता है।

तत्पितृलोकं जीवलोकमभ्यायन्ति ।

अतप० कां० १३ । प्र० ४ । ब्रा० ७ कं- ६ ।

पितृलोक से जीवलोक में नाम मनुष्यलोक में आते हैं । इस कारण भी पितरों का लोक मनुष्यलोक रूप पृथिवी से भिन्न सिद्ध है पितृलोक का राजा यमराज है । तथा—ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । यजुर्वेद वाजसने० अ० १६ । मं० ४५ ।

जो जाति तथा रूपादि करके तुल्य एक से अन्तःकरणों वाले पितर यम देवता के राज्य में रहते हैं । तथा—

यो भ्रमार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतस्मि । वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ अथर्व० कां० १८ । अनु- ३ मं० १३ ।

अर्थ—महाप्रलयान्तर होने वाली सृष्टि के आरम्भ में जो मनुष्यों के बीच सबसे पहिले मरता है । और मरणान्तर जो इस पितृलोक में पहिले जाता है पीछे अन्य मनुष्य मर २ के जिसके अधिकार में जाया करते हैं इस कारण वह जनों का संगमन कहाता है (सम्य- गच्छन्ति जना यस्मिन् यत्सन्निधौ स संगमनस्तम्) उस चिक्स्वान्के पुत्र यमराजाका है मनुष्यो ? हविर्यज्ञ द्वारा पूजन करो । जैसे पितर सनातन हैं अर्थात् मनुष्योंके समान थोड़े २ कालमें उनका जन्म मरण नहीं होता वैसे पितरोंके वा मरकर पितृलोक में जाने वालोंके राजा यमराज भी पितृलोक में जाने पश्चात् अस्मदादि की अपेक्षा सनातन कहाते हैं । कभी जिनका नाश न हो ऐसे तो वायु आदि सूक्ष्म तत्त्व भी नहीं हैं क्योंकि महाप्रलयके समय वे भी नहीं रहते इससे सापेक्ष नित्य वा सनातन सूक्ष्मतत्त्वों के तुल्य पितर भी हैं जैसे मनुष्य का शरीर पृथिवी तत्त्व प्रधान है और स्थूल है वैसे पितृलोक के राजा यम का और पितरों का शरीर वायु तत्त्व प्रधान है जैसे मनुष्य देहों का अधिष्ठाता एक २ जीवात्मा होता है वैसे पितृदेहों के साथ भी एक २ जीव अधिष्ठाता होता है ॥

अपेसं जीवा अरुधन्गृहेभ्यस्तं निर्वहत परि-
ग्राभादितः । मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेता असून्
पितृभ्योगमयांचकार ॥ अथर्व का०- १८ । २ । २७ ।

अ० हे जीवा जीविता जना इन सृतं देहं गृहेभ्यः पृथ-
गपारुधन् निस्सारयत तन्नितो ग्राभात्परि-बहिर्निर्वहत न-
यत । प्रचेताः प्रकृष्टबुद्धिमृत्युर्यमस्य दूतआसीदस्ति स मृत-
स्यासून् पितृभ्यः पितृभावाय गमयांचकार गमयति । वर्तमाने
सङ्लिटी ॥

भा०-हे जीवित पुरुषो ! इस मरे हुए मरदा शरीरको घरोंसे बाहर
निकालो और उसको इस ग्राम से बाहर लेजाओ । यमराज का दूत
बड़ा बुद्धिमान मृत्यु नामक है जो मरे हुआ के प्राणों को पितर बनाने
के लिये यमलोक वा पितृलोक में पहुंचाता है ॥

अथा मृताः पितृषु सम्भवन्तु ॥ अथर्व १८ । ४ । ४८ ॥

अर्थ-और मरे हुए मनुष्य पितरों में (पितृयोनि में) उत्पन्न हों
इससे सिद्ध है कि मरकर पुण्यात्मा लोग पितृलोकमें जाते हैं । पितृ
लोक अन्तरिक्ष लोकान्तर्गत है । तथाच प्रमाणम्—

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशु-
र्हन्तरिक्षम् । तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यथा-
वशं तन्वः कल्पयाति ॥ अथर्वका० १८ अनु० ३५० ५८ ॥

अर्थ-जो हमारे पिताके पितर वा पितामहादि तथा प्रपितामहादि
कि जो मरणान्तर महान् अन्तरिक्ष लोकस्थ पितृलोक में प्रवेश कर-
चुके हैं उन हमारे पितरों के लिये प्राणों का लेजाने वाला स्वतन्त्र
राजा यम कर्मानुसार उत्तम शरीर देवे । पितृलोक अन्तरिक्षस्थ है
यह सिद्ध है । तथाच—वात्स्यायन भाष्यम्—

आप्यतैजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि ।

न्यायद० ३ । १ । २८ ।

पृथिवीसे भिन्न लोकान्तरोंमें जलतत्व अश्रितस्त्व और वायुतत्व प्रधान शरीर होते हैं। पितृलोकके पितृ शरीर वायुतत्वप्रधान होते हैं और वायु इन अर्ध अक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता इसी कारण पितर भी इन अक्षुओं से सबको नहीं देखते—

उदीरतामवर उत्परासः उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः।

असुं यद्भ्युरवृकाः ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥

यजुर्वेद वाजसने० १८ । ४८ ॥

अ०—अवरेऽस्मिन् भूलोकेऽवस्थिताः पितर उदीरतामूर्ध्वलोकं गच्छन्तु । मध्यमा मध्यमस्था अन्तरिक्षस्थाः पितर उदीरतां परासः परलोके द्युलोकेऽवस्थिता देवत्वं प्राप्ताः पितर उदीरतां ततोऽप्यूर्ध्वं ब्रह्मलोकादिषु गच्छन्तु कीदृशाः पितरः सोम्यासः शान्तिशीलाः सोमपानार्हा वा । ये चासु-मीयुर्वायुरूपं प्राप्ता वायुकायाः सूक्ष्मादृश्यास्थूलविग्रहाः । अवृकाः शत्रुभावरहिताः समदर्शिनः ऋतज्ञाः सत्यज्ञा यज्ञज्ञा वा स्वाध्यायनिष्ठा वा ते नोऽस्मान् हवेष्वाह्वानेष्ववन्तु रक्षन्तिवति प्रार्थयामः ॥

आ०—(अवरे) इस भूलोक में रहने वाले (पितरः) पितर लोग (उदीरताम्) ऊपरी स्वर्गादि लोक को प्राप्त हों (सोम्यासः) शान्ति शील चन्द्रलोक वासी वा यज्ञों में सोमपान करने वाले (मध्यमाः) मध्य अन्तरिक्ष लोकस्थ पितर (उदीरताम्) ऊर्ध्व गतिको प्राप्त हों और (परास, उत्) स्वर्ग लोकस्थ पितर उस से श्री ऊपर महर्लोककादि को प्राप्त हों वे पितर कैसे हैं कि (असुं यद्भ्युः) जिन्होंने प्राण मात्र को धारण किया है अर्थात् वायुकाय सूक्ष्म अदृश्य शरीर वाले, मनुष्यादि का सा स्थूल शरीर जिन का नहीं है (इस मन्त्र का यही अर्थ निरुक्त देवत काण्ड अ० ११ पाद २ अक्षर १८ में किया गया है जिस से स्थूल देहधारी पि-

तर नहीं यह सिद्ध है) (अनुकाः) जिन का कोई शत्रु नहीं (ऋ-
तज्ञाः) जो सत्य को वा यज्ञ को जानने वाले हैं वे पितर कहाते हैं
(ते, पितरः) वे पितर लोग (नः) हमारी (हवेपु) श्राद्धादि में
आवाहन के समय (अवन्तु) रक्षा करें यह हमारी प्रार्थना है।
पाठक महाशयो ! इस मन्त्र से तीनों लोक में रहने वाले वायुमात्र
शरीर धारी पितर सिद्ध होते हैं जिस से श्राद्ध तर्पण के प्रसंग में
स्थूल देहधारी जीवित पितर मानने वालोंका खण्डन हो जाता है ॥

प्रश्न-तुम ने पितरों का लक्षण वा स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा की
थी तो अबतक पितरोंका लक्षण वा स्वरूप क्या बताया वा दिखाया
जिससे ठीक समझ में आता ।

उत्तर-हम ने अबतक बहुत प्रकार से लक्षण वा पितरों के स्वरूप
युक्ति प्रमाणों द्वारा दिखाये हैं जिस का सारांश यह निकला कि
पितर स्थूल देहधारी मनुष्य नहीं किन्तु सूक्ष्म अदृश्य प्राणमात्र
शरीर वाले हैं यह सिद्ध हुआ-यदि तुम वेदादि के उक्त प्रमाणों को
मानते हो तब तो ऊपर लिखे अनुसार पितरों के लक्षण तथा स्वरूप
अवश्य मानने पड़ेंगे । क्या तुम प्रत्यक्ष स्वरूप देलना चाहते हो ? ।
तब उत्तर यह है कि-अभी तुमने अपने श्रीमुख से यह मत प्रकाशित
नहीं किया कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं । सूक्ष्म अदृश्य
परोक्ष पदार्थों को नहीं मानते जब तुम केवल प्रत्यक्षवादी अपने को
लिख दोगे तब अन्य प्रकारसे उत्तर दिया जायगा । जबतक ऐसा
प्रकाशित न करोगे तबतक हम परोक्षवादी मानकर उत्तर लिखते
हैं । यदि कहो कि सूक्ष्म पितर होने की दशा में ही मनुष्य पशु
पक्षी आदि में से किस आकृति वाले पितर हैं हम यह जानना चा-
हते हैं तो उत्तर यह है कि पितर एक प्रकार के देवता हैं ।

माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः निरु० अ० ११ खं० १८

अन्तरिक्ष स्थान में विशेषतया रहने वाले देवगण पितर कहाते
हैं । तुम यदि जीवित मनुष्योंको पितर मानते हो तो क्या वे अन्त-
रिक्ष में कहीं टांगे जाते हैं ? यदि कहो कि पृथिवी में केवल पग

धरते हैं वाकी शरीर सब अन्तरिक्ष में ही चलता फिरता है तो उत्तर यह होगा कि—

स्वधा पितृभ्यः पृथिविपद्भ्यः ॥ १ ॥

स्वधा पितृभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्यः ॥२॥ अथर्व० १८।४।७८॥

इन मन्त्रों में पृथिवी और अन्तरिक्ष दोनोंमें रहने वाले पितर अलग २ कहे हैं तब पृथिवी में रहनेवाले किनको कहेंगे ? यदि तह-खोना आदि में रहने वालों को पृथिवी में रहने वाले कही तो उन के भी शिर आदि अन्तरिक्ष नाम पोल में रहेंगे फिर वे अन्तरिक्ष में रहने वाले क्यों नहीं हुए ? क्या पृथिवी में गाढ़े हुआ को पृथिवी-पद् मानोगे ? । अस्तु प्रयोजन यह है कि अन्तरिक्ष में विशेषतया रहने वाले देवगण पितर कहाते हैं । अ० ३ में मनु जी भी लिखते हैं कि [पितरः पूर्व देवताः] पितर पहिले देवता हैं । निरुक्त के देवत-काण्ड में देवतों का ही वर्णन है इसी से उत्तर पद्क का नाम देवत काण्ड रक्खा गया है । इसी देवतकाण्ड में पितृगणों का वर्णन होने से भी सिद्ध है कि देवतों का ही एक अवान्तर भेद पितर कहाता है । जैसे मनुष्य एक सामान्य जाति का नाम है मनुष्य जाति के अवान्तर भेद ब्राह्मण क्षत्रियादि हैं । वैसे ही देवता एक सामान्य जाति है उसके अवान्तर भेद देव, पितर, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस पिशाचादि हैं । इससे पितर भी एक प्रकार के देवता हैं । जैसे प्राण शब्द पांच वा दश का सामान्य नाम भी है और नासिका द्वारा बाहर को निकलने वाले एकविध वायु का नाम विशेष कर प्राण है । वैसे ही सामान्य पितर आदि सब का नाम देवता है और इन्द्रादि विशेषों का नाम भी देवता है । जैसे सब मनुष्योंकी सामान्य बनावट वा स्वरूप एकसा है वैसे ही पितर आदि सब देवताओं का स्वरूप भी एक ही प्रकार का सामान्य कर माना जायगा । अब यह विचार करना है कि देवताओं का स्वरूप कैसा है ? ।

स न मन्येतागन्तूनिवार्चान्देवतानां प्रत्यक्षदृश्य-
सेतद् भवति । महाभाष्यदेवताया एक आत्मा व-

हुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । अपि च सत्वानां प्रकृतिभूभभिर्त्पयः स्तुवन्तीत्याहुः । प्रकृतिसार्वनाम्न्याच्चेतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रकृतयः कर्मजन्मान आत्मजन्मान आत्मवैपां रथो भवत्यात्माऽश्व आत्मायुधमात्मेपव आत्मा सर्व देवस्य देवस्य ॥निरु० ०अ०७१ पा० १ ख०५ ॥

भा०—[आगन्तूनिवार्थान्] जैसे मनुष्यों के घोड़े आदि स्थूल पार्थिव मांस हृद्यी चर्म रुधिरादि युक्त नाश वाले अनित्य होते हैं तब अनित्य होनेसे उनकी स्तुति व्यर्थ है [प्रत्यक्षदृश्यमेतद् भवति]मनुष्य घोड़े आदि से अपने काम निकालते सुख प्राप्त करते दुःखों से बचते हैं । वैसे ही इन्द्रादि के हरि आदि अश्व लिखे हैं इसलिये देवता भी मनुष्यों के से ही सामान रखते होंगे देवताओं के भी अनित्य सामान नष्ट हो जाते होंगे तब उनको मनुष्यों के तुल्य दुःख भोगने पड़ता होगा इत्यादि देवताओं के विषय में (स न मन्येत) वह बुद्धिमान् शिष्य ऐसा न मानें (देवताया माहाभाष्यात्) देवता लोग महान् ऐश्वर्यका भोग करने वाले हैं वैसे महान् ऐश्वर्य मनुष्यका नहीं है, वह महान् ऐश्वर्य स्वभाव से देवताओं के निकट आठ प्रकार का सदाही विद्यमान रहता है । १-अणिमा-अत्यन्त सूक्ष्म होजाना जो किसीको न दीख पड़े । २-महिमा । पहाड़ोंसे भी अधिक जितना चाहें बड़ा हो जाना । ३-गरिमा अत्यन्त भारी होजाना जो किसी से न उठे । ४-लघिमा-अत्यन्त हलका होजाना जिससे आकाशमें उड़ जाय, ५-प्राप्ति एकस्थानमें बैठे सहस्र कोशके किसी पदार्थको प्राप्त करलेना । ६-प्राकाम्य-जिस कामना को चाहें सिद्ध करलें जल के समान भूमिमें घुस जावें तथा उछल आवें । ७-ईशित्व जब जब चाहें जिस पर अधिकार जमालें । ८-वशित्व जिसको चाहें वश करलें । इस कारण अग्नि आदि एक २ देवता बहुत प्रकार के नाम और गुणों से वेदमें स्तुति किया जाता है ॥

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥ योगसूत्र पा० १ सू० १६

व्यासभाष्यम् । विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ।
ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन कैवल्यपदमिवानुभव-
न्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति ॥

भा०-समाधि दो प्रकार का है । उनमें श्रद्धादि उपाय द्वारा मनुष्य योगियों का समाधि सिद्ध होता और देवता लोग भव नाम जन्म से ही (देवयोनि प्राप्त होने मात्र से ही) सिद्ध योगी समाधि को प्राप्त हो जाते हैं । अन्नमयादि कांप का नाम देह (स्थूल शरीर) है उससे विगत रहित होने से देवता विदेह कहाते हैं ॥

वे देवता लोग अपने शुभकर्म जन्म शुद्ध संस्कार मात्रके उपयोग से मोक्ष का सा ध्यानदानुभव करते हुए फिर फिर भी संसार में आकर कल्पान्तोंमें जन्म लेते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि देवता विदेह नाम स्थूल शरीर से रहित और स्वभाव से ही योग सिद्धियों को प्राप्त हैं जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं । तथा-

रूपरूपं भववा वोभवीति ऋ० ३ । ३ । २ । ३

छोटा बड़ा हलका भारी पशु पक्षी मनुष्यादि अनेक रूपों वाला इन्द्र हो जाता है इत्यादि कथन से भी इन्द्रादि देवताओं का सिद्ध होना प्रकट है । (एरुस्यात्मनः) अग्नि आदि एक प्रधान देवता रूप के (अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति) अग्नि की अपेक्षा इन्द्रादि और इन्द्र की अपेक्षा अग्नि आदि अन्य देवता प्रत्यङ्ग बनते हैं । अग्नि इन्द्र सूर्य ये तीन देवता मूल वा प्रधान हैं जातवेदा द्रविणोदा, वायु, यम, भंग, पूषा इत्यादि देवता इन्हीं के अंग हैं तथा शकुनि अश्वदि प्रत्यङ्ग देवता हैं । अङ्गी से अङ्ग तथा अङ्गों से प्रत्यङ्ग भिन्न नहीं होते किन्तु जल तरङ्गवत् शङ्गी में ही विकार उठते हैं वे ही अङ्ग प्रत्यङ्ग कहाते हैं (अपि च सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिर्ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः) और यह भी है कि घोड़े आदि सत्त्वों के मूल कारण के महत्त्व को लेकर ऋषि लोग वेद मन्त्रों द्वारा घोड़े आदि की स्तुति करते हैं ऐसा विद्वान् आचार्य कहते हैं । सत्ता रूप महत्त्व जिस का नाम हिरण्यगर्भ भी है वही सब देवताओं का प्रकृति है

जिस का विशेष व्याख्यान निरु० अ० १४ खं० ३ में देखो। अर्थात् मूल कारण से जो अनेक प्रकार के विपरिणाम स्यावर जङ्गम रूपसे होते हैं उन सब का मूल कारण के साथ अभेद देखने हुए कार्य कारण का अभेद होने से कारण की महिमाओं को लेकर उन घोड़े आदि की स्तुति आत्मज्ञानी ऋषि लोग करते हैं। यही वेद का मुख्य गूढ़ाशय है। जैसे यजुर्वेद अ० ११ मन्त्र २० ८। अश्व देवता ब्राह्मण सूत्रस्थ विनियोगानुसार है अर्थात् उक्त मन्त्र में अश्व की स्तुति की गई है कि—

द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्यमात्मन्तरिक्षं
समुद्रो योनिः । इत्यादि ॥

अध्वर्युं ऋत्विज् घोड़ेकी पीठपर स्पर्श न करता हुआ दाहिना हाथ पीठसे ऊपर धारण किये मन्त्र पढ़ता हुआ स्तुति करता है कि हे अश्व ! तुम्हारी पीठ स्वर्गलोक तुम्हारे पग पृथिवी तथा तुम्हारा उदर अन्तरिक्ष है समुद्र तुम्हारा कारण है। यहां सबके प्रकृति विराट्के महत्त्व को लेकर घोड़े की स्तुति की गई है किन्तु कारण से भिन्न मानकर स्तुति नहीं है। तथा एक आत्मा ही सब स्यावर जङ्गम चराचर रूप बना हुआ है ऐसा मानकर अध्वमेधयज्ञ में (मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा) वृक्ष के मूल शाखा रूप देवताओं के नाम से आहुति देना लिखा है। इत्यादि सब स्थलों में विकार वा प्रत्यंग नामों द्वारा मूल प्रकृति प्रधान देवता रूप एक आत्मा का ही यजन पूजन किया जाता है किन्तु शाखा आदि अपने कार्यरूप से जो देवता नहीं ठहरते उनके नामसे यज्ञ नहीं किया जाता। यह भी वेदका मूल गूढ़ाशय है। तथा (प्रकृतिसार्वनाम्न्याच्च) प्रकृति मूल कारण ही सर्व नाम रूप बन गया है और वेदमें अश्वदि सब नाम भी प्रकृतिके ही मानकर कार्यवाची शब्दोंसे कारण की प्रशंसा की जाती है। अर्थात् लोक वेद में यह भी एक बड़ा भेद है कि लोक में अश्वदि कार्य वाचक कार्य गुण परक लगाये वा समझे जाते हैं और वेद में कार्य

शब्द भी कारण गुण परक लगाये वा समझे जाते हैं। इससे तुच्छ पदार्थों की स्तुति प्रार्थना वेदमें ही इस तुच्छ विचार को वेदमें पाठक लोग न रक्खें। इस से यह थाया कि देवताओं के स्थान में साधारण अश्वदि की स्तुति वेद में नहीं किन्तु अश्वदि नामोंसे उन्हीं मुख्य देवताओंकी स्तुति की गई है जिनमें स्वाभाविक अष्ट सिद्धियां विद्यमान हैं। सबके प्रकृति हिरण्यगर्भ देवताओं के ही अश्वदि सब नाम होने से देवता (इतरेतरजन्मानः) परस्पर उत्पादक हो सकते हैं। जैसे (अग्नेरापः) अग्निसे जल हुआ तथा (अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतःक्षत्रम्) जल से अग्नि उत्पन्न हुआ। अर्थात् लोक व्यवहार-यह है कि पिता से पुत्र उत्पन्न होता है पर पुत्र से पिता नहीं होता। परन्तु वैदिक प्रणाली इस से विरुद्ध है " अग्नेर्वाग्नादित्यो जायते। ऐ० ब्रा० ८।५।५ " अग्नि से ही सूर्य उत्पन्न होता है। " आदित्यो वा अस्तं यन्नग्निमनुप्रविशति । ऐ० ब्रा० ८।५।५ " सूर्य अस्त होते समय अग्नि में प्रवेश करता है अर्थात् सायंकाल में सूर्यसे अग्नि उत्पन्न होता है। इससे देवता (इतरेतरप्रकृतयोभवन्ति) एक दूसरे की प्रकृति नाम उपादान कारण भी होते हैं ॥

(कर्मजन्मानः) संसारस्य प्राणियों को कर्म फल भुगाने वाले देवता ही हैं (आत्मजन्मानः) जो एक आत्मा अनेक देवता वाचक नाम रूपों से स्तुति किया जाता तो प्रलय में सत्ता मात्र रूप वाला होता और सृष्टिके सोलह प्रकार में विभक्त होके सब जगत् का धारण पोषण करता है उसी आत्मासे सब देवता प्रकट होते और देवतामय यह सब संसार है (आत्मैवैषां रथो भवत्यात्माऽश्वः) इन देवताओं का आत्मा ही रथ है आत्मा ही घोड़ा है इस कारण रथ घोड़ादि नामोंसे आत्मा की ही स्तुति जानो। (आत्माऽऽयुधमात्मैषवः) आत्माही इनका आयुध और आत्मा ही वाण है इस से आयुध्रादि की स्तुति भी आत्म स्तुति जानो (आत्मासर्वं देवस्य देवस्य) और देवताका अन्यमी जो कोई साधन स्तुति किया गया वह सभी आत्मरूप हैं।

निरुक्त को इसी अ० ७ से खं० ६। ७ में—

अथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधाःस्युरित्येकम् ।
अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् । अपिवीभयविधाः स्युः।

अर्थ—अथ देवताओंका आकार बनावट वा स्वरूप क्या है इसका चिन्तन करते हैं । इसमें एक मत यह है कि देवता मनुष्य के तुल्य स्वरूप वाले हैं । यास्कने इसके बहुत उदाहरण दिये हैं कि “हे इन्द्र तुम्हारी दो भुजा हैं उनसे तुम ग्रहण करो । दो घोड़ों वाले रथ पर चढ़ के आओ । तुम्हारी पत्नी कल्याणी है तुम्हारे घर में सुवर्ण है, हे इन्द्र तुम खाओ पिओ और हमारी स्तुतिकी सुनो ” इत्यादि सब मनुष्यों कासा सामान है । अथवा मनुष्य के तुल्य देवता नहीं यह द्वितीय मत है । इसमें पुरुष के तुल्य हाथ आदि का समाधान भी कर दिया है अर्थात् अन्य ही प्रकार के विलक्षण आकार वाले देवता हैं । अथवा मनुष्यके तुल्य और उससे भिन्न दोनों ही प्रकारके देवता हैं यह तीसरा मत है । कर्म ही रूप देवता हैं यह पूर्व मीमांसाका चौथा मत है । सब का अन्तिम सिद्धान्त यह है कि देवता अचिन्त्य शक्ति वा आश्चर्य्य शक्ति वाले होने से सब प्रकारों से कहे जा सकते हैं । जितने मत कहे गये वा कहे जायें वे सभी उनमें संघटित हो जाते हैं । अब इस लेख से हमारा प्रयोजन यह है कि जैसे देवता अष्ट सिद्धि वाले यथेच्छ रूपधारी यथेच्छाचारी हैं वैसे देवान्तर्गत पितर भी वैसे ही जानो । हमने यहाँतक पितरों के स्वरूप को दिखाने के लिये लिखा इससे हम यह नहीं मानते वा कहते कि हमारे सभी पाठकों का संतोष ठीक २ हो ही जायगा । क्योंकि [भिन्नरुचिर्हिलोकः] लोग भिन्न २ रुचि वाले होते हैं परन्तु इतना अवश्य सिद्ध हो गया कि श्राद्ध में जीवित मनुष्य पितर नहीं । दिव्य पितर मनुष्यों से भिन्न हैं । उनका लोक भी पृथक् है वे नाना रूप धारी स्वभाव से सिद्ध हैं । इससे स्थूल देहधारी जीवित मनुष्यों को पितर मानना सर्वथा युक्ति प्रमाण शून्य है ॥

अब द्वितीय प्रश्न यह है कि श्राद्ध मृत पितरों का ही होना चाहिये वा जीवितों का भी हो सकता है ? ।

उत्तर-श्राद्ध जिस कर्म का नाम है वह तो मृत पितरों का ही होता आत्मा और हो सकता है। जीवित माता पितादि की सेवा धर्म शास्त्रों में लिखे अनुसार करनी चाहिये। वह पितृसेवा गुरु सेवा श्राद्ध से भिन्न ही एक धर्म सम्बन्धी कर्म है। जो लोग जीवितों के श्राद्धका भूटा ही पक्ष लेते हैं वे किसी ऐसे आधुनिक ग्रन्थ में भी लिखा दिखला दें जो पुस्तक आर्य्यसमाजियों का बनाया न हो तो उनके कथन की कुछ तो जड़ हो सो जब इतना भी नहीं दिखला सकते इससे इनका कथन सर्वथा ही निर्मूल है। तो भी हमारे लेख को पाठक लोग व्यर्थ न समझें क्योंकि इन लोगों में धर्माभास को धर्म समझ के सच्चे धर्म के जिज्ञासु ब्राह्मणादि लोग भी अनेक फँस गये हैं उनका भ्रम दूर होने से वे श्राद्धादि के मानने वाले धर्मोंगे यह हमारे लेख का फल होगा। तथा कुतर्कियों को उत्तर देने के लिये बहुत मसाला हमारे लेख में 'आस्तिक लोगों को मिलेगा जिससे वैदिक धर्मकी रक्षा होगी इत्यादि अनेक उपकार होंगे जीवितोंके श्राद्ध की आज तक इस व० आ० स० में भी कोई पद्धति नहीं बनी न कहीं जीवितों का श्राद्ध होता है। तथा श्राद्ध की जितनी पद्धतियाँ जिन मन्त्रों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा श्रौत गृह्य सूत्रों से अद्यावधि बनी हैं उन सभी ग्रन्थों तथा पद्धतियों में मरे हुए पितादिका श्राद्ध सिद्ध है इस कारण जीवितों का श्राद्ध कहना निर्मूल हठ मात्र है।

अब हम मंत्र संहितादि के प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि श्राद्ध जीवितों का नहीं किन्तु मृतकों का होता है।

अथर्व का०-१८। अनु० २ मन्त्र ४८।

उदन्वतीद्यौरवसा पीलुमतीतिमध्यमा ।

तृतीयाहप्रद्यौरिति यस्यांपितरभ्रासते ॥

ब्रह्माण्ड के तीन लोकों में बीच का अन्तरिक्ष वा भुवर् लोक कहाता है इस मध्य लोक के मन्त्र में तीन भाग किये (उदन्वती यौरवसा) सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि ज्योतियों का प्रकाश जिसमें फैलता है इससे अन्तरिक्ष धीं कहाता है, उत्र में पृथिवी की ओर का भाग जल जाता है अर्थात् अन्तरिक्ष में जो नीलापन छाया हुआ दीक्षता

हे यह सूक्ष्म जल है इस जल वाले अन्तरिक्ष भाग का नाम उदन्वती घी है (पीलुमतीति मध्यमा) और जल से ऊपर अन्तरिक्ष का मध्यम भाग पीलुमती घी कहाता है। और (तृतीया ह प्रथौरिति) सब से ऊपरी अन्तरिक्षका तीसरा भाग सूर्यादिके प्रग्वर प्रकाशवाला होनेसे प्रथीः कहाता है (यस्यां पितर आसते) इसी प्रथी नामक अन्तरिक्ष के तृतीय भागमें पितर लोग रहते हैं। पाठक लोंगो ! इन्हीं पितरों का श्राद्ध होता है। मंत्रमें कहे तीसरे आकाशमें रहने वाले स्थूल देहधारी जीवित पितर सिद्ध नहीं हो सकते। स्थूल देहधारी पितर पृथिवी में रह सकते हैं तृतीयाकाशमें नहीं। इससे जीवितोंका पितर होना और उनका श्राद्ध मानना दोनों अंश खण्डित हो जाते हैं। हमारा पक्ष केवल यह नहीं है कि हम मृतकोंका ही श्राद्ध सिद्ध करें किन्तु हमारा मुख्य पक्ष यह है कि स्थूल देहधारी अपने विद्यमान माता पिता की सेवा का नाम श्राद्ध नहीं है। जीवित और मृत शब्दोंमें कई कुतर्क हो सकते हैं जो मृत हैं वे भी जीवित और जो जीवित हैं वे भी मृत हैं। क्योंकि जो मरे हैं वे कहीं न कहीं किसी योनि में जन्म लेकर जीवित कहे जा सकते हैं। देव तथा पितरोंकी भी योनि हैं उन में जीवित कहना घन सकता है। और जो मनुष्यादि जीवित हैं वे भी पूर्व जन्मान्तर में मर चुकने से मृत कहे जा सकते हैं। मृत शब्दकी भाषा मुर्दा नहीं है क्योंकि मुर्दा शब्द का संस्कृत शब्द है। इसलिये शब्द नाम मुर्दा शरीर का श्राद्ध करना शास्त्र का सिद्धान्त नहीं, मुर्दों का श्राद्ध कहना उन लोगों का प्रलाप मात्र है। आत्मा वा क्षेत्रज्ञ न मरता है न जन्म लेता है किन्तु भूतात्मा मरता जन्मता है इसी लिये (अध्या मृताः पितृषु संभवन्तु। अथर्व० १८। ४ ४८) और मरे हुए प्राणी (भूतात्मा) पितृ योनिमें उत्पन्न हों। इस अथर्ववेद के प्रमाण से सिद्ध है कि मृत नाम मुर्दोंका नहीं किन्तु भूतात्मा का है। शुभाशुभ जन्म मरण भूतात्मा के होते हैं यह अश मैत्रेय उपनिषद् के तृतीय प्रपाठक में अच्छे प्रकार वर्णन किया है। यदि मृत शब्दका भाषानुवाद कोई लोग मुर्दा करते हैं तो यह उन-

की समझ है किन्तु शास्त्रानुकूल नहीं है। इसके लिखने से हमारा प्रयोजन यह है कि यदि कोई कुतर्की हमको पकड़े कि जो लोग पितादि मरगये उन्होंने किसी योनिमें जन्म ले लिया तो वे जीवित हुए उन्हींका श्राद्ध तुम करते मानते हो इसलिये जीवितों का ही श्राद्ध तुमने भी मानलिया। इस कुतर्कको पहिले से ही निर्मूल काट देने के लिये हम अपने साध्य पक्षस्य प्रतिज्ञा का स्पष्ट व्याख्यान कर देते हैं कि हम उन पितादि का श्राद्ध शास्त्रानुकूल मानते और करते हैं कि जिस भौतिक शरीरसे वे हमारे पितादि कहाते थे उस शरीर को छोड़कर जो अन्य किसी योनिमें परिणत होगये हों। यही उनका मरना वा मृतक कहाना है। और श्राद्धके प्रतिपक्षी लोगोंका कथन यह है कि जिस भौतिक शरीर से, वे लोग हमारे पितादि कहाते हैं उसी शरीरका आद्र सत्कार करना श्राद्ध है। अर्थात् चाहे यों कहो कि बात पित्त कफादि स्थूल धातुमय भौतिक शरीर को आत्मा मानकर वा चेतन मानकर ये लोग श्राद्ध मानते हैं इस लिये ब्र० आ० स० का श्राद्ध ही मुर्दों का श्राद्ध है (जो चार्वाक मतसे मिलता है) और हमलोग सूक्ष्म भूतात्मा चेतन मात्रका श्राद्ध मानते करते हैं। चाहे यों कहो कि हम लोग परोक्षवाद रूप आस्तिक सिद्धान्त को ठीकर मानते हैं और ये लोग प्रत्यक्षवाद सिद्धान्त को मानते हैं जिसको चार्वाक ने भी ठीक माना है। आगे पाठक लोग ध्यान रखें कि हमारा पक्ष यह होगा कि विद्यमान माता पितादिकी सेवा का नाम श्राद्ध नहीं किन्तु जो पितादि स्थूल देह छोड़के किसी योनि में प्राप्त हुये हों उनके लिये शतपथादिके लिखे अनुसार पिएड दानादि क्रिया करना श्राद्ध कहाता है। और विद्यमान पितादि को सेवाका नाम श्राद्ध मानना यही जीवित श्राद्ध है इसको शास्त्रप्रमाणों से विरुद्ध ठहराना हमारा पक्ष है। इसके लिये संहितादिके और भी प्रमाण लिखते हैं मन्त्रसंहिता शु० यजु० अ० १६। ६०में अग्निप्रास अनग्निप्रास दो प्रकार के पितर लिखे हैं।

ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्येदिवः
स्वधया मादयन्ते ॥ यजु० १८ । ६० ॥

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्व-
धया मादयन्ते ॥ ऋ० मण्डल० १० । सू० १५ । मं० १४
तथा अथर्व० १८ । २ । ३५ ।

ऊपर लिखे पदों पर उक्त मन्त्र वेद की तीन संहिताओं में हैं । यजुः संहिता में अग्निष्वात्त अनग्निष्वात्त पद हैं उन्हीं दो पदों के स्थान में अग्निदग्ध अनग्निदग्ध पद ऋग्वेद अथर्ववेद में लाये गये हैं । और (मध्ये दिवः) इत्यादि पाठ तीनों वेद में एकसा ही है इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद तथा अथर्वमें जिनको अग्निदग्ध अनग्निदग्ध कहा है उन्हींको यजु०में अग्निष्वात्त अनग्निष्वात्त कहा है । क्योंकि ऋग्वेद तथा अथर्व में अग्निष्वात्त अनग्निष्वात्त शब्द उन मन्त्रों में नहीं आये तथा अग्निदग्ध अनग्निदग्ध पद यजु० में नहीं आये इससे सिद्ध होता है कि अग्निष्वात्त और अग्निदग्ध का तथा अनग्निष्वात्त और अनग्निदग्ध का एक ही अर्थ है । पाणिनीय व्याकरणके अनुसार इन शब्दोंका अर्थ यह है कि "अग्निना स्वादिताः अग्निष्वात्ताः । अग्निनादग्धा अग्निदग्धाः ।" जलाते हुये भावसथ्यादि अग्निने जिनका स्वाद लेलिया वा अग्नि ने जिनको जलाया वे पितर अग्निष्वात्त वा अग्निदग्ध कहाते हैं इसी प्रकार तृतीया समासमें वेदोंमें लिखा अन्तो दात्तस्वर (थाथघञ्क्ताजवित्रकाणाम् । पा०दा१।१४४ सू०) से सिद्ध हो जाता है । सूत्रार्थ यह है कि-गति, कारक, उपपद से परे थं, अथ, घञ्, क्त, अच्, अप्, इत्र, क प्रत्ययान्त उत्तर पद अन्तोदात्त हों, इस से अग्नि करण कारक से परे ष्वात्त और दग्ध इन कप्रत्ययान्त उत्तर पदों को अन्तोदात्त स्वर हुआ है । यद्यपि ऐसी दशामें जब कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तथा संहिताओं के परस्पर मेलसे अग्निष्वात्त पदका अर्थ सिद्ध होगया कि जो अग्निसे जलाये गये वेही पितर अग्निष्वात्त तथा अग्निदग्ध हैं तब हमको अन्य प्रमाण की अ-

पेशा नहीं तथापि (अधिकस्याधिकं फलम्) के अनुसार (यान्त्रिरेव दहन्तस्त्वद्यति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः । काण्ड २) इस शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से भी सिद्ध होगया कि मरने पश्चात् जो आवसथ्य अग्निसे जलाये गये वेडी मृन पितर पितृयज्ञ वा श्राद्ध में लिये जाते हैं । मरने पर ही मनुष्यके शरीर अग्निसे जलाये जाते हैं तथा जो जलाये गये वे जीवित नहीं रह सकते इससे श्राद्धमें मृन पितरों का ही ग्रहण मन्त्रसंहिता के प्रमाणों से सिद्ध होजुका ।

सुना है कि जड़ कटनेसे बचराये हुए १० आ० समाजियों को यथा कथञ्चित् ढाढस बंधानेके लिये शतपथ के प्रमाणका समाधान कोई लोग यह करते हैं कि यहाँ शतपथ के द्वितीय कांड में यजुःसंहिता के १६ अ० के अग्निष्वात्त पद वाले मन्त्रों की व्याख्या नहीं है यजु के १६ वें अ० के मन्त्रोंकी व्याख्या १२ काण्डमें है इत्यादि कथन (मुष्मस्तीति वक्तव्यम्) के अनुसार है कि मुष्म हमारा है लेखनी मसो पात्र कागत्र पासही में है कुछ लिखना कहना भी पड़ता ही है यह न लिखें तो और लिखें ही क्या ! शतपथके द्वितीय काण्ड में १६ वें अध्याय के मन्त्रकी व्याख्या क्यों नहीं होसकती क्या इस में कोई नियामक है ? । यदि ऐसा कोई नियम होता कि आगे के सूक्तकी व्याख्या पहिले भाष्यमें न हो सकती तो अष्टाध्यायी व्याकरण के प्रत्याहार सूत्रों के महाभाष्य में (शरोऽन्त्रि) आदि अष्टमाध्याय के सूत्रों की व्याख्या क्यों की गयी ? । इस से वह विचार सर्वथा निर्मूल कट गया कि द्वितीय काण्ड शतपथ में १६ वें अ० के मन्त्रों की व्याख्या नहीं है । यदि यही बात है तो आगे के शास्त्रार्थ में शतपथ के अनुसार अग्निष्वात्त पद का अर्थ क्यों मान लिया था ? । भला यह तो बताओ कि शतपथ के १२ वें काण्डमें किस पते पर अग्निष्वात्त पदका क्या अर्थ लिखा है ? यदि पाठकों में से कोई इन से शतपथ के १२ वें काण्ड का पता मांगे तो कदापि नहीं बता सकते क्योंकि शतपथ १२ काण्ड में अग्निष्वात्त पदवाले किसी मन्त्रकी व्याख्या ही ही नहीं, शतपथ ३० के द्वितीयका

काण्डमें ऋग्वेदके मन्त्रोंकी व्याख्याभी नहीं, शतपथके प्रकरणादिका हाल इनच० भा० स० में कोई नहीं जानता इसीकारण जिसके मन में जो आना है वह वही लिख मारना है। प्रयोजन यह कि स्या० द० जीका किया अग्निष्वात्त शब्द का अर्थ शतपथसंहितासे तथा पाणिनीय व्याकरण से विरुद्ध वा अशुद्ध अवश्य है जिसका समाधान इन लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता और जा कोई गिरा पड़ा समाधान करेगा वह युक्ति प्रमाणों से अवश्य कष्ट जायगा और अग्निष्वात्त तथा अग्निदग्ध आदि संहिता के मन्त्रों से मरे हुए पितरों का श्राद्ध वा पूजन होना अवश्य सिद्ध है जिस में लेश मात्र भी सन्देह नहीं। मनुष्य के मरने पर दो प्रकार की क्रिया होती है। एक तो मरे हुए मुर्दा की आवश्यकतादि अग्नि से जला देना द्वितीय जिन का अग्निदाह विहित न होनेसे वा किसी खास कारणसे दाह न हो सके उन स्वयं को जल वा घन में फेंक देना वा खोद के गाढ़ देना यह दो प्रकार की क्रिया होती है। ये सब अनग्निष्वात्त वा अनग्निदग्ध कहाते हैं। अनग्निदग्ध वा अनग्निष्वात्त का यह अर्थ होगा कि जो २ अग्नि से नहीं जलाए गए उनके विषय में वेद का यह मन्त्र प्रमाण है कि अथर्व० काण्ड १८।२।३५ ॥

ये निखाता ये परीसा ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वांस्तानग्निं आवह पितृन्हविषे अत्तवे ॥

मरने पर जिनको खोद के गाढ़ दिया जो घन वा जंगल में छोड़ दिये गये जो अग्नि में जला दिये गये तथा जो युधिष्ठिरादि के तुल्य इसी शरीर से स्वर्ग की चले गये, हे अग्निदेव ! उन सब पितरों को हविष् खाने के लिये इस श्राद्धादि पितृकर्म में बुलाओ। इस मन्त्र के निर्विकल्प सीधे २ अक्षरार्थ से स्पष्ट ही सिद्ध है कि मरने के पश्चात् ही पृथिवी में गाढ़ देना आदि हो सकता है इस से श्राद्ध में मृत पितरोंका आवाहन करना सिद्ध है। वर्तमान पार्वणादि श्राद्धोंमें-

आयन्तुनः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्द्वयानैः । यजु० अ० १८।५८ ।

अग्निमें जिनका दाह कर्म हो चुका है वेसे सोमशुण्ठी वाले हमारे पितर देवयान नाम अन्तरिक्ष मार्ग से श्राद्ध में आवें । इस मन्त्रके अर्थ से भी मरे हुए पितरों का श्राद्ध सिद्ध है । शतपथ ब्रा० २ । ३ । ४ । २१ (तिरइव वी पितरो मनुष्येभ्यस्तिरइवतद्भवति) पितर लोग मनुष्यों से अदृश्य होते हैं और पितरों का भोजन भी अदृश्य सूक्ष्म होता है इस कथन से भी सिद्ध है कि स्थूल देहधारी पितर होते तो अदृश्य नहीं कहे जाते इस लिए पिण्डदानके सम्बन्ध में अदृश्य पितर कहने से वे ही प्राण शरीर वायुकाय सूक्ष्म अदृश्य पितर लेने चाहिये इस से भी जीवितों का खण्डन तथा मृत पितरों का श्राद्ध सिद्ध है । तथा शतप० २ । ३ । ४ । २ । ३ में पितरों के लिए प्रत्येक महीने में एक चार और मनुष्यों के लिये प्रतिदिन सार्य प्रातः काल दो बार भोजन प्रजापति ने नियत किया । यदि जीवित पितरों को मानें तो वे मनुष्य ही हुए तब बतलाओ कि वे ऐसे कौन मनुष्य हैं जो महीने भर में एक बार अमावस्या के दिनही भोजन करते हों । ऐसा मनुष्य कोई न हो सकने से मनुष्यों से भिन्न मरणानन्तर पितृयोनि में गये पितर ऐसे समर्थ होजाते हैं जिनको महीने भर में एक चार ही भोजन मिलने से तृप्ति रहती कष्ट नहीं होता इस से भी मृतों का श्राद्ध सिद्ध है । शाङ्खायन श्रौतसूत्र पिण्डपितृयज्ञ प्रकरण अ० ४ कं० ४ सू० ७ [न जीवपितुरस्ति] जिसका पिता जीवित हो वह पिण्डपितृयज्ञ न करे उसके लिये पिण्डपितृयज्ञ नहीं है इस प्रमाण से भी जीवितका निषेध करने से मरे पितरोंका श्राद्ध अर्थापत्ति से सिद्ध है जिसका पिता जीवित हो वह श्राद्ध न करे तो यह आया कि जिस का पिता मर गया हो वह पिण्डपितृयज्ञ करे । तथा शाङ्खायन श्रौतसूत्र साकामेध पर्वस्थ महापितृयज्ञ प्रकरण अ० ३ कं० १६ सू० २ [पितृभ्यो वा सोमवद्भ्यः पितृभ्यो बर्हिषद्भ्यः पितृभ्योऽग्निष्वात्तेभ्यः] सोमवान्, बर्हिषद् और अग्निष्वात्त इन तीन नाम वाले पितरोंके लिये महापितृयज्ञमें भाग वा पिण्ड दिये जाते हैं । इन में अग्निष्वात्त पितर वेही हैं जो मरणानन्तर अग्निदाहको प्राप्त हुए ।

इससे भी मृत पितरों के लिये श्राद्ध होना सिद्ध है । तथा पिरण्डपितृयज्ञ प्रकरण कात्यायन श्रौत सूत्र अ० ४ कं० १ सू० २३ (प्रतेभ्यो ददाति) प्रेत नाम मरे हुए पिता पितामहादि के लिये पिरण्ड देता है अर्थात् देने चाहिये । अर्थापत्ति से आया कि जीवितों के लिये नहीं । इससे भा मरे हुआओं के लिये पिरण्डदान देना सिद्ध है । तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्र पिरण्डपितृयज्ञ प्रकरण [यदि जीवत्पिता न दद्यादाहोमात्कृत्वा चिरमेत्] यदि जिसका पिता जीवित हो वह पिरण्डदान न करे तो होम पर्यन्त ही पिरण्डपितृयज्ञ करके ठहर जावे । इस से भी मरे हुआओं के लिये पिण्डदान सिद्ध है । तथा मानवकल्प सूत्र में लिखा है कि [यदि दद्याद्येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्] जिसका पिता जीवित हो वह यदि पिरण्ड देवे तो जिन पितामहादि मरोंके नामसे पितापिण्ड देवे उन्हींके लिये पुत्रभी पिरण्डदान करे अर्थात् अपने जीवित पिताके नामसे पिरण्डदान न करे । इससे भी मरे हुए पितादि के लिये पिरण्डदान सिद्ध है ॥

यजुर्वेदीय कठशाखा के काठक श्रौत सूत्र में लिखा है कि—

पितापुत्रौ चेदाहिताग्नी स्यातां येभ्यः पिता तेभ्यः पुत्रो दद्यात् । पिता प्रेतः स्यात् पितामहो जीवेत्पित्रे पिरण्डं निधाय पितामहात्पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यादिति ॥

यदि पिता पुत्र दोनों ने विधिपूर्वक श्रौत स्मार्त्त अग्नियोंका स्थापन किया हो तो प्रत्येक अमावास्याके दिन दोनोंको पिरण्ड पितृयज्ञ करना चाहिये इस दशा में जिन तीनके नामसे पिता पिण्डदान करे उन्हीं के लिये पुत्र भी पिरण्ड देवे किन्तु पुत्र अपने जीवित पिता के नाम से पिरण्डदान न करे । और यदि पिता मर गया हो पितामह जीवित हो तो पुत्र को चाहिये कि पिता के नाम से पिरण्डदान देकर जीवित पितामहको छोड़ उससे ऊपर के प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह नह दोनोंके लिये पिरण्डदान देवे । यह विषय ऐसा ही ज्योंका त्यों मनु० अ० ३ श्लो० २२० । २२१ में भी लिखा है जिससे सिद्ध है कि मृतपितादिके लिये पिरण्डदान होता है इसीका नाम श्राद्ध है । प्रयोजन यह कि प्रमाणों से तो अच्छे प्रकार सिद्ध है कि श्राद्ध मरे हुए पितादि का होता है जीवितों के सत्कारका श्राद्ध नाम किरती ग्रन्थसे कदापि सिद्ध नहीं हो सकता ॥

अब इन प्रमाणों को श्राद्ध के न मानने वाले कहेंगे कि ये प्रमाण प्रक्षिप्त हैं वा वेदविरुद्ध हैं इसलिये हम नहीं मानते । इसका उत्तर हम यह देते हैं कि जैसे वा जिस नियमसे उक्त वेदादिके प्रमाण प्रक्षिप्त वा वेद विरुद्ध तुम लिखते वा कहते हो उसी प्रकार वा उसी नियम से तुम्हारा यह कथन कि "ये प्रमाण प्रक्षिप्त वा वेदविरुद्ध हैं" प्रक्षिप्त वा विक्षिप्त वेदशाखादि सबसे विरुद्ध महा मिथ्या है । इस एक कथन के मिथ्या हो जाने से सब ऋषियों के ग्रन्थ तथा वेद निष्कलङ्क हो जाते हैं । जिस एक के मिथ्या ठहर जानेसे अनेक तपस्वी महर्षियों के लेख तथा वेद सत्य ठहर जाते हैं वह स्वयं मिथ्या अनेक सत्यों को मिथ्या कदापि नहीं ठहरा सकता । यदि किन्हीं विद्याबुद्धिहीन स्वार्थसाधन में तत्पर धर्म कर्म की मर्यादासे शून्य मनुष्योंके लिखने और कहने मात्र से बड़े २ वेद तत्त्वार्थवेत्ता महर्षियों के ग्रन्थ मिथ्या हो सकते हैं तो वैसे ही हमारे कहने वा लिखने मात्र से उन लोगों के ही कथन वा लेख मिथ्या होजाय जिससे वास्तिकताकी भी रक्षा बनी रहे । वेद में यदि ऐसा कहीं लिखा हो कि जीवित पितादिके लिये वा उनके नाम से पिएड देने चाहिये और अन्य ग्रन्थोंमें मृतकों के लिये पिएडदान लिखा हो तो वह वेद विरुद्ध माना जा सकता है । जब कोई प्रतिपक्षी जीवितों के लिये वेद में पिएडदान दिखा ही नहीं सकता तब ऋषियों के ग्रन्थोंको मिथ्या ही वेद विरुद्ध कहने लिखने का साहस कैसा अधम है यह सोचने वाले स्वयं जानही लेंगे ॥

अब यह दिखाना है कि श्राद्ध किसको कहते हैं ? ।

अपरपक्षे श्राद्धं कुर्वीत इति कातीयश्राद्धसूत्रे ।

कातीय श्राद्धसूत्र में लिखा है कि कृष्णपक्ष में श्राद्ध करे । शत-पथ ब्राह्मण में लिखा है कि जिस दिन न पूर्व में न पश्चिम में चन्द्रमा दीखे उस दिन पितरों के लिये पिएडदान करे ।

अपराह्णे पिएडपितृयज्ञश्चन्द्रादर्शनेऽभावास्थायाम् ॥

कात्यायन श्रौत सू० ४ । १ । १ ।

दोपहर के बाद जिस दिन चन्द्रमा न दीखे उस अभावास्था के दिन पिएड पितृयज्ञ करे । काम्य श्राद्धों की तिथि भिन्न २ हैं । प्रयो-

जन यह कि चिवाह यज्ञोपवीतादि के तुल्य एक खास प्रकार के कर्म का नाम श्राद्ध वा पितृयज्ञ है। इस श्राद्ध में जो २ कृत्य जिस २ प्रकार करना चाहिये और उस श्राद्ध के जितने अवान्तर भेद हैं वे सब श्रुति स्मृति श्रौत गृह्यसूत्र और इतिहास पुराणादि में अति-प्राचीन कालसे विस्तार पूर्वक लिखे हुए हैं जिनके अनुसार अनादि कालसे पद्धति भी चली आती है जिस कृत्यमें आज तक किसी आस्तिक को लेशमात्र भी कभी सन्देह नहीं होता कि श्राद्ध किसको कहते हैं ? सो अति प्रसिद्ध विषय में सन्देह होता ही क्यों ? परन्तु अब अनुमान ३० वर्ष से किन्हीं आसुरी सम्प्रदाय के मनुष्यों ने स्वधर्म मर्मनिभ्रंज होनेसे स्वयं भी धर्म च्युत दुर्भागोंको कलिके प्रभाव से अधोगतिमें गिरानेके लिये वा आस्तिक सम्प्रदाय वैदिक धर्मको धक्का देनेके लिये प्रत्यक्ष आंखोंमें धूल भोंकते हुए केवल धींगा धींगी से यह प्रकट किया है कि जीवित माता पिता की सेवाका नाम श्राद्ध है। परन्तु इसके लिये लेख प्रमाण वा प्रबल्युक्ति इन के पास कोई नहीं, इसी से अब यह कटता भी जाता है ॥

पिता पुत्रका सम्बन्ध शरीरके साथ है वा जीवात्माके साथ ? ॥

इस प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से इसी पुस्तक में अन्यत्र मिलेगा उसका संक्षेप से अभिप्राय यह है कि पिता पुत्रका मुख्य संबन्ध मन बुद्धि चित्तादि नामक अन्तःकरण के साथ है अन्तःकरण स्वयं जीव स्वरूप है वा यों कहो मानो कि जो सूक्ष्म वा लिङ्ग शरीर लोकान्तर देशान्तर वा जन्मान्तरों में गमनागमन करता है उसके साथ मुख्य सम्बन्ध है उसी के कारण स्थूल शरीर से भी गौण रूप पिता पुत्र सम्बन्ध माना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष युक्ति यह है कि किसी कारण पिता पुत्रों में शत्रुता हो जाय दोनों एक दूसरे को शत्रु भावसे देखने लगे और पिता मानले कि यह मेरा पुत्र नहीं वा पुत्र मानले कि यह मेरा पिता नहीं तो वित्तका सम्बन्ध टूटने पर स्थूलशरीरोंसे भी संबन्ध नहीं रहता। अथवा पिता वा पुत्रको वा दोनोंको ठीक २ ज्ञान प्राप्त हो जाय तो भी स्थूल शरीरों से पिता पुत्र सम्बन्ध निवृत्त हो सकता है, इस कारण जीव के साथ ही पुत्र वा पिता का सम्बन्ध

मुख्य है इसी से (हृदयादभिजायसे) यह वेद का कथन ठीक षट्ता है कि पिता के मन से पुत्र का मन बनता है । जब अन्तःकरणवच्छिन्न जीवके साथ पिता पुत्र सम्बन्ध हैं तब वही जीव स्थूल शरीर का ध्वंस हो जाने पर भी लोकान्तर वा जन्मान्तर में जाता है उसी को जन्मान्तरिय अन्य भोगायतन शरीर में श्राद्ध का फल प्राप्त होने में कुछ आपत्ति नहीं है । जीवित पिता को जला देनेमें वा गाढ़ देने में जो दोष शास्त्र रीति वा लोकरीति से माने जाते हैं वे कुछ भी मृत शरीर के दाहादि में नहीं । इससे भी जीव के साथ सम्बन्ध वा प्रेम वासना की मुख्यता होना स्पष्ट सिद्ध है ॥

६-ब्राह्मणों का पेट क्या लेटर वक्स है ? जिस में डाला हुआ भोजन पितरों को पहुंचेगा ।

७-जैसे चिढ़ी पहुंचने की रसीद आजाने पर विश्वास हो जाता है वैसे क्या ब्राह्मण लोग पितरों की रसीद श्राद्ध कर्त्ता को मंगा दे सकते हैं ? ॥

इन दो प्रश्नों के उत्तर भी अन्यत्र मिलेंगे पर संक्षेप से यहाँ भी लिखे देते हैं । वेदादि शास्त्रों का तात्पर्य वा मन्तव्य अनेकांशों में लोकव्यवहार से विलक्षण होने पर भी अधिकांश लोक व्यवहार के अनुकूल है इसीलिये-

अर्थवन्तः शब्दसामान्यात् ॥ निरुक्त अ० १ ।

पा० ५ । खं० १ ॥

यास्क महर्षि ने कहा है कि लोक के समान होने से वैदिक शब्द भी अर्थ वाले हैं निरर्थक नहीं हैं । लोक में भी यह रीति है कि जिस देशके राजा वा श्रीमान् लोग जिन २ लोगों को श्रेष्ठ माननीय विद्वान् होने से वा धर्मानुष्ठानी तपस्वी परोपकार परायण होने आदि लोकोत्तर गुणों से पूज्य वा सर्वोपरि प्रतिष्ठार्ह माना करते हैं उन की पूजा प्रतिष्ठाको विद्यादि गुणोंका ही आदर करना माना जाता है वैसे धार्मिक तपस्वी परोपकार प्रिय ब्राह्मण विद्वानों के आदर सत्कार को परम कर्त्तव्य मानते हुए उन के आदर सत्कार करने वालों को अपना ही आदर करने वाले मानकर उन पर विशेष

सन्तुष्ट वा प्रसन्न होते हुए उन गुणग्राही आदर करने वालों को राजादि लोग शुभ फल दे कर सन्तुष्ट करते हैं। इसी के अनुसार ईश्वर देव पितर सभी विद्यादि शुभ गुणों द्वारा संसार की उन्नति चाहते हुए धार्मिक परोपकारी विद्वान् ब्राह्मणों का आदर सत्कार श्राद्धादि की रीति से करने वालों पर सन्तुष्ट प्रसन्न होकर उन श्राद्धादि कर्त्ताओं को शुभ फल देते हैं और पेसा करने के लिये ही उन ईश्वर देवादि ने वेदादि शास्त्रों द्वारा श्राद्धादि करने का विधान और आदेश किया है पेसा मान लेने पर भी धार्मिक विद्वानों के सत्कार से पितरों को प्रसन्नता फल पहुंचना सिद्ध है ॥

और रसीद मिलने का विचार अविश्वास प्रतिपादक है अर्थात् जिस के द्वारा किसी को कुछ दिया जाय उस का विश्वास न हाने पर ही रसीद की अपेक्षा हा सकती है यदि भंजने वाले को दूढ़ वा अटल विश्वास हो तो रसीद की अपेक्षा कदापि न होगी। सांप्रतकाल में तो यहां तक अविश्वास फैल गया है कि अपने किसी परम मेलीको स्वयमेव सामने ही कुछ दिया जाय अर्थात् अन्यके द्वारा न भेजा जाय तो भी रसीद लेनेको चेष्टा की जाती है। और रसाद मिल जाने पर भी उस को ठीक असली रसीद मानकर विश्वास कर लेते हैं यदि विश्वास न किया जाय और रसीद में बनावटी हाने की शंका हो जाय तो बताइये कि रसीद मिलने पर भी क्या पुष्टि हुई ?। हमारे सनातनधर्म में असत्य नहीं था किन्तु सत्य का अटल प्रचार था इसी से अविश्वास न होने के कारण रसीद की अपेक्षा ही नहीं थी। जिनको अपने धर्म पर विश्वास ही नहीं उनका सन्देह रसीद से भी नहीं मिट सकता ॥

८।६। प्रश्न—जैसे अन्य के लिये कर्म का फल अन्य को नहीं होता, पुत्र चोरी करे तो पिता वा भाई को जेलखाना नहीं होता, तदनुसार यदि पिता कुकर्मी है तो वह अपने किये का फल भोगेगा पुत्रादि उस को श्राद्ध द्वारा सुख पहुंचाने की चेष्टा करें तो व्यर्थ है। यदि पितादि सुकर्मी होके मरा है तो वह जन्मान्तर में अपने ही कर्म से सुखी रह सकता है उस के लिये भी श्राद्ध करना व्यर्थ है। अन्य के किये का फल अन्य को पहुंच भी नहीं सकता इस से भी श्राद्ध व्यर्थ है ॥

नामुत्रहिसहायार्थं पितामाताचतिष्ठतः ।

नपुत्रदारानञ्जातिर्धर्मस्तिष्ठतिकेवलः ॥ अ० ४ ।

इस मनु जी के कथनानुसार भी जन्मान्तर में स्त्री पुत्रादि सुख फल नहीं पहुँचा सकते इस से भी श्राद्ध व्यर्थ है ॥

उ०-इन प्रश्नों का भी विशेष उत्तर अन्यत्र मिलेगा पर कुछ यहाँ भी लिखते हैं। अपने किये कर्मका फल उसी कर्त्ताको भोगने पड़ता है अन्य को नहीं यह बात तो हमें भी निर्विवाद अभिमत है परन्तु अन्य लोग कुटुम्बी आदि दुःख पड़ने पर उसको सहायता क्यों दें? वा न दें? यह कहना प्रत्यक्ष प्रमाण से भी विरुद्ध है अर्थात् प्रश्न करने वाला स्वयमपि ऐसा न मानता न करता है किन्तु जब किसी अपने प्रिय स्त्री पुत्रादि को वा प्रिय मित्र को कोई रोग हो जाता है तब दिन में इधर उधर दौड़ते कष्ट सहते वैद्य डाक्टर को लाते और धर्म से उपार्जित धन का व्यय करके रोग के कष्ट से छुड़ानेका शक्ति भर पूरा उद्योग प्रशक्तार्त्ता भी करते हैं। ऐसे समय यह क्यों नहीं कहते कि हे स्त्री पुत्रादि लोगों! जिस कुपथसे रोगादि हुआ है वह कुपथ्य कर्म तुमने किया था, हम तुम्हारा औपग्र कराने में कष्ट वा व्यय क्यों सहें? तुमने किया है तुम्हीं भाँगा ऐसा न करके इस से विरुद्ध प्रायः सभी करते हैं। द्वितीय-किसी अपराध के कारण किसी अपने प्रेमी पर जब कोई अभियोग आता है तब सभी लोग शक्ति भर परिश्रम और सहस्रों रुपया व्यय करके भी उस अपराधी को निरपराधी सिद्ध करते हैं और यावत् शक्य उस को कारागार से छुड़ा लेते हैं तब क्यों नहीं कहते कि तुम ने जो कर्म किया है उस का फल स्वयं भोगो हम कुछ सहायता नहीं देंगे। तीसरे दीन दुःखी अन्धे पङ्क आदि की रक्षा वा भरण पोषण करने वाले यह नहीं कहते कि तुम ने किया है सो भोगो हम सहायता नहीं देंगे ॥

(नामुत्रहिसहायार्थं) इत्यादि मनु जी का प्रमाण विधिवाक्य नहीं किन्तु (धर्म शनैः संविनुयात्०) इस विधिवाक्यका अर्थवाद है कि पिता माता स्त्री पुत्र कुटुम्बी इत्यादि सबसे बड़ा धर्म को समझे इनके लिये भी अधर्म न करे। कर्त्तव्य धर्मानुष्ठान के अर्थवाद का यह अभिप्राय कैसे हो गया कि वेदादि शास्त्र प्रतिपादित श्राद्ध मत करो। यह मान लिया कि जन्मान्तरस्थ नरकादि में होने वाले

दुःखों से बचाने के लिये पुर्वजन्म के माता-पिता स्त्री पुत्रादि उपस्थित नहीं हो सकते यह ठीक है तो भी यह कैसे आया कि श्राद्ध मत करो । किन्तु यह अभिप्राय क्यों न मान लिया जाय कि मनु जी ने श्लोका होंगे कि यदि पुत्रादि पानी देवा कोई न हों वा हों भी तो पितादि के मरने बाद शीघ्र ही वे भी प्लेगादि महा रोगोंसे मर-जावें, वा न भी मरें तो ईसाई मुसलमानादि विधर्मों हो जावें, वा विधर्मों भी न हों तो समाजी कुतर्क जालमें फँस जाने से श्राद्ध करनेमें श्रद्धाही न रहे वा यह कुछभी न हो तो श्राद्ध ही ठीक २ श्रद्धा और विधि से न करसकें क्योंकि मूर्ख और श्रद्धाहीन मनुष्यों का अधिक भाग होता है । जब भावी पुत्रादि के विद्यमान रहने वा ठीकर श्राद्ध कर पानेका कोई निश्चित नियम नहीं है तब उनके भरोसे क्या धर्मका त्याग करना बेसम्झी नहीं है ? और यहभी मानलें कि किसीके पुत्र ठीकर २ अच्छा श्राद्ध करने वाले भी हों तो भी जैसे गिरफ्तार हुए मनुष्यके जो अधिक सहायक हों वे छुड़ानेका उद्योगभी करें तो भी एकदम जेलसे नहीं छुड़ा पाते वैसे अपने प्रबल दुष्कर्मों से नरकमें गये पितादिको तत्काल नरकादिसे एकदम नहीं छुड़ा सकते किन्तु श्राद्ध द्वाराभी धीरे २ ही छुड़ा सकते हैं । किसी रोगीका प्रबल रोग समारोह से औषध करने परभी धीरे २ ही जैसे शान्त होता है वैसे शनैः २ नरकादि दुःख रूप रोगोंसे श्राद्धादि औषधभी चचाता है तो भी दुःख सर्वथा बच नहीं सकते इस लिये श्राद्धादि के भरोसे पर भी मनुष्य को अपने कर्त्तव्य धर्म से विमुक्त नहीं रहना चाहिये । और यदि पितादि सुकर्मों हैं तो जैसे धनी को अधिक अधिक ऐश्वर्य प्राप्ति से सुख भी वैसे ही बढ़ता है वैसे पुण्यात्मा पितादिको श्राद्धादि का अधिकाधिक पुण्यभार नहीं होता इस लिये श्राद्ध सब दशामें कर्त्तव्य है अपने लियेभी श्राद्धका उत्तम प्रतिफल अवश्य होता है ॥

प्रश्न १०—तुम्हारे पितादि का जन्म किस २ देश लोक वा योनि में हुआ यह ज्ञात नहीं कल्पना करो कि कृमि कीट पतंग मक्खी स्करादि योनियों में जन्म हुआ तो श्राद्धका फल उनको किस प्रकार पहुंचेगा ? ॥

उत्तर-हमारे पास इसके अनुमान और आगम सम्बन्धी सहस्रों प्रमाण विद्यमान हैं कि नरे हुए मनुष्य कित २ योनियों में गये वा जाते हैं । इसमें अनुमान प्रमाण तो यही है कि जिन २ योनियोंमें देशोंमें वा लोकों में उत्पन्न होने वाले प्राणी जन्म से ही अनायास जैसे २ शुभ वा अशुभ भोगों को प्राप्त हुए हैं उन भोगोंसे उनके पहिले कर्म सिद्ध हैं कि ऐसी २ कर्म वासना सञ्चित होने पर ऐसे २ भोग मिलते हैं । स्त्रियोंका रूप बनाके नाटक खेलने वाले वा गोपी बनने वाले रासधारी आदि पुरुष होने पर भी स्त्रीकी भावना करने से जन्मान्तर में अवश्यमेव स्त्री योनियों में जन्म पाते हैं । हम इस बात को मानते हैं कि अंगरेजों का सा आचार विचार खान पान करने वाले उसी दशा वा पहनाव आदि की नकल करने वाले और उसी दशाको प्रशस्त मानने वाले जो हिन्दु जट्टलमेन मरते हैं वे अंगरेजोंमें जन्म लेते हैं यदि उनमें कोई भारतवर्ष की उन्नति चाहने वाला अंगरेजों में जन्मता है तो वह अङ्गरेज होकर भी भारत की उन्नतिका सहयोगी अवश्य बनता है । हमारा विश्वास है कि कां-ग्रेसके सभापति श्रीमान् ह्यूम्स साहब पहिलेके हिन्दू थे । यह बात प्रत्यक्षसे भी सिद्ध है कि जिसके मनमें जिस देश जाति वा रूपादि की प्रबल वासना होती है कि मैं अमुक दशामें प्राप्त हो जाऊँ वह अपनी वासना से प्रेरित हुआ वैसा बनने की पूर्ण चेष्टा करता है । अर्थात् मानसी वासना ही मनुष्यों की प्रवृत्तिके मैदानमें घुमा रही है अपनी २ वासनाके अनुसार ही सब प्राणी उस २ विषयकी ओर ऋपटे हुए जा रहे हैं ॥

धर्मशास्त्रों के भी सहस्रों प्रमाण इस विषय में विद्यमान हैं कि ऐसे २ कर्म करने वाले मनुष्य अमुक २ लोकोंमें अमुक २ योनियोंमें जन्म पाते हैं । मनुस्मृति अध्याय १२ के ५३ श्लोक में कहा है कि—
यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेहकर्मणा ।

क्रमशोयां तिलोकेऽस्मिंस्तत्तत्सर्वनिबोधत ॥ १ ॥

अर्थ—इस जगत्में जिस कर्मके करनेसे यह जीव क्रमशः जिसरं योनि को जन्मान्तर में प्राप्त होता है उस २ को तुम खुनो हम कहते हैं यह महर्षि भृगु ने अन्य ऋषियों से कहा है । ऐसा कहकर ५४से ७२ श्लोक तक में—चार २ निरपराध ब्राह्मणों को मारडालना, वा तंग करना, नीच वर्ण से ऊँच बनने के लिये मिथ्या भाषण करना

राजदरवारमें निर्दोषीको दोषी सिद्ध करके यथ दण्ड दिलाना, और शुभ पर मिथ्या दोष लगाना इत्यादि ब्रह्महत्या सम्बन्धी कर्मोंके वारं-
 करने से सहस्रों वर्ष पर्यन्त भयंकर नरकों के दुःख भोगने वाद् क्रम
 से कूकर, सूकर, खर, गर्दभ, ऊँट, बिल, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी,
 घण्डाल और पुकस जानियों में जन्मता है। इसी प्रकार के धर्म-
 शास्त्रों में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के जन्मान्तरमें होने वाले
 फल दिखाये हैं और जो २ मनुष्य संसार में जैसे २ कर्म करता है वे
 छिपाने पर भी नहीं छिपते किन्तु प्रायः ज्ञात हो ही जाते हैं इसलिये
 जय उन २ के कर्म ज्ञात हैं और उन कर्मों से होने वाले जन्मान्तर
 लिखे हैं तब हम जान सकते हैं कि अमुक २ मनुष्य ऐसे कर्म करने
 वाले थे वे मरणान्तर कहाँ २ गये हैं। कृमि कीट पतङ्गादि किसी
 भी योनि में मृतक पुरुष का जन्म ही उसके लिये श्रद्धा और विधि
 से किया श्राद्ध उस २ योनिके अनुकूल भोगमें उसे प्राप्त होगा और
 वही योनियों से उद्धार करने वाला होगा अर्थात्—नीच से नीच
 योनियों में गये वा ऊँच से ऊँच देवादि योनियों में गये सब प्रकार
 के प्राणियोंकी स्वाभाविक इच्छा है कि हम जिस किसी प्रकार ऐसी
 उच्चदशा को प्राप्त होसकें कि जिससे अधिक उत्तम दशा और कोई
 न हो वा न हो सकती हो। तथा ऐसी ही अभिलाषा अपने परम
 मान्य पिता मातादि के लिये परम आस्तिक श्रद्धालु सुपुत्रादिके मन
 में स्वाभावतः हुआ करती है कि हमारे माता पितादि जिस उपाय के
 द्वारा उच्च से उच्च सर्वोत्तम सुख को प्राप्त हो सकें उसी उपाय का
 अनुष्ठान करना हमारा परम कर्त्तव्य है। ऐसी अभिलाषाके साधक
 उपाय वेदादि शास्त्रों में अनेक होने पर भी उन्हीं में से एक महान्
 उपाय पितृयज्ञ अथवा श्राद्ध तर्पणादि है। वा यों कहो कि पूर्वोक्त
 अभिलाषा ही श्राद्धरूप विचित्र भित्तिकी नींव है इसी नींव पर पर-
 मेश्वर रूप राज ने श्राद्धरूप भित्ति खड़ी की है क्योंकि—

अकामस्य क्रियाकाचिद्द्रुश्यतेनेह कर्हिचित्मनु०प्र०२ ।

कामनासे रहित कोई क्रिया नहीं है मनुष्यके लिये २ जिस कर्तव्य का आदेश शास्त्रों में किया गया है वह २ सभी सामान्य वा विशेष अभिलाषा के उद्देश पर ही निर्भर है। अब पाठक लोग ध्यान दें कि श्राद्धादि में पूज्य पितरों और पूजक पुत्रादि का उद्देश ही सर्वोत्तम दशा प्राप्ति की कामना है तब हमारे मृत पितादि का जन्म किस लोक देश वा योनि में हुआ इस हुजत से क्या प्रयोजन है। अर्थात् कुतर्कका प्रयोजन यही हो सकता है कि श्राद्धालु मनुष्य ऐसे व्यर्थ कुतर्कों के पेश में पड़ के अपने उद्देश से डिग जाय वा उसे भूल जायें ॥

मृतक श्राद्ध विषयक प्रश्नोत्तर ।

पाठक महाशय ! इस समय मृतक श्राद्ध विषयक प्रश्नों के दो पुस्तक एक सनातनधर्म सज्जन के द्वारा खण्डनार्थ भेजे हुए हमारे सामने विद्यमान हैं ये दोनों ही पुस्तक वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य आर्य्यसमाजियों के बनाये हैं उनमें एक का नाम "श्राद्ध विचार," और द्वितीय का नाम "मृतकश्राद्ध विषयक प्रश्न" है पहिले लाहौर के छपे श्राद्ध विचार पुस्तक में ३५ प्रश्न हैं और द्वितीय (बाबूराम शर्मा इटावा द्वारा प्रकाशित) में २८ प्रश्न हैं। इनमें कई प्रश्न दोनों के एक भी मिलजाने संभव हैं उनका उत्तर एक ही साथ दिया जायगा। इनमें इटावा वाला ट्रैक्ट ११ वार छप चुका है जब यह दशम बार सन् १९८४ में छपा था तब इस के टाइटिल पेज में छपा गया था कि "१२ वर्षसे ये प्रश्न बराबर बांटे जा रहे हैं परन्तु अभी तक किनी पौराणिक ने उत्तर नहीं दिया है। परन्तु संवत् १९६८ के छपे ट्रैक्ट में यह इवारत निकाल दी गई है मालूम पड़ता है कि समाजी महाशयने इन प्रश्नोंके उत्तरोंको कहीं छपा हुआ देखा है तभी पूर्वोक्त इवारत एकादश संस्करण से निकाल दी गई है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर सनातनधर्म समाजों में व्याख्यानों द्वारा अनेक बार दिया जा चुका है। पर किन्तु भी हमारे समाजी भारी

वैदिक धर्म कर्म का नाश करनेके लिये ऐसे २ द्रुक्कों का छपाना बन्द नहीं करते जिस तरह ईसाई लोग रामपरीक्षा, कृष्णपरीक्षा आदि वैदिकधर्म की निन्दा से भरे हुए द्रुक्क जगह २ वांटते हैं वही रीति अब समाजी भाइयों ने भी ग्रहण की है। सनातनधर्म-समाजों का कर्तव्य है कि इन द्रुक्कों के उत्तर में ऐसे ही छोटे २ द्रुक्क जगह २ पर वेचें और वांटें जावें, अन्यथा, वेदशाखानभिक्ष साधारण जनों का ऐसी शङ्काओं के जाल में पड़कर वैदिक-मार्ग से च्युत होजाना सम्भव है। शाखानभिक्ष मूर्खों के से प्रश्र होने के कारण किसी साक्षर विद्वान् का कर्तव्य नहीं था कि ऐसे प्रश्नों पर लेखनी उठाता परन्तु साधारण सनातनधर्म मनुष्यों को ऐसे प्रश्नों से श्राद्धतर्पण में शंका हो जाना सम्भव देखकर हमने उत्तर देने का विचार स्थिर किया है। लाहौर वाले श्राद्ध विचार पुस्तक की-भूमिका के आरम्भ में मनुस्मृति का आधा श्लोक लिखा है कि—

यस्तर्कैषानुसन्धत्ते स धर्मो वेद नेतरः ॥

इसमें (धर्म) यह पद संस्कृत विद्या से शून्य होने के कारण अशुद्ध लिखा छपाया है (धर्म) शुद्ध होना चाहिये, इस आधे श्लोक से लेखक सन्तराम [अशुद्ध] नाम वाले समाजी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “धर्म परीक्षाके हेतु तर्क से निश्चय करने का परिपाटी आर्य सन्तान ने धर्म प्रतिपादक वेदको छोड़ देने के कारण विस्मृत करदी है जिससे मृतक श्राद्धादि अधर्म को भी धर्म मानने लगे इत्यादि” हमने यह सन्तराम का अभिप्राय लिखा है, उक्त समाजी महाशय यह भी लिखते हैं कि—अगर ३५ प्रश्नों के पढ़ने से एक भी पुरुष श्राद्ध के तत्त्व को समझ जायगा तो मैं अपने प्रयत्न को सफल समझूंगा। अर्थात् मेरे लिखने से एक भी मनुष्य श्राद्ध को छोड़ देगा तो मैं प्रश्नों की सार्थकता हां गयी ऐसा मानता हुआ सन्तुष्ट हो जाऊंगा ॥

अब पाठक महाशय ! इधर ध्यान दीजिये कि (यस्तर्कैषा०) इत्यादि ऊपर के लिखे श्लोकका आधा भाग समाजोंने जो चुरालिया सो ऐसी चीरी करना चाहा दयानन्द जी ही समाजियों को सिखा

गये थे। स्वामी दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाशादि पुस्तकोंमें [तामने०] इत्यादि प्रलोकों के आधे २ भाग चुराकर मनमाने अपने मत का बलाने के लिये आधे २ श्लोक लिखकर मनमाना अर्थ कर लिया था। पाठक देखिये मनु भगवान् का पूरा श्लोक ऐसा है कि—

आर्षधर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसन्धत्ते सधर्मवेदनेतरः ॥ अ० १२ ॥

अर्थ—अपि दृष्ट हानसे आर्ष नाम वेद और वेद मूलक धर्मोपदेश रूप धर्म शास्त्र का श्रुति स्मृति से, अविरोध तर्क के द्वारा जो अनुसन्धान कर सकता है वही धर्म के तत्त्व को जान पाता है। यदि केवल तर्कसे वेदोक्त धर्मका तत्त्व कोई जान सकता तो चार्वाक बौद्ध जैनादि हमारे ही भाई नास्तिक क्यों बन जाते ?। यदि सभी तर्क वेदशास्त्रानुकूल ही होते तो भगवान् मनु जी वेदशास्त्र के अविरोधी तर्क से अनुसन्धान करने की सम्मति क्यों देते ? अर्थात् वेदशास्त्र के विरोधी तर्क से वा केवल तर्क से अनुसन्धान करके कोई भी धर्मके मर्म को नहीं जान सकता इसी बात को जताने के लिये मनु जी ने [वेदशास्त्राविरोधिना] ऐसा कहा है और इसी अभिप्राय से द्वितीय अध्याय के आरम्भ में (तैसर्वार्थेष्वमीमांस्ये०) (योऽवमन्येत ते मूले०) कहा है कि श्रुति स्मृतिके प्रमाणों पर कर्त्तव्य कामोंके लिये शंका न करे किन्तु श्रद्धा विश्वास के साथ सत्य मानकर कर्त्तव्य का पालन करे, जो कोई धर्म के मूल श्रुति स्मृतियों का शास्त्र मर्यादा से विरोध तर्क के द्वारा अपमान करता है वही नास्तिक हो जाता है। इसी अवलम्ब से चलने वाले ब्राह्मणादि आस्तिकों के भाई चार्वाक बौद्धादि नामों से वेदविरोधी नास्तिक बनकर हम लोगों से पृथक् होगये, अब कुछ काल से यही मार्ग हमारे भाई आ० समाजियों ने पकड़ा है। यदि इन आ० समाजियों ने अपने मन्तव्य का संशोधन कुछ न किया और ऐसे ही अन्धाधुन्ध मनमांसी करते गये तो कुछ काल के बाद यह समुदाय भी आस्तिक मण्डलीसे पृथक् होकर नास्तिकोंका एक मत बन जायगा। और स्वा० दयानन्द जी तीर्थङ्कर के तुल्य हो जायेंगे ॥

हे समाजी ! आप लोग हमारी कठोरताकी क्षमा करके सोचिये कि क्यों सत्यार्थप्रकाशादि पुस्तकों का कोई केवल तर्कसे खरडन करने लगे तो आप सिद्धकर सकोगे ? अर्थात् कदापि नहीं । आपकी मानी हुई सैकड़ों बातें ऐसी अब भी हैं जिनका प्रमाण शून्य तर्क से खरडन होसकता है इसलिये वेदादि शास्त्रों के शुद्ध वेदानु-कूल अर्थका अनर्थ करने की टेव छांड दोगे तो आपके लिये अच्छा ही होगा ॥

(प्रश्न १)—मरनेके पीछे मनुष्य के आत्माका जन्म कितने दिन वा.काल पीछे होता है ? ।

(उत्तर १) हे समाजी ! इस प्रश्नमें जन्म पूछनेसे तुम्हारा क्या मनुष्यादि पांच महाभूतों के शरीर से प्रयंजन है ? क्या तुम इन्हीं प्रत्यक्ष स्थूल शरीरोंको ही जन्म पदवाच्य समझते हो ? तब तो अपने सत्यार्थप्रकाशादि पुस्तकोंके अनुसार तुमको ही बताना चाहिये कि कितने वर्ष मास पक्ष सप्ताह और दिनोंमें मरा हुआ जीव अर्चि-रादि क्रम से अन्न के द्वारा मनुष्यादि के वीर्य में आता है । क्या तुमने स्वा० दयानन्द का लेख नहीं देखा है कि मरने पर जीव यम नामक वायु के साथ आकाशको चला जाता है वहां से सूर्य के किरणादि अनेकोंमें घूमता २ वर्षाजल में घूमता २ ओषधि वनस्पति अन्नादि खाने से वीर्यमें आता है और वीर्यसे गर्भाशय में आकर दशमास में शरीर बनकर जन्म लेता है । यदि तुम इस वावा दयानन्द के लेखको मानते हो तब तुम पर बहुत प्रश्न हो सकते हैं । एक तो यह कि मृत जीव को इतना लम्बा सफर क्यों कराया जाता है ? २—सीधा ही किसी योनिमें क्यों नहीं भेज दिया जाता ? । ३—पापी और पुण्यात्मा दोनोंको एकसा ही चकर क्यों कराया जाता है ? । ४—सब घास वा अन्न खाने में ही नहीं आता तब जो घास शाक अन्नादि किसी प्राणीके खाये बिना ही सड़ गलके नष्ट हो जाते हैं उन के जीव फिर कहाँ जाते हैं ? । ५—जो २ मनुष्य पशु पक्षी आदि जब जब खी से संयोग करते हैं तब २ गर्भस्थित नहीं हो जाता तब

व्यर्थ नष्ट हुए धीर्यवाले जीव कहाँ जाते हैं ? । इत्यादि प्रश्नों का भार-समाप्ती के शिर पर है ॥

अब रहा सनातनधर्म का सिद्धान्त सो भी सुनिये कि मरने पश्चात् तत्काल ही कर्मानुसार स्वर्गीय नारकीय वा मध्यकोटिस्थ स्थूल सूक्ष्म किसी न किसी योनिका शरीर बना हुआ उस जीवको मिलता है । यदि वह मनुष्यादि स्वर्ग प्राप्ति के योग्य पुण्यपात्र है तो उसी शरीर से निकले पुण्यविशिष्ट परमाणुओं से तत्काल बना अयोनिज सूक्ष्म दिव्य शरीर मिल जाता है उस के सहित स्वर्ग को प्रस्थान करता है । यदि वह जीव नरक में जाने योग्य पापी है तो पाप विशिष्टपरमाणुओं से तत्काल बना शरीर मरते समय देवी नियम से तैयार मिलता है उसी से यमराज के दरवार में पेशी होकर नरक का नम्बर और नरक भाग की धर्म संख्या की चिट मस्तक में लगाकर उसी नरक को दूर्तों द्वारा खाना किया जाता है । मनु० अ० १२ । १६ ॥

पञ्चम्य एव मात्राभ्यः प्रेत्यदुष्कृतिनां नृणाम् ।

शरीरं यातनार्थीय-मन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

वर्ध-पापी मनुष्यों के मरते समय पञ्चतन्मात्र रूप सूक्ष्म मूर्तोंसे नरक सम्बन्धी पीड़ा भोगने योग्य अन्य नया नारकीय शरीर तत्काल उत्पन्न हो जाता है । अर्थात् नारकीय जीवों के लिये पहिले से यमराज के यहाँ से चारण्ट कट जाता है उस चारण्ट को लिये यम-दूत तयार ही खड़े होते हैं प्राणी के शरीर से निकलते ही नारकीय शरीर रूप बोला में गिरकार कर लेते हैं । अब रहे तीसरी कोटि के प्राणी मर्त्यलोक में फिर से जन्म लेने वाले उन को प्रथम मरते ही समय प्रेतयोनि के शरीर धारण करने पड़ते हैं उन्हीं के लिये विशेष कर मृतक शुद्धि के दश दिनों में दशगात्रादि और्ध्वदैहिक कर्म करके प्रेतयोनि को पुत्रादि सम्बन्धी लोग छुड़ाते हैं और इन्हीं कर्मों के प्रताप से यमराज उन को पितृयोनि में जन्म देते हैं वे लोग

सपिण्डी करण के दिन पहिले पितरों में सम्मिलित हो जाते हैं तब से उन के लिये पार्वणश्राद्ध भी हो सकता है। भागे २ पुत्रादि कृत श्राद्ध तर्पणादि से वे लोग स्वर्गादि उच्च २ गति पाते २ मुक्त भी हो जाते हैं ॥

अथर्ववेद काण्ड १४ में यह मन्त्र है कि—

मृत्युर्यमस्यासीद्भूतः प्रचेता असून् पितृभ्यो गमयाञ्चकार,

ग०—यमराजका मृत्यु नामक दून बड़ा बुद्धिमान है वह यमराज की आज्ञानुसार मृतप्राणीके प्राणों रूप अर्थात् (सूक्ष्मशरीर सहित) जीव को पितृयोनि प्राप्त होने के लिये यमलोक में पहुंचाता है। अथ आशा है कि प्रथम प्रश्न का उत्तर पाठक लोग समझ गये होंगे ॥

(प्रश्न २) पुनर्जन्म को मानने वाले शास्त्र भीता भागवत आदि कहते हैं कि जिस प्रकार तृणको कीड़ा भागे पांव रखकर उठाता है इसी प्रकार मनुष्यके आत्मा की गति है अगर यह सच है तो श्राद्ध की क्या जरूरत है ? ॥

(उत्तर २) बड़े कष्टकी बात है कि प्रश्नकर्त्ता समाजी को प्रश्न भी ठीक २ नहीं कर आया और सनातनधर्मो महर्षि विद्वान् श्राद्ध करने की किल २ दशा में क्या २ आवश्यकता समझते है यह कुछ भी समाजी अब तक नहीं जानता, तो भी मनमाने प्रश्न करनेको तयार है। अस्तु जो हो द्वितीय प्रश्नका अभिप्राय हमतो यह समझें हैं कि “जब तत्काल मरते ही किसी योनि में प्राणी को जन्म होगा तब उसके लिये श्राद्ध करना व्यर्थ है क्योंकि वह तुम्हारा श्राद्ध लेने को उस योनि वा देशसे तुम्हारे श्राद्धमें आ नहीं सकता” यदि द्वितीय प्रश्न का यही आशय है तो संक्षेप से उसका जबाब यही है कि वेदादि शास्त्रके सिद्धान्तानुसार श्राद्धतर्पणका मुख्य उद्देश यही है कि उस २ योनि से उच्च २ कक्षा के स्वर्गादि लोकों में होते हुए मुक्तिपर्यन्त अपने पितरों को पहुंचाना तथा श्राद्ध कर्त्ता पुत्रादि को धर्म, विद्या, अविच्छिन्न सन्तान, धन समृद्धि और स्वर्गादि प्रतिफल श्राद्ध तर्पणके द्वारा प्राप्त होता है श्राद्धका यह उद्देश बड़े महत्त्वका है।

अब रहा यह कि जब किसी मनुष्यादि योनिमें किसी देशान्तर

में उन मृत का जन्म होगया तो वह जीव उन योनिसे श्राद्धमें कैसे आ सकेगा ? तो हे शास्त्रज्ञान शून्य समाजी ! तुम सुनो, ध्यान दो जरा आंखें खोलो-

घसून्वदन्तिवैपितृन् रुद्रांश्चैवपितामहान् ।

प्रपितामहांश्चादित्यान् श्रुतिरेषासनातनी ॥

मनु० अ० ३ । २ । ४ ॥

अर्थ-घसू रुद्र और आदित्य देवता सामान्य विशेष रूपसे तीनों लोक में विद्यमान रहते हैं वे वस्त्रादि ही पितादिके रूप से श्राद्धों में आते और श्राद्ध के पिण्डदानादि से तृप्त होते हैं यह सनातन श्रुति नाम वेद का प्रमाण है । वस्त्रादि के स्वीकृत श्राद्धांशका उत्पन्न हुआ अपूर्व परिणाम पुण्य उस २ योनिस्व पितादि की उच्चगति का हेतु बनता है । अर्थात् किसी योनि में उत्पन्न हुआ प्राणी उस २ योनि से स्वयं पहिले जन्म के पुत्रादिके किये श्राद्ध में नहीं आता और न उसको आनेकी आवश्यकता होती है । इसी लिये श्राद्धमें पितादिको वस्त्रादिरूप कहकर पिण्डादि दिये जाते हैं ॥

(प्रश्न ३) दूसरे जन्ममें हमारे पितर किस योनिमें हैं और किस स्थान पर हैं इस बात के पते बिना श्राद्धका क्या लाभ, और अगर किसी का बाप हाथी बाघ आदि की योनि में हो तो उसकी तृप्ति ब्राह्मणों के खिलाये खीर आदि से कैसे हो सकेगी ? ॥

(उत्तर ३) हे समाजी ! तुम बताओ कि यदि कोई मनुष्य अपने मृतपितादिका पता जानता हो कि अमुक योनि और अमुक लोक में हमारे पितर विद्यमान हैं तब क्या सत्य कहे कि तुम श्राद्धको सार्थक मान लोगे ? । यदि मान लोगे तो जिसका पता पूछना हो हम बतावेंगे परन्तु आप जिस मृतप्राणी का पता चाहते हो उसकी जीवन चर्या पूरी २ हमें बतावें और मरणानन्तर उसके पुत्रादि ने विधिपूर्वक और्ध्वदेहिक कर्म कैसे किये वा कहां किये यह भी सत्य बताना होगा । और पता जानने पर भी यदि आप श्राद्ध का लाभ नहीं मानते तो यह प्रश्नांशही व्यर्थ होगया । सुनिये हम पूरे सनातनधर्मों आस्तिक ब्राह्मणादि के मृतपितरों की योनि और स्थान का आपको भी पता बतावें देने हैं ॥

शब्दप्रमाणका वर्यं यच्छब्द ग्राह तदस्माकं
प्रमाणमिति महाभाष्यम् । दक्षिणाप्रवणो वै पितृ-
लोकइति श्रुतिः (विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्ति स्व-
धामृतैः शान्तिपराःसुतुष्टाः)॥इति सिद्धान्तशिरोमणौ ।

उदन्वतीद्यौरवमा पीलुमतीतिमध्यमा ।

तृतीयाहप्रद्यौरिति यस्यां पितरभ्रासते ॥

इत्यथर्ववेदसंहितायाश्चतुर्दशे काण्डे —

भाषार्थ—हम लोग शब्द प्रमाण के मानने वाले हैं इससे जो वान शब्द प्रमाण कहता है वही हमारा निर्विकल्प मन्व्य है । यह व्याकरण महाभाष्य में लिखा है । वैदिकश्रुति में कहा है कि आकाश मण्डल में दक्षिण की ओर झुका हुआ पितरों का लोक है । सिद्धान्तशिरोमणि में लिखा है कि स्वधारूप अमृत से सन्तुष्ट शान्तिशील पितर चन्द्रलोकके ऊपरीभाग में निवास करते हैं । अथर्ववेद संहिताके चौदहवें काण्ड में लिखा है कि मेघके कारण नीलाकार सूक्ष्म जल से आच्छन्न आकाशमण्डल पृथिवी की ओर का भाग उदन्वती धौ कहाता और उससे ऊपर का भाग द्वितीय आकाशमण्डल पीलुमती धौ कहाता और उस से भी ऊपर तीसरा आकाशमण्डल विशेष प्रकाशयुक्त होने से प्रद्यौ कहाता है उसी तृतीय प्रद्यौ प्रदेश में पितर लोग निवास करते हैं । पाठकगण ! हमने उन सनातनधर्मों महाशयों के मृतपितरों का पता वेदादि के प्रमाणों द्वारा ठोक बत्ता दिया है कि जो मरण के बाद ठोक २ विधि और श्रद्धा से अपने थाप दादों का श्राद्ध तर्पणादि करते हैं उन के पितादि को पितृयोनि और ऊपर लिखा पितृलोक रूप स्वर्ग प्राप्त होता है । इस में (जसून पितृभ्यो गमयाञ्चकार) पितृयोनि प्राप्त होनेके लिये मृत प्राणी को मृत्यु पितृलोक में पहुँचाता है यह ऊपर प्रथम प्रश्न पर लिखा वेद का प्रमाण ही प्रबल स्वतः प्रमाण है । इससे श्राद्ध करने वाले आस्तिकों के पितर हाथी घोड़ा गधा कुत्ता व्याघ्रादि योनियों में

न जावें इसी लिये वेद में श्राद्ध कहा है । और हाथी आदि यो-
नियों में उन्हीं लोगों के पितर जाते हैं कि जो श्राद्धादि वेदोक्त कर्म
को नहीं मानते और न करते हैं । हे समाजी ! आप हमारे बतये
पते से जर्मनी हवाई जहाज में बैठके घेघड़क चले जाइये बतये पते
पर पितरोंको खोजलेना आप का काम है । अब आशा है कि ठीक
पता देने पर समाजी लोग श्राद्ध को सार्थक मानने लगेंगे ॥

पाठक गण ? "ब्राह्मणों के खिलाये खीर आदि से अन्य योनि-
स्थ पितरोंकी तृप्ति कैसे होगी ? " समाजी के इस तृतीय प्रश्नांश के
अभिप्राय से पितृयोनिस्थ पितरों की तृप्ति होना तो जानो समाजी
मानता है । अब रहा अन्य योनियों में जन्म होना सो यदि किसी
के पुत्रादि मरणानन्तर अपने पितादि का दशगात्रादि, और्ध्वदेहिक
कर्म वेदशास्त्रादि में लिखे अनुसार ठीक विधान से किसी भी का-
रण से न कर पावें वा उस में विशेष बूटियां रहें इस से उस जीव
का तिर्यगादि निरूप्य योनियों में जन्म हो जावे तो भी उनको ब्राह्म-
णादि के खाये खीर आदि का पुण्य फल अचक्षयमेव पहुंचता है ।
उस का विचार हम पूर्व प्रश्नों के उत्तर में लिख चुके हैं कि तीनों
लोकों में विद्यमान वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पितरों को पिएड-
वान और ब्राह्मण भोजन रूप श्राद्ध का फल प्राप्त होता है और वे
ब्रह्मादि दिव्य शक्तियां होने से सर्वरूप होते हैं इसी से पितृ पिता-
मह प्रपितामह के रूपों से श्राद्ध के फल को स्वीकार करते हैं और
बह श्राद्ध से हुवा अपूर्व फल उन निरूप्य योनिस्थ पितरों को उन २
के भोजन रूपों में परिणत होकर उन के सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त हो
जाता है । यह तो सभी जानते हैं कि स्थूलान्नके भोजनको चा पिएडों
को पितर नहीं खाते किन्तु उसके सारांश गन्ध मात्रसे तृप्त होते हैं ॥

(प्रश्न ४) प्रत्येक देहधारीके भरण पोषण का परमात्मा ने प्र-
दिले ही प्रबन्ध कर रक्खा है । जैसे बालक के जन्म से पूर्व माता
के स्तनों में दूधका प्रबन्ध करना, और इसी प्रकार अगर कोई पितृ-
योनि है तो उसके खान पान का भी परमेश्वर की तर्फ से प्रबन्ध,

होगा । फिर श्राद्ध करने का क्या लाभ है ? और उन को ब्राह्मणों द्वारा अन्न पहुंचाने वा तृप्त होने में क्या प्रमाण है ? ॥

(उत्तर ४) हे भोले शास्त्रमर्मज्ञ समाजी ! सुनो ध्यान दो भगवान् परमात्मा को सबका प्रबन्धक बिनाही कर्मों के मानते ही तथतो अन्धेर नगरी का सारा राज्य मानना पड़ेगा बिना ही कारण किसी को राज्य के सर्वोत्तम भोग देता और किसी को रंक बनाके महादुःख देता है सो ऐसा क्यों करता है ? क्या ईश्वर उन्मत्त है ? यदि कहीं कि सबको उन २ के कर्मानुसार भोग पहुंचता है तो महाशय ! पुत्रादि कृत श्राद्ध भी एक कर्म है और वह श्राद्ध उसके ही किसी अंशने वा अंशके अंश पौत्र दीहित्रादि ने किया हैं । इससे वह उसीके कर्मका फल है कि जो फल जन्मान्तर में ईश्वर ने दिया है । अरे भाई ! माताके स्तनोंमें पहिलेसे दूध नहीं होजाता किन्तु बालक उत्पन्न होनेके बाद प्रायः तीसरे दिन प्रसूता स्त्रियोंके दूध निकलता है इसीसे पहिले गौ आदि के दूध का फीहा दिया जाता है । और किसी २ के बिलकुल दूध निकलता ही नहीं तब वहां परमेश्वर को दूध पैदा करने की क्या शक्ति नहीं थी ? ॥

वेदमें रूपए प्रमाण होने पर भी समाजी के चित्त में नास्तिकता देवी का प्रवेश हो जाने से विश्वास नहीं कि कोई पितृयोनि है वा नहीं ? इसी लिये (अगर पितृयोनि कोई है) ऐसा लिखा है । हम पहिले साफ २ वेद मन्त्र लिख चुके हैं कि—

तृतीयाहप्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ।

तीसरे ग्रंथी नामक आकाश मण्डलमें पितृयोनिस्थ प्राणियों का स्वर्गलोक है उसीमें वे लोग निवास करते हैं उन पितृयोनिस्थ प्राणियोंके लिये भी भगवान् ने कर्मानुसार भोग नियत किया है । यदि हम दुर्जनतोष न्याय से यह भी मानलें कि पितृ आदि किसी भी योनि में जहां कहीं हमारे पितादिक गये हों वहां उनके कर्मानुसार हमारे दिये बिना भी उनको कुछ भोग मिलता ही रहेगा तो भी वेद शास्त्रोंके विधिक अनुसार पितरों के संतोषार्थ श्राद्ध तर्पण करनेकी

बड़ी आवश्यकता है जैसे किसी राजा वा हाकिम को भूखा बैठा न होने पर भी राजा की कृपादृष्टि चाहने वाले प्रजास्य लोग राजप्रसन्नतार्थ अनेक प्रकार की भेंटें उपस्थित करते हैं। जैसे गुरु वा माना पितादि मान्य पुरुषों के पास भोजन वस्त्रादि का सब सामान उपस्थित होने पर भी पुत्र और शिष्य अपनी कृतज्ञता दिश्राते हुए गुरु आदि के संतोपार्थ प्रसादनार्थ प्रिय वा उत्तम पदार्थों को भेंट करते हैं और गुरु आदि भी उन २ शिष्यादि पर प्रसन्न अवश्य होते हैं। तथा शास्त्रों का भी यह अभिप्राय नहीं है कि माता पिता गुरु जय भूखे वा नंगे बैठे हों तभी उनको भोजन वस्त्रादि के समर्पण से पुत्रादि लोग उनकी सेवा शुश्रूषा करें और भोजन वस्त्र मिलते हों तब सेवा शुश्रूषा न की जाय। वैसे ही पितरों को उस २ योनिमें ईश्वरीय न्याय से कर्मानुसार भोग मिलना मान लेने पर भी उनको प्रसन्न करने के लिये और उनके आशीर्वाद से अपना कल्याण हांने के लिये पुत्रादिको श्राद्ध कर्त्तव्य है। क्या आर्यसमाजियों का यही सिद्धान्त है कि माता पिता गुरु आदि को भोजन वस्त्रादि किसीभी प्रकार मिल जाता हो तब पुत्र और शिष्यादि उनकी सेवा शुश्रूषा न करें और भूखे व नंगे बैठे हों तभी भोजन वस्त्रादि से सेवा कर दिया करें। हे समाजी ! आप अपने धौंटे से न्याय कीजिये कि दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालिज तथा गुरुकुल कांगड़ी आदि में सब प्रकार के भोग और क्या सहस्रों लाखों रुपया विद्यमान नहीं हैं ? जब कि कालिज आदिमें लाखों रुपया पहिलेसे ही जमा है तब आप लोग प्रतिवर्षके उत्सवों पर चार-चन्द्रा क्यों मांगा करते हैं ? आप के यहां जो धनी लोग हैं वे व्यापारादि से और अधिक २ धन प्राप्तिका उद्योग क्यों करते हैं ? क्या इन कालिजादि पर यही तर्क आप कभी करते हैं कि तुम्हारे पास तो खर्चके लिये भोग्य धनादि प्राप्त हैं अब और चन्द्रा करने में क्या लाभ है ? यदि इन सब पर आपका तर्क नहीं है और केवल अपने मृत पिता पर ही तर्क है कि तुम जिस योनि में जाओगे वहां कुछ न कुछ भोग मिल ही जयगा।

इससे तुम्हारे लिये श्राद्ध करना व्यर्थ है तो आप यह भी किया करो कि जब आपके जीवित माता पितादि कहीं विदेश में जावें तब यह कह दिया करो कि जो घर से कुछ नहीं लेजाते उनको भी विदेशमें जिस किसी प्रकार भोजनादि मिलही जाता है वैसे तुमको भी मिल जायगा ईश्वर सबको देता है घरसे कुछ मत लेजाओ इत्यादि ।

संसार में देखा जाता है कि धर्म और धनादि का चोखा कोई नहीं मानता इसी लिये धर्मात्माओं को भी सदा अधिक २ धर्म करना आवश्यक रहता है धनी भी अधिक धन के होते भी और धन के उपाजन में लगे ही रहते हैं वैसे ही ईश्वरीय व्यवस्था से यथासम्भव हमारे पितरोंको कुछ भोग प्राप्त हो सकने पर भी उनका और अच्छे २ उच्च कक्षाके स्वर्गादि भोग प्राप्त कराने के विचार से वेदादि शास्त्रों में उसी परमात्मा ने पितरों के लिये श्राद्ध तर्पणादि नित्य नैमित्तिक पितृयज्ञ करने का आदेश किया है । हा ! शोक है उन मनुष्यों की समझ पर कि जो अपने पास भोगका सामान विद्यमान होते भी अधिक २ भोगों के सञ्चयार्थ दिन रात चिन्तित रहते और श्रम करते हैं और यह नहीं मान लेते कि हमारे पास भोजन वस्त्रादि विद्यमान हैं हम का और आवश्यकता अन्न धनादि की नहीं है और अपने पूज्य मान्य माता पितादि के लिये कहते मानते हैं कि उन को ईश्वर ने कुछ भोग दिया ही होगा उनके लिये श्राद्ध का आवश्यकता नहीं है पाठक ध्यान दें ।

अब रहा यह कि " उन को ब्राह्मणों द्वारा अन्न पहुंचने वा वृत्त होने में क्या प्रमाण है ? " इसका संक्षेप से उत्तर यह है कि सैंकड़ों प्रमाण हैं परन्तु जिसे प्रमाण का तत्त्व समझने और मानने की बुद्धि ईश्वर ने दी ही नहीं उसे हार्दचक्षु से दीखता भी नहीं उसके लिये सब प्रमाण व्यर्थ से हैं चाणक्यनीति में लिखा है कि—

यस्यनास्ति स्वयंप्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।

लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किङ्करिष्यति ॥

जैसे सैंकड़ों दर्पण होने पर भी अन्धे को कोई रूप नहीं दिखा सकता वैसे ही जिस के पास बुद्धि स्वरूप आंखें नहीं हैं उस के

लिये शालोंके प्रमाण भी व्यर्थ हैं । तथापि हम विचारशील वास्तिक पाठकों के लिये कुछ प्रमाण लिखे देते हैं—

स्वधा पितृभ्यः पृथिविपद्भ्यः स्वधा पितृभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्यः स्वधा पितृभ्योदिविपद्भ्यः । यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राःस्वधावतीः ॥ अथर्व० कांड १८
अग्निष्वात्ताः पितरसहगच्छत सदःसदः सदतसुप्रणीतयः
अत्ताहवींश्चि० ॥ यजुर्वेदे अ० । यानग्निरेव दहन्त्स्व-
दयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ॥ शतपथ कांड २
तथा मनु० अ० ३—

निमन्त्रितान्हिपितर उपतिष्ठन्तितान्द्विजान् ।
वायुवच्चानुगच्छन्ति तवाऽऽसीनानुपासते ॥ १८८ ॥
यावदुष्णंभवत्यन्नं यावदग्नन्तिवाग्यताः ।
पितरस्तावदग्नन्ति यावन्नोक्ताहविर्गुणाः ॥ २३७ ॥

यथाभागमग्नीतेत्येवैतदाह । तिरइव वै पितरो
मनुष्येभ्यस्तिरइवैतद्भवति ॥ शतप० कां० २ । ४ ।

आ०—पृथिवी अन्तरिक्ष और स्वर्गलोकमें रहने वाले वसु आदि स्वरूप पितरों को हमारा दिया स्वधा नाम पिण्डादि रूप अन्न प्राप्त हो । वेद के निघण्टुकोष में स्वधा नाम अन्न का है । अन्तरिक्ष और स्वर्ग में रहने वाले वे ही मृत जीव पितर हो सकते हैं कि जिन का तीसरे आकाश मण्डल में निवास लिखा है । श्राद्ध के समय तिल मिले हुये मुने जी श्राद्ध स्नानमें स्वधा कहने द्वारा विलेने चाहिये । शतपथ में लिखा है कि मरने पर जिनके शरीरों को जलाते हुए अग्नि ने खाट लिया नाम स्वाद् ले लिया वे पितर अग्निष्वात्त कहाते हैं । यजुःसंहिता में कहा है कि हे अग्निष्वात्त पितरो ! तुम लोग ब्रह्मादि रूप से इस श्राद्ध कर्म में आओ और पितामह प्रपितामह के नियत किये अपने र स्नान पर बैठो और आपके लिये तयार किये भोजन

को खाओ। इस वेदमन्त्र के प्रमाण से अग्नि में जलाये-मृत पितरों का श्राद्ध में आना और भोजन करना दोनों सिद्ध हैं। इत्यादि वेद मन्त्रोंका अभिप्राय मनुजी ने यों कहा है कि-श्राद्ध में निमन्त्रण दिये ब्राह्मणों के साथ निमन्त्रण के समय से ही वे पितर लोग प्राणवायु के सूक्ष्म अदृश्यरूप से उपस्थित हो जाते हैं ब्राह्मणों के चलने फिरने में साथ २ चलते फिरते और बैठने पर बैठ जाते हैं। भोजन के समय जब तक पाक गर्म रहता और जब तक ब्राह्मण लोग मौन रहते हुए भोजन करते हैं तभी तक पितर लोग उन के साथ भोजन करते हैं इस लिये कुछ गर्म २ भोजन श्राद्ध में कराना चाहिये और ब्राह्मणों को उचित है कि मौन होकर भोजन करें। शतपथ ब्रा० के प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि पितर लोग अपना २ अंश श्राद्ध में सूक्ष्म रूपसे अदृश्य रहते हुए खाते हैं पाठकगण ! अब आप देखलुके कि समाजी का मांगा हमने श्रुति स्मृति दोनों मान्य ग्रन्थोंका प्रमाण ब्राह्मणों द्वारा मृतपितरों के वृत्त होने में दिखा दिया। अब यदि समाजी प्रमाण को न मानें तो उन की इच्छा, परन्तु पाठक लोगों को सन्तोष अवश्य होगा।

(प्रश्न ५) महाभारत में श्राद्ध करना शिष्टाचार का काम नहीं तथा श्राद्ध वेदनुकूल नहीं यह स्पष्ट लिखा है। (क) महाराज कर्ण ने सबसे पहिले मृतक श्राद्ध की प्रथा चलाई। परन्तु उस समयके ऋषियों ने उसका निषेध किया। महाभारतका यह इतिहास यदि सत्य है तो सिद्ध हुआ कि महाभारत के पूर्व मृतक श्राद्ध की रीति प्रचलित न थी, और उस समयके लोग आज कलके पुरुषोंसे अधिक संस्कृत विद्याके ज्ञाता वैदिक धर्मके मानने वाले थे और उस समय में अगर मृतक श्राद्ध अधार्मिक वा शिष्टाचार के विरुद्ध था तो अब इसे किसने और किस प्रमाणसे शिष्टसम्मत वा धार्मिक बना दिया? देखो महाभारत अनुशासन पर्व अ० ६१ जहाँ लिखा है कि निमि ऋषि ने अपने पुत्र के मरने पर पहिले तो शोक मोह में व्याकुल हो उसेको पिएढदान किया और पीछे से इस ऋषि मुनियोंके प्रतिकूल कर्म पर पश्चात्ताप वा सन्ताप किया जैसा कि—

तत्कृत्वा तु मुनिश्रेष्ठो धर्मसङ्कटमात्मनः ।
 पश्चात्तापेन महता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत् ॥
 अकृतं मुनिभिः पूर्वं किं मये दमनुष्ठितम् ।
 कथन्तु शप्येन न मां दहेयुर्ब्राह्मणा इति ॥

उस कर्म को करके अपने पर धर्म सङ्कट को अनुभव कर सन्तत हुआ २ चिन्तन करने लगा कि जिस कर्म को ऋषि मुनियों ने नहीं किया उसे मैंने क्यों किया ? और अब मुझे ब्राह्मण लोग शाप न दे दें इत्यादि ।

(उत्तर ५)—पाठकवृन्द ! इस पाँचवें प्रश्नका अभिप्राय थोड़ा सा (कि श्राद्ध ठीक है तो महाभारत में निषेध क्यों है ?) है पर वैस-मन्त्री से समाजो ने बढ़ा दिया है । हमने पाठकों क अवलोकनार्थ सब पूर्व पक्ष का लिख दिया है । अब हम ऊपर लिखे पूर्वपक्ष का अति संक्षेप से उत्तर लिखते हैं पाठक महाशय ! ध्यान देकर देखिये महाभारत का नाम लेकर समाजोने ऋषि मुनियोंको नास्तिक बनाने की सर्वथा ही मिथ्या चेष्टा की है जिस में एक तिलमात्र या एक रोम भर अंश भी तो सत्य नहीं है । महाभारत के अनुशासन पर्वस्य ६१ अध्याय के १६ । १७ । दो श्लोक समाजो ने बीच में से लिख दिये हैं । परन्तु वहाँ ८७ वें अ० से ६२ अध्याय तक ७ अध्यायों के १७२ श्लोकों में बिस्तारके साथ श्राद्धका विधान व्यास जी ने वर्णन किया है अ० ८७ में श्राद्ध का काल (कव २ किन २ तिथियों में श्राद्ध करे यह) वर्णित है । अ० ८८ में तिल तण्डुल चावलादि श्राद्ध में पिएडदानके योग्य अन्न फल मूलादि का विचार है, अ० ८९ में काम्य श्राद्धों का कृत्तिकादि मिन्न मिन्न नक्षत्रों में वर्णन दिखाया है, अ० ९० में अपांक्त्ये और पंक्तिपावन अर्थात् सुपात्र और कुपात्र ब्राह्मणों की परीक्षा का वर्णन किया है । अ० ९१ वे में लिखा है कि महर्षि निमि का श्रीमान् नामक पुत्र एक सहस्र वर्ष घोर तप करके मर गया । उस पर निमिको बड़ा शोक हुआ, निमि ने शोकग्रस्त होने के कारण बुद्धि ठीक न होनेसे ठीक विधि से

श्राद्ध नहीं किया किन्तु बिना परीक्षा किये सात ब्राह्मणों को भोजन कराया और अनवीकरण किये बिना ही पिण्डदान कर दिया अच्छे पनीश्विन ज्ञाननिष्ठ वेदवेत्ता एक दो वा तीन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको श्राद्ध में भोजन कराना चाहिये । मनु जी ने कहा है-अ० ३-१२५ ।

द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा ।

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥

भा०-कोई राजा रईस हो तो भी अधिक से अधिक पांच वा कम से कम दो विद्वान् ज्ञाननिष्ठ सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे यही पाति श्राद्धमें न करे सो निमि ने साधारण कोटि के सात ब्राह्मणोंको भोजन कराया सो यह ठीक नहीं था । अ० १२ के आरम्भ से यह दिखाया है कि अग्नि में दो वा तीन आहुति होम किये बिना और (ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना०) मन्त्र से पिण्ड देने के स्थान से दक्षिणमें अग्निका अङ्गार स्थापित किये बिना जो पिण्डदान किया जाता है तो उस श्राद्धको असुर राक्षस भ्रष्ट कर देते हैं और पितरों को दुःखदायी होता है सो निमि ने भी अग्नि में होम तथा अङ्गार स्थापन किये बिना ही पिण्डदान किया था ।

जय निमि को घात हुआ कि मेरा श्राद्ध विधि रहित शास्त्रमर्यादासे विरुद्ध हो गया तब निमि को शोक और पश्चात्ताप हुआ कि किसी विद्वान् ऋषि मुनि ने ऐसा वेदविधि से विरुद्ध श्राद्ध कभी नहीं किया पर मुझ से ऐसा हो गया कहीं ब्राह्मण विद्वान् मुझ को क्षाप न देदें । ऐसे शोकग्रस्त निमिने अपने वंशकर्ता आदि ऋषि अत्रि का ध्यान किया, अत्रि ने तत्काल प्राटुभूत होकर निमि को अन्य ऋषियों सहित समझा के फिर से विधि पूर्वक अग्निमें होमादि करके पिण्डदानादि श्राद्ध कराया ।

अब पाठक ! महाभारत का विचार देख चुके कि वहाँ श्राद्ध के खण्डन की कोई भी बात नहीं है जिस की इच्छा हो महाभारत के उक्त छः अध्यायों में श्राद्ध का विचार देख लेवे ऐसा ही मिलेगा ।

क्या समाजी प्रश्नकर्त्ता अपने महामिथ्या धोखा देने वाले प्रश्न का समूल खण्डन देखकर लज्जित नहीं होंगे ?

हटावा के छपे श्राद्ध विषयक प्रश्नों के पुस्तक में दो प्रश्न ये हैं कि “ १-पौराणिक दन्तकथानुसार मृतक श्राद्ध को चलाने वाले राजा कर्ण हुए हैं इससे पूर्व श्राद्ध की चाल न होने से वेदोक्त नहीं २ राजा कर्ण से पहिले मृतपितरों की गति होने को क्या २ धर्म कर्म करते थे ? ”

(उत्तर १ । २) और इस लाहीर वाले पुस्तक में भी (क) संकेत से राजा कर्ण का श्राद्ध चलाना ऊपर लिखा है-इन सब का संक्षेप से उत्तर यह है कि यह समाजियों का लेख सर्वथा मिथ्या मनगढ़न्त का है । क्योंकि किसी पुराणादि में इस अंश का प्रमाण यदि महाभारत के तुल्य अन्य अभिप्राय से भी कहीं मिलता तो समाजी अब तक अवश्य लिख मारते इस से ज्ञात होता है कि किसी समाजी को कभी ख़म हुआ होगा कि राजा कर्ण ने श्राद्ध चलाया, यदि उसे होश होता कि वाल्मीकीय रामायण का वृत्तान्त त्रेतायुग का है उस समय भी भगवान् रामचन्द्र जी ने अपने मृत पिता दशरथ का श्राद्ध वन में ही किया था । इतिहासों में लाखों वर्ष पहिले श्राद्ध के अनेक उदाहरण हैं संहिता ब्राह्मण वेदाङ्ग श्रौत गृह्यसूत्रादि सैकड़ों आर्यग्रन्थों में श्राद्ध के सहस्रों प्रमाण अनादि काल से विद्यमान होने पर भी राजा कर्ण का चलाया श्राद्ध को लिखना ऊपर को मुख करके आकाश में थूकने के तुल्य है । अस्तु कभी कोई समाजी राजा कर्ण से श्राद्ध चलने का पते सहित प्रमाण देगा तो भी उसका उचित उत्तर दिया जायगा ।

प्रश्न ६-पितर स्वर्गमें गये हैं वा नरक में, यह समझने की जब किसी के पास युक्ति नहीं, और पितर कितने दिन यम के घर रहकर अब किधर गये हैं तथा उनका पूरा पता क्या है? जब यह किसी को मालूम नहीं तब उन को अन्न ब्रह्मादि भोजन क्या बिना पते के पुरुष को डाक द्वारा वस्तु भेजने के तुल्य नहीं ? और ऐसी अवस्था में उनको भोजनके लिये अन्न ब्रह्म ब्राह्मणोंके हवाले करना और फिर

उनकी रसीद का न पहुंचना क्या यह सन्देह पैदा नहीं करता कि न जाने यह माल भेजने वालों ने ही खा लिया हो और ऐसा करना व्यर्थ नहीं क्या ? ॥

उत्तर ६-यह प्रश्न तीसरे प्रश्नके साथ पुनरुक्त होनेसे अधिकांश व्यर्थ है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में पितरों का पता हमने बताया है जिस किसी समाजी की इच्छा हो अपने पूर्व मृत पितरों के जीवन काल की ठीक २ सत्य दिनचर्या लिखकर हमारे पास भेजे हम उस की ठीक २ पता बता दंगे वह भले ही निराकार को तार देकर खबर मंगा लेवे वा स्वयं जाकर पता लगावे जब हम पितरों का पूरा २ पता युक्ति प्रमाण सहित दे चुके और देते हैं तब भी न मानना हठ मात्र है। अब रह गया कि " उनको रसीद का न आना न पहुंचना सन्देह का हेतु है " सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि श्राद्ध का संकल्प करते ही समय रसीद लिखी जाती है कि सृष्टि के आरम्भ से वैव-खतादि अमुक २ मन्वन्तर चतुर्युगी युग संवत्सर तिथि मुहूर्तादि समय में अमुक देश में अमुक वर्ण नाम गोत्रादि बाला में पुरुष वा अमुक २ गोत्रादि वाले ब्राह्मणको अमुक २ माता पितादि के निमित्त अमुक घरतु वा भोजन वखादि देता हूं। वहां उस समय बैठे सब मनुष्यों की साक्षी वा गवाही लिखी जाती है। और देवता लोग भी उसमें साक्षी लिखे जाते हैं इसी विचार से मनुजी ने कहा है अ० ८ मन्वन्ते वै पापकृतौ न कश्चित्पश्यतीति नः।

तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्थैवान्तरपूरुषः ॥

अर्थ-पापी लोग मानते हैं कि यहां एकान्त में हमको पाप करते कोई नहीं देखता परन्तु यह भूल है क्योंकि उनको देवता लोग और अन्तर्यामी ईश्वर देखा करता है। जो देवादि पाप को गवाह होते हैं वे ही श्राद्धादि पुण्य कर्म के भी गवाह हो जाते हैं। वह रसीद आकाश मण्डल रूप कागज में चाणी रूप स्याही से तथा वायुरूप लेखनी से लिखी जाती है जैसे फोनोग्राफ के छोटेसे आकाश में बोलें हुए शब्द भर जाते हैं वैसे ही श्राद्धादि के दान की यह संकल्पात्मक

रसीद महाकाश में भर जाती है इसी लिये पतञ्जलि मुनि ने शब्दों का स्थान आकाश (आकाशदेशः शब्दः) को कहा है। आकाश के ही प्रदेशान्तर में स्वर्गादि किसी योनि में श्राद्धादि दान का सुख सन्तोष प्रसन्नतादि रूप फल जब पितरों को प्राप्त हो जाता है तब यही पाने वाले के उस रसीद पर हस्ताक्षर होते हैं। और जब श्राद्ध करते ही समय वा कर चुकने पर मन चाणी शरीर में वा स्त्री पुत्रादि सख कुटुम्ब में सर्वत्र कुशलता प्रसन्नता आनन्द मङ्गल दीर्घ पडे तब यही श्राद्ध फल पाने की हस्ताक्षरी रसीद आगई मान लेना चाहिये अर्थात् जानो उसी आकाश मण्डलस्थ रसीद पर दस्तखत हो आये। और यदि अप्रसन्नता अमङ्गलादि प्रतीत हों तो मानलो कि सफल नहीं हुआ और रसीद पर दस्तखत नहीं किये तब यज्ञ-मान तथा श्राद्धादि भोक्ता ब्राह्मण का शास्त्रमर्यादा से विरुद्ध करना रूप अपराध दोनों वा किसी एक का हां सकता है उस दशा में केवल ब्राह्मण का ही अपराध मान लेना भी इकतर्फी डिगरी कर देना है। अभिप्राय यह है कि रसीद नाम विश्वास हो जाने का है यदि विदेश से आई रसीद पर भी विश्वास न हो तो वा सन्देह हो जाय कि अन्य के से हस्ताक्षर अन्य भी बना सकता है और फिर पत्र द्वारा पूछने पर भी उसी की ओर से लिख सकता है कि हां मुझे रुपया मिल गये तब विश्वास न हो तो यहां की रसीद भी रही जानो और शब्द प्रमाण रूप वेदादि शास्त्रों पर जिन का अटल विश्वास है उन को संदिग्धात्मक रसीद की अपेक्षा ही नहीं है। यदि किसी ऐसे निकटवर्ती अथवा परम मित्रके द्वारा कोई वस्तु समाजी मनुष्य अपने जीवित पिता के पास भेजे कि जिल का सर्वांश में पूरा पूरा विश्वास हो तो वहां समाजी कदापि रसीद नहीं मांगेगा और मांगे तो जानो उस घरू वा मित्र का पूरा विश्वास नहीं तब वह घरू वा मित्र बनावटी भी रसीद पेश कर सकता है अन्त में जब तक विश्वास न करो सभी रसीद आदि रही हैं जब विश्वास टूट हां गया तब रसीद की आवश्यकता सनातनधर्मियोंको नहीं है।

प्रश्न ७-महाभारत में लिखे अनुसार सिद्ध है कि प्राचीन काल में मृतक श्राद्ध न हुआ करते थे तब पितरों की तृप्ति होती थी या नहीं ? अगर नहीं तो, इस में क्या प्रमाण है ? ।

उत्तर ७-पाठक देख चुके हैं कि पहिले इन्हीं पंजाबी सन्नराम महात्मा के महाभारत सम्बन्धी लम्बे पांचवें प्रश्न का कौसा मुंह तोड़ उत्तर दिया जा चुका है, जब महाभारत के प्रश्न में कुछ लेश मात्र भी अंश सत्य नहीं है किन्तु वहां स्पष्ट रूप से मृतकश्राद्धका प्रत्युत विधान लिखा है तब उसी में इस सातवें प्रश्न का भी समूल खण्डन आ गया । वास्तव में उक्त महात्माने केवल संख्या बढ़ाने के लिये ही ऐसे प्रश्न बेसमझी से व्यर्थ पुनरुक्त गढ़ लिये हैं, जब मृतक पितृ श्राद्धों का सदा से होते आना सिद्ध है तब उन्हीं श्राद्धों से आस्तिक सनातनधर्मियों के पितृगणों की सदा से तृप्ति होती आना भी सिद्ध है परन्तु नास्तिक वेद विरोधियों के पितरों की सदा दुर्गति होगी, इससे विशेष लिखना व्यर्थ है ।

(प्रश्न ८)-श्राद्ध में गँड़ा सुअर घकरा मच्छी आदि के मांस ब्राह्मणोंको खिलानेसे पितरोंकी लम्बे काल तक तृप्ति रहती है ऐसा मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में लिखा है क्या यह सत्य है ? अगर सत्य है तो इसमें क्या प्रमाण है तथा जब यहां ब्राह्मणों के मांस पिण्ड खाने से परलोक में पितरों की दीर्घ काल तक तृप्ति होती है और यहां उस मांस खाने वालों को उस मांस से २४ घण्टे भी तृप्ति नहीं होती क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ?

(उत्तर ८)-अरे ! भाई भोले समाजी ! थोड़ा होश में आओ, क्या तुमको इतनी भी खबर नहीं है कि श्राद्ध में जो पिण्डदान होता है वह ब्राह्मणों को नहीं खिलाया जाता, क्या तुम यही समझ रहे थे कि पिण्ड ब्राह्मणों को खिलाये जाते हैं ? पाठक देखिये प्रश्न करने वाले समाजी की बुद्धि कैसी विपरीत है । जब किसी ग्रन्थ वा पद्धति में भी नहीं लिखा और न कहीं ब्राह्मणों को पिण्ड खिलाने की चाल है तथान कोई वैसा करना ठीक मानता है तब क्या समाजी अपने ऐसे अज्ञान के लेख पर लज्जित नहीं होगा ? । अस्तु जो हो ।

अव रहा यह विचार कि मछली गेंडा आदि के मांस के पिएड करने से मनुस्मृति आदि में पितरों को अधिक २ दत्ति क्यों दिखाई है क्या मांस के पिएड जीवहिंसा के बिना हो सकते हैं ? तब इसका समाधान यह है कि हिंसा जन्य होने से सब प्रकार के मांस भक्षण का निषेध है। श्रुति स्मृति पुराणादि सब शास्त्रों का अटल सर्व देशी मत यह है कि अप्राप्ति में सदा ही विधान वा आज्ञा की जाती है कि इस काम को अमुक समय अवश्य करो जैसे कहा है कि (ब्राह्मो मुहूर्ते बुध्येत । प्रातः सन्ध्यामुपासीत) ब्राह्म मुहूर्त नाम चार घड़ी रात्रि शेष रहे उठना चाहिये और प्रातःकाल सूर्योदय से पहिले सन्ध्यापासन करना चाहिये। इत्यादि विधि वाक्य कहाते हैं प्रातःकाल की निद्रा विशेष प्रिय होने से आलस्य वश होके मनुष्य उस समय उठकर शौच स्नान सन्ध्यापासनादि द्वारा ईश्वर का आराधन स्वयं नहीं करना चाहता है इससे उठना और सन्ध्यापासन करना प्राप्त नहीं है इसी लिये अप्राप्तिमें विधान किया गया, और प्राप्तिमें सदा ही निषेध होता है जिन अनुचित धर्म विरुद्ध कामों को काम क्रोध लोभादिसे प्रसन्न हुए मनुष्य किया करते हैं उन व्यभिचार हिंसादि का निषेध किया जाता है।

प्रातः का विधान और अप्राप्त का निषेध नहीं देखा जाता, जैसे भोजन करते हुए से ऐसा कथन नहीं बन सकता कि चलो भोजन करलो, सन्ध्या करते हुए से नहीं कहा जाता कि सन्ध्या करनी चाहिये। इसी प्रकार बन्ध्या के पुत्र का विवाह मत करो, आकाश के फूलों की माला मत बनाओ, ऐसे निषेध इसीलिये असंगत हैं कि बन्ध्या पुत्र और आकाशपुष्प जब प्राप्त ही नहीं हैं तब उनका निषेध करना भी सर्वथा व्यर्थ है। इसीके अनुसार शोचना चाहिये कि मांस भक्षण प्राप्त है वा अप्राप्त ? ऐसे विमर्श के उपस्थित करने पर मांस, मद्य और मैथुन तीनों ही स्वतः सिद्ध राग प्राप्त हैं जैसे मैथुनके लिये प्रवृत्ति के विधान की आवश्यकता नहीं देखी जाती, विधान की अपेक्षाके बिनाही मनुष्य पशु पक्षी आदि सब जीव स्वतः एव राग प्राप्त

मैथुन में प्रवृत्त होने देखे जाने हैं जैसे मैथुनके लिये वेदादिके विधि वाक्यों की अपेक्षा कोई नहीं रखना, वैसे पुष्टि कारक न्यादिष्ट होने से मांस भक्षण भी राग प्राप्त है और मित्रादि के तुल्य चेष्टा करने वाले मद्यादि का सेवन भी राग प्राप्त है तब सिद्ध हुआ कि प्राप्ति में विधान हो नहीं सकता फिर मन्वादि महर्षियों ने श्राद्धादि में मांस के पिण्डों का वा मांस के भक्षण का विधान क्यों किया ? ॥

व्याकरण महाभाष्य के बनाने वाले पतंजलिमुनि ने पहिले प-रूपशान्धिक में जहां लिखा है कि—

पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते गम्यत ए-
तदतोऽन्येऽभक्ष्या इति ।

पांच नख वाले पांच प्राणी भक्ष्य हैं ऐसा कहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि इनसे अन्य अभक्ष्य हैं । इसीपर कौयटने कहा है कि

न त्वयं विधिः । अप्राप्तेरभावात् ॥

अर्थात् पांच नख वाले पांच प्राणियोंको भक्ष्य कहना विधि वाक्य नहीं है क्योंकि अप्राप्तिका अभाव होनेसे अर्थात् मांस भक्षण खन एव रागप्राप्त है और विधि अप्राप्त में हो सकता है इससे यह विधि नहीं किन्तु इसका नाम परिसंख्या है । वेदादिसब शास्त्रोंमें परिसंख्याका सर्वत्र यही अर्थ होता है कि कथित से विरुद्ध अर्थात् तद्भिन्न से हटाना, किन्तु लक्ष्यमें प्रवृत्त करना परिसंख्या का अर्थ कदापि नहीं होता । यहाँ पांच नख वाले पांच प्राणी कथित वा लक्ष्य हैं उनके भक्षण में प्रवृत्त करना शास्त्र का अभीष्ट इसी लिये नहीं है कि भक्षण में प्रवृत्ति तो स्वतः सिद्ध रागप्राप्त है उस के लिये शास्त्रकार की चेष्टा निष्फल होती है परन्तु तद्भिन्न से निवृत्ति के लिये जब चेष्टा करने की आवश्यकता है तब वैसे परिसंख्या का अर्थ शास्त्र की निरर्थकता को मिटाके उसे सार्थक बना देता है ।

इस से यह सिद्ध हुआ कि श्रुति स्मृति पुराणोंमें जहां २ मांस भक्षण वा मांस के पिण्डादि करने का विचार पाया जाता है वहाँ सर्वत्र उसको विधि वाक्य नहीं मानना चाहिये किन्तु वे सब परि-

संख्या वाक्य हैं। इन परिसंख्या वाक्यों का ही स्वार्थ से भिन्न लक्ष्य के प्रतिपादन में तात्पर्य लगाया जाना हो नो नहीं है किन्तु सभी शास्त्रों में ऐसे अपरिसंख्यात विचार देखे जाते हैं कि जिनका स्वार्थ में कुछ अर्थ न लगा कर अन्याय्य बोधकत्व माना जाता है। जैसे व्याकरण में पर्युदास नामक निषेधका स्वार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ तत् सदृश के ग्रहण में माना जाता है अर्थात् निषेध द्योतक वाक्य से एक प्रकार का विधानार्थ समझ लिया जाता है जैसे यहां भी पांच प्राणियों के भक्षण विधान द्योतक वाक्यसे तद्भिन्न के भक्षण का निषेधार्थ मात्र समझ लेना चाहिये।

तथा जैसे किसी कवि ने कहा है कि "हे चातक पक्षी मेरे मित्र भइया सुन ! जल वर्षाने वाले बादल आकाश में बहुत हैं पर सच ऐसे नहीं हैं जो तेरी टेर सुनकर तुझ पर दया करें किन्तु कोई तो ऐसे हैं जो वर्षा करके भूमिस्थ सच प्राणियोंको वृष्ट कर देते हैं और कोई वृथा ही गर्ज २ करके कान फोड़े डालते हैं और वैसे ही एक विन्दु भी वर्षा किये बिना ही भाग जाते हैं, इस से हे चातक मित्र ! तू जिस २ को देखता है उस २ के आगे दीनता के बचन मत कहा कर" इस कथनका अभिप्राय भी स्वार्थ में कुछ नहीं है किन्तु भिक्षा मांगने वाले भारतवासी मनुष्यों को कवि ने सचेत करने के लिये कहा है कि विलायत से अनेक बड़े बड़े मानी प्रतापी छांटे लाट ग. वर्नरजनरल आदि आया करते हैं, भारतवासी जब २ किसी बड़े लाट बड़े शासक को आता देखते जानते हैं तभी भारत की दीन हीन मन मलीन तनक्षीण प्रजा के अर्थ कुछ न कुछ मांगने के लिये अग्रसर होते हैं कोई अंग्रेजों के से अधिकार भारतवासियों को मिलना मांगता है, कोई गोहिंसा की निवृत्ति होना, कोई प्रेस पेंसट उठावेना, कोई कर घटाना, कोई कानून की कड़ाईको घटाना इत्यादि सैकड़ों प्रकार की भिक्षा मांगते हैं सो क्या सर्वशक्ति भिक्षा वे लोग देंगे ? अर्थात् कदापि नहीं, इस लिये हे भारत वासियो ! तुम दीनताको छोड़के स्वयं अपना आचार विचार ठीक करो और जो कुछ मांगना चाहते हो उसे विश्वम्भर भगवान् से सच के सच एक स्वर

होकर मांगो तो आशा है कि वह तुम्हारी आशाएँ कभी पूरी अवश्य करेगा ।

अभिप्राय यह है कि शास्त्रार्थोंमें स्वार्थसे भिन्न लक्ष्यार्थके बोधक ऐसे सहस्रों विचार जैसे हैं वैसे ही परिसंख्यारूप शास्त्रों के सब वाक्य स्वार्थ से भिन्न लक्ष्य की निवृत्ति करने के लिये कहे गये हैं । इस प्रकार मांसके पिण्ड श्राद्ध में द्विजानेका स्वार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ यह है कि यद्यपि हिंसा जनक होने से सदा सबके लिये मांस भक्षण का और मांस के-पिण्ड करने का निषेध है तथापि राग प्राप्त होने से मांस भक्षण को जो नहीं त्यागते वा यों कहे कि मांस के खाये बिना जिनसे रहाही नहीं जाता अथवा कोई ऐसे देश वा काल होते हैं जहाँ किसी भी कारण मांस भक्षण करने ही पड़ता है शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध होने पर भी उन मांसभक्षण करने वाले मनुष्यों के लिये वे परिसंख्यारूप वचन कहे गये हैं जिन का अभिप्राय यह है कि जिन मत्स्यादि प्राणियोंके नाम गिनाये हैं उनसे भिन्न प्राणियोंके मांस से पिण्डदान कदापि मत करो किन्तु मनुजी का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इन मत्स्यादिके पिण्ड अवश्य दो, क्योंकि इसी से मनु जी ने स्पष्ट कोई विधिवाक्य नहीं कहा केवल अर्थवाद कहा है उस अर्थवाद से परिसंख्या को कहना की जाती है । उस का मत्स्यादि से भिन्न मांस के निषेध में तात्पर्य है मत्स्यादिके विधान में पूर्व कही रीति से अभिप्राय कदापि नहीं है ।

अब रहा यह कि किसी जीवके मांस के पिण्डों से पितरों को अधिक २ वृत्ति क्यों दिखायी है ? तब इस का भी समाधान सुनिये कि मनु अ० ३ श्लोक २६८ । २६९ । २७० । इन तीन श्लोकों में कहे मांसपिण्डों का खण्डन २७१ में कहे गौ के खोया व खीर के पिण्डों की मांससे अधिक प्रशंसा दिखाने से हो जाता है क्योंकि उस का स्पष्ट अभिप्राय यही है कि मांस हिंसाजन्य होने से दुष्प्राप्य और सदीप है तथा गोदुग्ध सर्वथा निर्दोष और सुलभ है और तीनों श्लोकों में कहे मांसों से अधिक वृत्ति भी गोदुग्ध से ही होती है इन तीन कारणों से सब को सूचित किया है कि मत्स्यादि के मांस के

पिण्डों की अपेक्षा गोदुग्ध अन्य खीरा वा खीर से पिण्डदान करना बहुत अच्छा है । और २६१ । २७२ श्लोकों में कहे मांस के पिण्डों का खरडन २७२ में कहे फालशाक और मुन्यत्र नीचारादि के पिण्डों से किया जानी क्योंकि फालशाक तथा मुन्यत्र दोनों ही हिंसादीप रहित और वाह्योणमादिके मांससे मुक्त हैं । ऐसा कौन मूल है जो मुक्त निर्दोष वस्तु के प्राप्त होते भी और उससे फल भी अधिक होता देख के भी कम फल वाले सदाप दुर्लभ मांस के पिण्ड करने को तयार होना ।

और २७३ । २७४ दो श्लोकोंसे मया नक्षत्र युक्त भाद्रपदकी कृष्ण त्रयोदशीके दिन किये पिण्डदानकी सर्वोपरि प्रशंसा दिखानेसे मांस पिण्डवाले सब श्राद्धपिण्ड नीचा कोटिमें पड़ जाते हैं सो यह नीची कोटि में होजाना भी एक प्रकार का मांसपिण्डों का खरडन है पर असली शास्त्रांक समाधान वही है किये मांस पिण्ड सम्बन्धी वचन परित्स्वरूप होने से तद्विन्न मांस के प्रतिपेक्षार्थ हैं विधानार्थ नहीं हैं । अथ आशा है कि पाठक लोग समाजी कृत प्रश्न का समाधान समझ गये होंगे, यह समाधान भीमांसा की रीति से लिखा गया है इस कारण विशेष ध्यान देकर पढ़ने से ठीक समझमें आवेगा । यदि तब भी तुम्हारे समझ में न आवे तो किसी विद्वान् से समझ लेना चाहिये । और प्रश्नकर्त्ता सन्तराम समाजी से पूछना चाहिये, कि श्राद्ध में जो पिण्ड दिये जाते हैं उनके ब्राह्मणों को खिलावेका प्रमाण दो या अपने लेखको मिथ्या मानलो ।

उक्त अष्टम प्रश्न के अन्त में लिखा है कि “यहां उस मांस खांने वालों की २४ घंटे भी वृत्ति नहीं होती तब परलोक में पितरों की इतने दीर्घकाल तक वृत्ति कैसे होती होगी ?” इसका उत्तर संक्षेप से यह है कि देव योनि के पितर आदि प्राणी स्वभाव से ही अमृतांशके प्राणी हैं । और वह अमृतांश अनेक दर्जों का होता है । जैसे संसार में कोई वस्तु शीघ्र विकृत हो जाता है और कोई चिरकाल तक विकृत नहीं होता ज्यों का त्यों बना रहता है वैसे ही अमृतांश भी नहीं बिगड़ता जो अमृतांश जितना अधिक चिरस्थायी होता है उस से

वैसे ही अधिकाधिक तृप्ति दिग्वादी है। इस में छान्दोग्योपनिषद् का यह प्रमाण भी है कि—

न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति ।

एतदेवानृते दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥

देवयोनिस्य प्राणी इन पांचभौतिक स्थूल पदार्थों को न खाते न पीने हैं किन्तु उनके अमृतांशको देख स्वीकार करके ही तृप्त हो जाते हैं मानवां २. कि ऐसी नहीं हैं कि वे इन पदार्थों के अमृतांश को ले सकें इस कारण मनुष्योंकी वैसी तृप्ति नहीं होती परन्तु उक्त लेख से अनुमान होता है कि प्रश्नकर्त्ता सन्तराम समाजी मांसपाटी के महात्मा हैं तभी तो उन की मांस खानेसे २४ घण्टा भी तृप्ति नहीं हुई होगी इसीसे वैसा लिखा होगा ॥

प्रश्न ६—मनुस्मृति अ० ३। २७३ एक कल्प पर्यन्त अपने पितरों की तृप्ति करने की युक्ति लिखी है उसे यदि सत्य समझते हो तो बन लाभां कि क्या परमात्मा कल्प भर उन को किसी प्रकार का जन्म नहीं देते अगर देते हैं तो सब देहियों के भरण पोषण का प्रबन्ध जब विश्वपालक परमात्मा स्वयं करते हैं तब ऐसी तृप्ति से क्या मतलब ? और अगर कल्प भर में एक ही जन्म परमात्मा देते हैं तो अन्य शास्त्रों में जहाँ शरीर त्याग के साथ (तत्काल) ही जन्म धारण लिखा है। इस विरोध का जिम्मेदार कौन ? और अगर इस विरोध की कोई संगति है तो क्या ?

उत्तर ६—पाठक वर्ग ! समाजी महाशयका यह प्रश्न बिना नीच की भौत के समान निर्मूल इस कारण है कि मनुस्मृति के अ० ३। २७३ श्लोक-मे कल्पभर तक पितरों की तृप्ति का कुछ भी नाम नहीं है न वहाँ टीकाकारों ने ही वैसा अर्थ किया है। किन्तु मनु के मूल में (तदप्यक्षयमेवस्यात्०) लिखा है कि भाद्रपद कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी को मघा नक्षत्रमें किये श्राद्ध से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है अर्थात् उस समय के श्राद्ध का अविनाशी वा अनन्त फल होता है यहाँ कल्प भर का नाम भी नहीं है। अक्षय शब्द का अर्थ कल्प भर कदापि नहीं हो सकता क्योंकि कल्प भी एक अक्षयि है यदि कल्पभर के बाद वह पुण्य क्षीण हो गया तो

भी अक्षय नहीं रहा। यह व्यवहार लोक में भी दीखता है कि कोई बड़ा राजा किसी विद्वान् पर वा अन्य किसी मनुष्य पर किसी काम से इतना अधिक प्रसन्न होजाय कि उसे एक राजा बना दे और उस की कोई हद्द न करे तो जब तक संसार में उस की सन्तति चलेगी तब तक उस को अक्षय फल प्राप्त हो गया क्योंकि बड़ा राजा भी उस को राजा बनाने की कोई हद्द नहीं करता और अक्षय व अनन्त शब्द का भी अर्थ यही है कि जिसकी कोई अवधि नियत न हो वही अनन्त है वा वही अक्षय है। चाहे वह फल किसी अपने किये वा अन्य किसी भी कारण से कभी नष्ट भी होजाय तो वह उस दाता की ओरसे अक्षय वा अनन्तही माना जायगा। अनुमान होता है कि प्रद्वकत्ता समाजी पितृयोनि के जन्म को जन्म नहीं मानते हैं। यदि ऐसी बात है तो बड़ा ही प्रबल अज्ञान है और ऐसे महा अज्ञानान्धकार की कोई औपध भी नहीं है। समाजी को चाहिये कि हृदय के चक्षुओं में ज्ञानांजन लगावे।

“परमात्मा उनको कल्प भर किसी प्रकार का जन्म नहीं देते ? यदि देते हैं ता तत्काल जन्म देनेकी व्यवस्था कहाँ रही” यह वितर्क सर्वथा ही वे समझी से किया गया है क्योंकि जब पितृयोनि में जितने काल के लिये किसी भी साकार वा निराकार ने जन्म दिया है उसके भीतर तो अन्य जन्म देने की वा न देने की शंका उत्पन्न ही नहीं होसकती। क्योंकि ऐसे तो समाजी पर भी शंका हो सकती है कि सौ वर्ष तक के लिये किसी समाजी का जन्म हो अर्थात् १०० वर्ष तक जीवित रहें तो तत्काल जन्म देने की व्यवस्था कहाँ रही यदि किसी का जन्म होते ही मरे फिर तत्काल ही जन्म हो फिर तत्कालही मरे तो जानो व्यवस्था चले तो सभी समाजियोंको क्या जीवित ही न रहना चाहिये। यदि वे पितर लोग पितृयोनि में एक कल्पसे भी कम रहें वा एक कल्प से भी अधिक रहें और फिर अन्य देवादि योनियों में जावें तो भी वह मघानक्षत्र युक्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के लिये श्राद्ध का फल अन्य जन्मों में फलदायक होते जानेसे अक्षय वा अनन्त कहा माना जायगा जैसे संसारमें ऐसे

महा घोर अधर्म भी बहुत हैं जिनका बुरा दुःख फल असंख्य जन्मों तक होता ही जाता है जैसे ही धर्म पुण्य भी अनेक हैं जिनका शुभ फल अनन्त वा अक्षय होता है हम पूछते हैं कि अन्योंको अक्षय फल होते देखकर समाजी का पेट क्यों पिराता है ? जब कि इतने जन्मों तक किसी कर्म का फल भोगा जाना युक्ति प्रमाण दोनों से सिद्ध है जिसके लिये कोई अवधि नहीं कर सकता तब भाद्रपदकी मघायुक्त त्रयोदशी के दिन श्राद्ध और विधि पूर्वक किये मृतोद्दिष्ट श्राद्ध का भी वही अनवधिक अक्षय फल है उसमें भी किसी कुनर्क को अवकाश नहीं है । और जब ईश्वर भी कर्मानुसारही सबको शुभाशुभ फल देता है यही स्वा० दयानन्द जी का भी मन्तव्य है ऐसा ही सब आर्यसमाजी भी [जो स्वमताभिज्ञ हैं] मानते हैं तब न जाने प्रश्नकर्ता सन्तराम समाजी ने अपने मतसे विरुद्ध (सब देहियों के भरण पोषण का प्रबन्ध जब विश्वपालक परमात्मा स्वयं करते हैं) ऐसा क्यों लिखा है ? यहां स्वयं कहने से समाजी ने कर्मवाद की निवृत्ति दिखाई है और यदि कर्मानुसार माना जायगा तो श्राद्ध भी एक कर्म है उसके अनुसार फल देने से श्राद्ध की सिद्धि होगई । इस से समाजी का प्रश्न सत्रथा ही कट जाता है इटावा के छपे प्रश्नों में तीसरा प्रश्न यह लिखा है कि—

प्रश्न ३—कौओं और पितरोंमें क्या सम्बन्ध (रिश्तेदारी) है जो श्राद्धमें विशेष कर उन्हें ही भोजन (कागौर) दिया जाता है । क्या कौवा पितरों के बीचमानी (मध्यस्थ) प्रतिनिधि कारिन्दा (पितृ-दूत) या हलकारा हैं ?

और लाहौर वाले प्रश्नोंमें सत्रहवां प्रश्न यह है कि—कौओं और कुत्तों का पितरोंसे क्या सम्बन्ध है ? ।

उत्तर—क्रिया में पियड का स्पर्श कौओं को कराना चाहिये ऐसी जो आग्रह की विधि लिखी है उस से यह अनुमान तो नहीं होता, कि जिस प्रकार आजकल पार्सी लोग अपने मुर्दों को जानवरों से खिलाते हैं पुराने हिन्दू भी अपने मुर्दों को इसी प्रकार कौओं कुत्तों के अर्पण करते, होते थे और पीछे विचारवानों ने प्रेतका दाह संस्कार ही उत्तम जान इस प्रथा को बन्द

किन्ना और संस्कार जारी किया। अगर यह नृत्य है तो हमें मृतक श्राद्ध में संस्कार न करना अर्थात् मृतक पूजा छोड़ जीवित पितरोंकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्नता सम्पादन न करनी चाहिये क्या ?

उत्तर ३। १७। पाठक महाशय ! ब्राह्मणधर्म में तो दोनों ही समाजियों का यह प्रश्न बेसमझीका है तथापि कौओंको पिएड स्पर्शादि कराने की कल्पना और पारसियों के दृष्टान्त से अपने बाप दादों के शरीरों को कौओं कुत्तों को खिलाने की युक्ति प्रमाण चिरुद्ध समाजी की कल्पना सर्वथा ही निर्मूल मनमानी है नव सोचिये कि ऐसी व्यर्थ बातों का वैसा ही उत्तर देना क्या हमारा काम है ? अर्थात् कदापि नहीं तथापि हमें मूल धान का संक्षेप से उत्तर लिखते हैं। प्रथम तो समाजियों से ही पूछना चाहिये कि तुम्हारी पञ्चमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि में जो कुत्ता कौआ चारुडाल पतित पाप रोगी और कृमियोंको नित्य २ भोजन देना लिखा है सो उन कौओं कुत्तों आदि से समाजियों की क्या २ रिश्तेदारी है ? क्या कौओं कुत्तोंसे अधिक अच्छे पशु पक्षी और नहीं हैं जो उन को नित्य २ भोजन देना लिखा जाना ?। जब स्वामी दयानन्द जी ने गो कर्णानिधि पुस्तक बनाया था तब सब से अधिक उपकारी पशु गौ को लिखा था सो गौ को नित्य २ भोजनांश देना क्यों नहीं लिखा ? और श्वकर्णानिधि तथा काककर्णानिधि पुस्तक क्यों नहीं बनाये ? पाप रोगी और चारुडालादि को तो नित्य २ भोजनांश दिया जाय परन्तु अन्य रोगियों को तथा चर्मकारादि को क्यों नहीं दिया जाय ? क्या समाजी लोग कौओं कुत्तों आदिको नित्य २ भोजन दिया करते हैं ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर समाजी से मांगने चाहिये ॥

अब रहा सनातनधर्म की ओर से समाधान, सो सनातनधर्म की श्राद्धपद्धतियों में श्राद्धान्न कौओं को खिलाना कहीं भी लिखा नहीं देखता इसी कारण समाजियों के प्रश्न में भी किसी प्रमाणका नाम नहीं लिखा। इस दशा में समाजियों का यह प्रश्न किसी सनातनधर्म के मान्य प्रमाण पर तो रहता ही नहीं किन्तु किन्हीं मनुष्योंको श्राद्धावसर में कौओंको अब खिलाने देखने सुनने पर यह समाजियों का प्रश्न होना सम्भव है। ऐसी दशा में इस पर विशय

उत्तर की आवश्यकता नहीं है केवल इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि सनातन धर्म का मैदान बड़ा अनवधिक लम्बा चौड़ा है किन्तु एक देशी समाजी भादि मतों के तुल्य संकुचित नहीं है। सनातन धर्मियों के कौआ कुत्ता छमि कीटादि, सभी रिश्तेदार हैं सो इतना ही नहीं किन्तु शिव जी के भूषण होने से सर्प वृश्चिकादि भी पूज्य हैं, विष्णु भगवान् के चिन्द जड़ कहाने पर भी पूज्य हैं, वृन्दावन की भूमि, वहां के वृक्ष गोवर्धन पर्वत को एक रज भी तां पूज्य है। जिस पृथिवी में कृष्ण भगवान् के चरण पड़े हैं वह भूमि महा पवित्र होने से परमपूज्य है अभिप्राय यह है कि सामान्यतया ईश्वर देव सव में उसी २ के रूप से विद्यमान होने से उस एक में सच्चिदानन्द रूप से ईश्वर को देखते हुए उसी की पूजा भक्ति नमस्कार प्रणाम करना सनातनधर्म का गूढ़ सिद्धान्त है इसी विचारसे वेद में लिखा है कि—
नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च । यजुर्वेद अ० १६ ।

शुनिचैव श्वपाकेच परिहृताः समदर्शिनः । गीता० ॥

कुत्तावच्छिन्न चिदात्मक ब्रह्मकों नमस्कार है तथा कुत्ता ब्राह्मण चाण्डालादि में सच्चिदात्मक भगवान् एक ही रूप से विद्यमान है जैसे कि सुवर्ण, चांदी, पीतल और मट्टी के घड़ों में जो पोल रूप आकाश है वह सव घड़ों में एक ही रूप है वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि में तथा पशुवादि में एक ही ईश्वर एक ही रूप से विद्यमान है, इस से कुत्तादि सभी प्राणी ईश्वरभाव से पूज्य हैं और सुवर्ण, चांदी, मट्टी, ब्राह्मण, क्षत्रियादि गौ कुत्तादि उपाधियों का भेद व्यवहार के लिये है इस से सामान्यतया सभी पूज्य हैं ॥

और विशेष यह है कि जिस प्रकार का जव और जिस प्रयोजन से जिन २ चर अन्न-प्राणियों का पूजन वा भोजनादि देना श्रुतिस्मृति पुराणादि में लिखा है वह शब्द प्रमाण सनातन धर्मियों को निर्विकल्प मन्तव्य है। आद्यान कौओं को खिलाना सबके लिये विराट् सिद्धान्त नहीं है इसीलिये आद्यपद्धति आदि पुस्तकों में प्रमाण नहीं लिखे गये परन्तु किन्हीं आचार्यों का मत है, जैसे कि, मनु० अ० ३ २६१ में ।

वयोभिः खादयन्त्येके प्रक्षिपन्त्यनलेऽऽसुवा ॥

कोई आचार्य श्राद्ध के पिएँों को पशियों को गिलाने हैं और कोई अग्नि में वा जल में गिराने को कहते हैं। इसी कारण श्राद्ध-कर्त्ताओं में सर्वत्र कौशों को अन्न गिलाने का प्रचार भी नहीं हुआ है। तथा श्राद्ध से भिन्न जो काकवलि का विधान है वह तो इससे भिन्न है। जब कि समाजियों के लिये सभी धर्म मन्थनी कर्त्तव्य शंकासूद् हैं तब किसी काकवलि आदि एक दो विचार पर शिरपष्ठी करना भी व्यर्थ है। प्रश्नकर्त्ता समाजियों को किञ्चित् भी संकोच नहीं हुआ कि जब हमारे मतमें तो कौशोंको नित्य २ भोजनांश देना लिखा है तब अन्वों पर वहाँ प्रश्न क्यों करते हैं ? ॥

प्रश्न १०—इस समय जहाँ कहीं तीन ही पीढ़ियों तक श्राद्ध करने की विधि प्रचलित है कृपया बताइये इसका तात्पर्य क्या ! जब कल्प पर्यन्त पितरों को दूसरा जन्म मिलता नहीं तब पहिले पितरों की वृत्तिका क्या प्रबन्ध होगा ! अगर उनको परमात्मा की तरफसे मिलता है तो इन नये मरे तीन पितरों को क्या परमात्मा भूखे रखेंगे ? ॥

यह तो लाहौर वाले समाजी का दशवां प्रश्न है और इटावा वाले का चौथा प्रश्न ४—तीन पीढ़ी तक ही श्राद्ध करने का नियम है उसके पहले (५ । ६ पीढ़ी आदि के) पुरुषों की क्या गति होती है ? ॥।

उत्तर १० । ४ का—यह प्रश्न कुछ अच्छा इस लिये भी है कि वेदादि शास्त्रोंके गूढ़ाशयों को न जानने समझने वाले सहस्रों सनातन धर्मियों को भी यह सन्देह उठ सकता है कि तीन ही पीढ़ी तक के पितरों का श्राद्ध तर्पण क्यों किया जाता है ?। चौथे वृद्ध प्रपितामह के लिये श्राद्ध तर्पण सर्वथा ही क्यों बन्द किया है ?। बिना पढ़े सूक्त समाजी भी वेद २ चिखाने और वेद को जानने मानने का दम भरते हैं यदि समाजियों को श्रुति स्मृतिका बोध होता तो वे प्रमाण पर अवश्य कुछ विचार लिखते। अस्तु—अब समाधान सुनिये सनातनधर्मियों का अटल मन्तव्य है कि श्रुति स्मृति पुराणादि शास्त्रोंमें लिखे विचार को अटल रूप से मानना चाहिये यही बात

करण महाभाष्य के कर्ता पतञ्जलि मुनि ने लिखी है और भगवद्-गीता में भगवान् ने स्वयं भी यही आदेश किया है कि—

शब्दप्रमाणका वयं यच्छब्द आह तदस्माकं प्र-
माणम् ॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्तेकार्यकार्यं व्यव-
स्थितौ । ज्ञात्वाशास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहा-
हसि ॥ अ० १६ ॥

भाष्यार्थ—जिस से कि हम शब्दप्रमाण के मानने वाले होने से आस्तिक हैं इसी से हमारा काम है कि जो कुछ हमारे माननीय श्रुतिस्मृति रूप शिष्ट प्रमाणित शास्त्रमें लिखा है उसको बिना किसी प्रकार की हुजत वाजी के मानें और वैसा ही करें। जब किसी काम में शंका हो कि यह काम कर्त्तव्य है वा अकर्त्तव्य है अथवा किस प्रकार-से कर्त्तव्य है तब प्रामाणिक अच्छे विद्वानों की सम्मति से श्रुतिस्मृति रूप शास्त्रों का विधान उस अंश में जानकर शास्त्रकी आज्ञानुसार करना चाहिये। पाठकगण ! अथ देखिये श्रुतिस्मृतियों में इस विषय पर क्या लिखा है ? ॥

न चतुर्थः पिण्डो भवतीति श्रुतेः । पारस्करगृह्ये
पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्य मश्नुते ॥ अथ
पुत्रस्यपौत्रेण ब्रह्मस्याप्नोतिविष्टपम् ॥ १३७ ॥

त्रयाणामुदकंकार्यं त्रिषुपिण्डःप्रवर्त्तते ।

चतुर्थःसंस्पदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥१८६॥ मनुर्

भा०—महर्षि पारस्कराचार्य अपने गृह्यकल्पसूत्रके मृतपितरों के श्राद्ध तर्पण विधान प्रकरणमें कहते हैं कि मृतपितरों को तीन ही पिण्ड देने चाहिये, चौथा पिण्ड नहीं दिया जाता ऐसा श्रुति नाम वेद में लिखा है। यद्यपि इस विचार को धर्मशास्त्रों के निर्माता महर्षियोंने बसु रुद्र और आदित्यस्वरूप पितरों का श्राद्ध तर्पण दिखाते हुए यह तात्पर्य दिखा दिया है कि पुत्र अपने पिता का श्राद्ध करता

हुआ पिता को वसुस्वरूप कहता है, पौत्र के समय वही रुद्रस्वरूप पितामह कहा जाता और प्रपौत्र के श्राद्ध तर्पण करते समय वही आदित्य स्वरूप होजाता और कहाता है इसीसे यह सिद्ध है कि तीन पीढ़ी तक शास्त्र की आज्ञानुसार विधि पूर्वक श्राद्ध के साथ श्राद्ध तपण रूप पितृयज्ञ होतेजाने पर चौथा ऊपर वाला त्रिलोकी रूप ब्रह्माण्ड संसारसे पार होकर मुक्त हो जाता है इसलिये वसु-रुद्र और आदित्य तीन ही स्वरूप वाले पितरों को त्रिलोकी रूप संसार सागर के पार सच्चिदानन्द स्वरूप मोक्ष दशा में पहुँचा देने के लिये तीन पीढ़ियों तक के पितरों का ही श्राद्ध तर्पण करना माना गया है । तथापि मनु जी ने अ० ६ में एक दो श्लोकों द्वारा इस बात को स्पष्ट कह दिया है कि-पुत्र के किये श्राद्ध तपण से पिता स्वर्गादि लोकों को प्राप्त हो जाता और पौत्र के किये श्राद्ध तर्पणसे ब्रह्मी स्वर्गादि में अनन्त सुखों को प्राप्त होता है [यहाँ मानुषी भोगोंकी अपेक्षा से स्वर्गादि का भोग अन्त वाला है, इससे निरपेक्ष अनन्त नहीं, इसी कारण श्राद्धादि की आवश्यकता आगे रहती है] तथा प्रपौत्र के किये श्राद्ध तर्पण से वही पुरुष ब्रह्मके विष्टप नाम अन्तिम कोटि को भी प्राप्त हो जाता है अर्थात् तीन पीढ़ी तक के श्राद्ध तर्पणसे त्रिलोकीके बन्धनोंसे छूटकर मोक्षका भागी हो जाता है । इसलिये वेद की आज्ञानुसार अपनेसे ऊपरके पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीन के लिये ही तर्पण और तीनके लिये ही श्राद्ध में तीन ही पिण्ड देने चाहिये, वेद का अभिप्राय लेकर ही तीन को तीन पिण्ड देने की परम्परा सनातन काल से सनातन धर्म में चली आती है तीन का श्राद्ध तर्पण करने वाला चौथा होता है इस से भिन्न श्राद्ध तर्पण में पाँचवें का होना प्रमाण सिद्ध नहीं है आशा है कि इस शास्त्र प्रमाण युक्त तीन पीढ़ी तक के श्राद्ध तर्पण सम्बन्धी उत्तर को समाजी लोग तथा जिन को शंका ही मान कर सन्तुष्ट होंगे । वेदादि में इस विचार के अनेक प्रमाण हैं उन को विस्तारभय से हम ने यहाँ नहीं लिखा है ॥

पाठक महाशय ! लाहौर वाले समाजी के प्रश्न में देखिये "कहीं तीन ही पीढ़ियों तक श्राद्ध करने की विधि प्रचलित है, यह कौंसा महा अज्ञान है ? । आप लोग समाजी से पूछ सकते हैं कि जब कहीं तीन ही पीढ़ियों तक श्राद्ध विधि का प्रचार है तो अन्यत्र जहाँ २ चार पाँच आदि पीढ़ियों तकके लिये श्राद्ध में चार पाँच आदि पिण्ड दिये जाने हों सो हे समाजी ! तुम दिग्बाओ ? । जिन समाजियों को लोक व्यवहार और शास्त्र मर्यादा दोनों की जानकारी नहीं है तथा सर्वथा अज्ञान घेरे है उन को ऐसे बे समझी के प्रश्नों द्वारा अपना उपहास कराने में कुछ भी लज्जा वा संकोच नहीं होना यही आश्चर्य है । और एक कल्पपर्यन्त पितरों का अन्य जन्म नहीं होता यह अपनी मनमानी कल्पना समाजी ने की है । ईश्वर भगवान् उस २ के स्वयं किये या पुत्र पौत्रादि नाम से उसी के किये धर्म कर्मों के अनुसार ही सब प्राणियों को जन्मादि फल देता है ॥

प्रश्न ११-पितृयोनि अगर कैद है तो सरकार जिस प्रकार अपने कैदियों को अन्नदि देती है दया घन परमेश्वर उन्हें कुछ न देगा क्या ? परमेश्वरकी दयालुतासे श्राद्ध करने वाले की दयालुता बहुत है क्या ? ॥

उत्तर ११ -वास्तव में तो यह भी प्रश्न बेसमझी से संख्या बढ़ाने के लिये किया गया है । तो भी कुछ उत्तर लिखे देते हैं कि पितरों की भी एक योनि होनेसे सर्वांशमें स्वतन्त्र तो नहीं है परन्तु मनुष्य योनि से बहुत ही स्वतन्त्र है क्योंकि पितृलोक भी स्वर्ग का ही एक अंश है । देवयोनियोंकी अपेक्षा मनुष्य योनि अत्यन्त पराधीन होने से अधिक कर कैद है मनुष्य की अपेक्षा पितृ देव एक प्रकारसे मुक्त हैं । मनुष्योंमें भी राजा की अपेक्षा प्रजा विशेष कैदमें है इस प्रजा में भी आर्यसमाजी लोग कई कारण वश सबसे अधिक कैदी हैं । सो यह पराधीनता रूप कैद तो सापेक्ष सर्वात्र विद्यमान है परन्तु समाजी का अभिप्राय तो आज कल की रूढ़ि जेलखानों के तुल्य कैदसे ज्ञात होता है यद्यपि पितृयोनिके लिये घेरा खिचा हुआ कोई जेलखाना नहीं बना है तथापि दुर्जनतोपन्याय से हम समाजीकी बातकी मान

दी ले' तो भी शोचना यह है किसी गण्य मान्य प्रतिष्ठित समाजीको किसी अपराधमें सजा हो जावे तो अनेक समाजी मिलके चन्दा करने और समाजी बकील बिना फीस लिये उस कौंदी समाजीको निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करते देखे जाते हैं । तब हे प्रश्नकर्त्ता समाजी ? सत्य कहो ! कि वहां तुम ऐसा प्रश्न क्यों नहीं करते कि वह मनुष्य अपने कर्मानुसार जेलमें गया है दयालु सरकार उसको अज्ञादि देती है हम उसको जेल से छुड़ानेका उपाय क्यों करें ? । यदि वैना प्रश्न नहीं करते तो अपने कर्त्तव्य वा मन्तव्यसे विरुद्ध तुम्हें यह प्रश्न क्यों नहीं है ? अर्थात् कौंदसे छुड़ानेका उपाय अनुत्तित क्यों समझते हो ? ॥

प्रश्न १२-जिनके सन्तान नहीं होती वह पितर क्या भूखे मरते हैं अथवा जिन जातियोंमें श्राद्ध करनेकी चाल नहीं और जो करते नहीं उनकी भूख मिटाने के लिये परमेश्वरके घर में कोई प्रवन्ध नहीं है ? (यह लाहौर वाले का प्रश्न है । इटावा वाले का पांचवां प्रश्न यह है कि) ५-जो निःसन्तान मरते हैं उनको अपने धर्मके अनुसार स्वर्ग प्राप्त होता है या नहीं क्योंकि शुकदेवजी भीष्मपितामह जी पञ्चशिखादि अनेक ऋषियों ने अपना विवाह ही नहीं किया था क्या उन उन धर्मात्माओंको उनके कर्मानुसार स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ होगा ? ॥

उत्तर १२ । ५-जिनके कोई पुत्र नहीं होता और उन लोगोंने स्वयं भी ऐसा पुण्य धर्म नहीं किया जिस से स्वर्ग वा मोक्ष के भागी वे लोग हो सकें तो इस में कोई भी सन्देह नहीं कि वे ही लोग जन्मान्तरोंमें भोजन बख्शादि से भी हीन होकर दुःखी रहते हैं । जो लोग पूर्वकालसे ही वेदोक्त श्राद्धादि कर्मोंको नहीं मानते न करते हैं तथा जो आर्यसमाजी वेदोक्त श्राद्ध को नहीं मानते न करते हैं उनके पुत्र पौत्रादि विद्यमान होने परभी श्रेष्ठ गति उनकी कदापि नहीं होती । हमारा विश्वास तो यही है कि देश देशान्तरोंमें जो मनुष्यादि प्राणी मूर्खों मरने वाले देखे सुने जाते हैं वे प्रायः पूर्वजन्ममें श्राद्धके विरोधी समाजी आदि थे । यदि वे किसी अपने सामान्य शुभ कर्मके द्वारा भूखों मरने वालोंमें उत्पन्न न होकर धन सम्पत्ति वालेभी हों तो भी

आगे उन के सन्तान नहीं होते, वंश नहीं चलता। इससे श्राद्ध के विरोधी होना नास्तिकपन है। इस प्रसंग में पेत्रेय ब्राह्मण में लिखा राजा हरिश्चन्द्र का उपाख्यान पुत्र विषय का समाजी और पाठकों के सन्तोषार्थ लिखते हैं। स्वामि दयानन्द जी ने भी पेत्रेय ब्राह्मण को मन्तव्य पुस्तकों में गिनाया है इस से आशा है कि समाजी लोग इस प्रमाण को अवश्य मानेंगे और सनातनधर्मों तो ब्राह्मण ग्रन्थों को निर्विकल्प वेद मानते ही हैं, इस से यह प्रमाण दोनों का मन्तव्य होगा। इक्ष्वाकुवंश में हरिश्चन्द्र नामक राजा हुए उन के सौ पत्नी थीं परन्तु पुत्र किसी रानी से नहीं हुआ था। उक्त राजा के यहां नारद पर्वत नामक ऋषि अतिथि रूप से आये तब उस राजा ने करबद्ध होकर पूछा कि—पेट० पं० ७। अ० ३

येन्विमंपुत्रमिच्छन्ति येविजानन्तियेचन ।

किंस्वित्पुत्रेणविन्दते तन्म आचक्ष्वनारद ॥ १ ॥

जो प्राणी पुत्र से होने वाले फल वा प्रयोजन को जानते हैं वा जो नहीं जानते वे सभी चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो सो हे नारद ! आप मुझ से कहिये कि पुत्रके होनेसे पिताको क्या फल होता है ? ऐसा पूछने पर नारदजीने दश ऋचारूप श्रुतियों द्वारा उत्तर दिया।

ऋणमस्मिन्त्सन्नयत्यमृतत्वंचगच्छति ।

पितापुत्रस्यजातस्य पश्येच्चेज्जीवतोमुखम् ॥ २ ॥

मनुष्य के ऊपर जो ऋषि देव पितरों के त्रिविध ऋण हैं उनको यदि पुत्र उत्पन्न हो और इनने पल वा क्षणों तक भी जीवित रहे कि जिस में पिता जीवित पुत्र का मुख देख ले तो भी ऋष्यादिके ऋण उस पर आ जाते हैं, अर्थात् पिता उऋण हो जाता है ऋणों का भार पिता के शिर से उतर जाता है और इतने से भी नाम पुत्रके प-उत्पन्न हो जाने मात्र से पिता स्वर्गका भागी हो जाता है इस के प-श्चात् यदि अपने भी पुण्य स्वर्ग प्राप्ति के योग्य हों तो स्वर्ग में भी वैसे ही अधिक २ उत्तम भोग प्राप्त होंगे कि जैसे पुत्र के अभाव में नहीं हो सकते ॥

यावन्तःपृथिव्यांभोगा यादन्तोजातवेदसि ।

यावन्तोऽप्सुप्राणिनां भूयान्पुत्रेषितुस्ततः ॥ ३ ॥

भूमि पर, अग्नि लोक में और घरुणलोक में प्राणियोंके लिये जितने उत्तम २ भाग हैं उन सब से अधिक आनन्द वा जन्मान्तरमें सब से अधिक संसारी सुख भोग पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर पिता को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

अश्वत्पुत्रेषपितरोऽत्यायन्वहुलं तमः ।

आत्माहिजज्ञश्चात्मनः सद्भ्रावत्यतितारिणी ॥४॥

अपने ही हृदयादि सब अंशों से उत्पन्न हुए अपने ही द्वितीय रूपान्तर पुत्र से पितर लोग बड़े प्रबल पाप रूप अन्धकार के पार हो जाते हैं । जैसे इरावती नदी (जो प्रश्नकर्त्ता सम्राज्ञीके अति समीप है जिसका माहात्म्य लाहौरके सनातनधर्म प्रेमी विशेष जानते मानते हैं) स्नान करने वालों को अत्यन्त तारने वाली है वैसे पुत्र भी पिता को अधिक तारने वाला होता है ॥ ४ ॥

किंनुमलंकिमजिनं किमुश्मश्रू णिकिंतपः ।

पुत्रंब्राह्मणाश्चछध्वं सर्वलोकोषदावदः ॥ ५ ॥

शारीरिक मलोंकी शुद्धि करना, ब्रह्मचर्याश्रम में कृष्णाजिन धारण, सब केश श्मश्रु रखाना तप करना इत्यादि सबसे अधिक तारने वाला पुत्र है इस कारण हे ब्राह्मणो ! पुत्रकी इच्छा करो ॥५॥

अन्नं हमाणाःशरणं हवासो रूपंहिरण्यंपशवो विवाहाः । सखाहजायाकृपणंहिदुहिता ज्योतिर्हपुत्रः

परमेष्ठ्योमन् ॥ ६ ॥

संसार में जैसे अन्न ही प्राणियों का जीवनरूप प्राण है, घर ही निवासका आश्रय, सुवर्ण ही सर्वोत्तम रूप, विवाह नाम स्त्री संयोग ही पशुवृत्ति स्त्री ही सबसे अधिक मित्र और पुत्री ही सबसे अधिक विधेय दयापात्र है वैसे ही प्रकाशरूप ही पुत्र है अर्थात् पुत्र बालेको

आगे पीछे कुछ दीखता है और पुत्रहीन का घर शून्य है उसके सूत्र ओर बन्धकार है चाहे यों कहो कि पुत्र ही प्रकाश वाले सर्गादि पुण्यलोकों में पिता को पहुँचाता है । जिसका घंशच्छेद हो जाना है वही मरता है और जिसकी सन्तति बली जाती है वही सन्तारमें जीवित हुआ विद्यमान है वह मरना हुआ भी वास्तव में नहीं मरता । इसी से महर्षि लोग अपने घंशोरूप से विद्यमान हैं इसी कारण अब भी तपस्वी होते हैं ॥ ६ ॥

पतिर्जायांप्रविशति गर्भभूत्वास्मातरम् ।

तस्यांपुनर्नवोभूत्वा दशमेमासिजायते ॥ ७ ॥

पति अपनी पत्नीमें प्रवेश करना गर्भरूप पति की उस मातारूप पत्नी में फिर से नया सुन्दर बालरूप धारण करके दशवें मास में उत्पन्न हो जाता है । एक ही मनुष्य अपने नवीन २ रूप शरीर बनाता जावे और पुगने २ वृद्ध शरीरों को त्यागना जावे इस काम के लिये पत्नी रूप स्त्री एक प्रकार की कल है ॥ ७ ॥

तज्जायाजायाभवति यदस्यांजायतेपुनः ।

आभूतिरेषाचभूति-वीजमेतन्निधीयते ॥ ८ ॥

जिस से कि-उस पत्नी में अंशरूप से प्रवेश करके पुत्ररूप से पति जायमान नाम फिर से प्रकट होता है इसी से पत्नी का नाम जाया हुआ है । और जाया तथा जननी इन दोनों शब्दों का एक ही शब्दार्थ है जननी नाम माता का है भेद केवल इतना है कि वह पतिरूप शरीर की पत्नी और पुत्ररूप प्रत्यंग की जाया वा जननी है वह उत्पन्न हुआ सन्तान आभूति कहाता और गर्भाशय में स्थापित हुआ बीज भूति कहाता है ॥ ८ ॥

देवाश्चैतामृषयश्चतेजः समभरन्महत् ।

देवासनुष्यानब्रुवन्नेषावोजननीपुनः ॥ ९ ॥

पहिले सर्गारम्भ के समय देवता और ऋषियों ने सृष्टि उत्पन्न की वा जब २ वे लोग सृष्टि करते हैं तब महातेजोमयी सूक्ष्मरूप स्त्री

से संग करते हैं अर्थात् सूक्ष्मभूतोंके शुद्ध सूक्ष्म स्त्रीत्व प्रधान अंशों से योगशक्ति द्वारा संयोग करके सन्तानोंको उत्पन्न करते हैं किन्तु महाभूतों से बनी मांस, हड्डी, रुधिरादि के शरीर वाली स्त्रियों से ऋषि देवताओं ने कभी संयोग नहीं किया अथवा यों कहो कि जब तक ऐसा किया तभी तक वे ऋषि देवता पूर्णरूप से कहाते रहे और जब से पांच महाभूतों की मांसास्त्रिमयी स्त्री से संग किया तभी से मनुष्य हो गये और जिसने ऐसा नहीं किया वे ऋषि देव बने रहे । मनुष्यों में भी ऊर्ध्वरेता रहने वाले वा विवाह करके एक ही पुत्र उत्पन्न करने वाले भी द्वितीय कोटि के ऋषि कहाये । देवोंने मनुष्यों से कहा कि जिस पत्नी में पुत्र नाम रूप से तुम एकवार उत्पन्न हो गये वह पीछे तुम्हारी जाया जननी माता होगयी ॥ ६ ॥

इस ऊपर कहे विचार को मानने वाले ऋषियों का मत है कि स्त्री में एक पुत्र होजाने तक ही पति पत्नी सम्वन्ध माना जावे जैसा महर्षि जरटकार आदि अनेकों ने किया है । इस पक्ष में काम सुख भोगार्थ विवाह नहीं माना जाता किन्तु एक पुत्र हो जाने पर दोनों स्त्री पुरुष जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य से तप करें और पुरुष पत्नी को मातृवत् समझने लगे । पुत्र के बिना स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त नहीं होते यह तो श्रुति का मत है और मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मचर्य धारण करके बहुत काल जप तप करने से स्त्री वा पुरुष दोनों ही पुत्रोत्पन्न किये बिना भी स्वर्ग के भागी हुए और हो सकते हैं । इन श्रुति स्मृति दोनों में किसीको विरोध जान पड़े तो समझने का दोष जाना । श्रुति का अभिप्राय है कि जिस के पुण्य कर्म प्रचल नहीं किन्तु मध्यम वा निरुण्ट हैं और उन का पुत्र अच्छा हो तो पुत्र के होने से पिता को स्वर्ग प्राप्त हो जायगा और नरक से बचेगा । और पुत्रों के द्वारा पिता को मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है अर्थात् जिस के पुत्र विद्यमान हैं उस के उत्तम कर्म न होने पर भी उसकी अधोगति नहीं हो सकती किन्तु स्वर्ग होगा यह तो श्रुति का अभिप्राय है और मनुस्मृति का अभिप्राय यह है कि जिस के

पुत्र नहीं उस स्त्री वा पुरुष को ब्रह्मचर्य के नियम से स्वयं किये प्रबल जप तप से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति पुत्र के अभाव में भी हो सकती है अर्थात् प्रबल पुण्य न हो तो पुत्र हुए बिना सद्गति नहीं हो सकती यह तो श्रुति का आशय है और अपने किये प्रबल पुण्य से पुत्रके अभाव में भी सद्गति हो सकती है यह स्मृति का तात्पर्य है अपने २ अंश में दोनों ठीक हैं विरोध कुछ नहीं है ॥

यदि कोई महाशय यह प्रश्न करे कि (नामुत्रहिसहायार्थं०) जन्मान्तर में पुत्रादि लोग पिता को सुख नहीं दे सकते । इस दशा में पुत्र के किये श्राद्ध का फल पिता को नहीं मिलेगा इससे श्राद्ध व्यर्थ हुआ तो इस का समाधान यह है कि स्त्री पुत्रादि मुझे परलोक में सहायता देंगे इस भरोसे पर अपने कर्त्तव्य धर्म को मनुष्य न भूल जावे क्योंकि पुत्रादि चिरजीवी होकर पिता के वाद बने ही रहें यह नियम भी तो नहीं है, कदाचित् पहिले वा साथ में ही वा पिता के पश्चात् ही पुत्र भी मर जावे अथवा विद्यमान भी रहें और किसी सनातनधर्मी मनुष्य ने पूर्ण आशा की कि मेरे कई सुपुत्र हैं उन के किये श्राद्ध द्वारा मुझे अवश्य सद्गति प्राप्त होगी परन्तु उन पुत्रों में से कोई तमाजी समाजी कोई जैनी वा ईसाई आदि श्राद्धका खण्डन करने वाला विरोधी पतित नास्तिक हो गया तो ऐसे पुत्रों से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । अभिप्राय यह है कि अनुपस्थित भाविनों आशा पर विश्वास नहीं करना चाहिये । और द्वितीय यह भी है कि यदि पुत्रादि लोग जन्मान्तर में पिता का उद्धार श्राद्धादि द्वारा करें और उस ने स्वयं भी पहिले से धर्म का सञ्चय किया हो तो उसके लिये सुवर्ण में भी सुगन्ध वा एक से एक ग्यारह होगा अर्थात् उसकी सद्गति उन लोगों से अधिक उत्तम होगी कि जिन्होंने स्वयं धर्मका संचय नहीं किया केवल पुत्रों के श्राद्धादि से ही जिनकी सद्गति होनी है । इससे यह भी सिद्ध होजाता है कि स्वर्गादि में अनेक कक्षायें हैं, ब्रह्माजी से लेकर खावर पर्यन्त एक प्रकार की सीढ़ी लगी है । संसार में मध्यम कोटि के साधारण म-

बुद्ध्य अधिक होते हैं। तथा प्रवल पुण्यात्मा तपस्वी सहस्रों वा लाखों में कोई २ सदा से ही होते हैं उन साधारण आस्तिक सनातन धर्मियों की जन्मान्तर में श्रेष्ठ गति होने का उपाय पुत्र से भिन्न अन्य नहीं है ॥

नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सर्वं पशुषो विदुः ।

तस्मात्तु पुत्रो मातरं स्वसारं चाधिरोहति ॥१०॥

जब देवी नियम से पशुओं को भी श्रात हुआ कि पुत्र हुए बिना प्राणी की अच्छी गति वा स्वर्ग अथवा अनुपम सुख प्राप्त नहीं हो सकता तबसे इसी कारण पशु अपनी माता वा भगिनी से भी संयोग कर २ के पुत्रों को उत्पन्न करने लगे। पशुओं के लिये धर्मशास्त्र नहीं है इसीसे मातृगमनादिका पाप उनको नहीं लगता क्यों कि वे भोगयोनियां हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अब भी वृषभादि पशु पुत्र द्वारा स्वर्ग होने के उद्देश को मानते जानते हुए मातृ गमनादि करते हैं किन्तु अभिप्राय यह है कि जब ब्रह्माण्ड भर में पहिले २ दैव की ओर से यह डुग्गी पिटी थी कि श्राद्धादि कर्म के द्वारा पुत्रादि ही सर्व साधारण को स्वर्गमें पहुंचा सकते हैं बिना पुत्र के स्वर्ग नहीं होता तब पशुओं ने भी सुना और तभी से उनकी पत्नी नियत न होने से मातृगमनादि द्वारा भी उनमें भी पुत्रोत्पादन की प्रथा प्रचलित हुई ॥ १० ॥

एष पन्था उरुगायः सुशेवो यं पुत्रिण आक्रमन्ते
विशोकाः । तं पश्यन्ति पशवो वयांसि च तस्मात्ते
मात्रापि मिथुनी भवन्ति ॥ ११ ॥

यह मार्ग बहुत प्रशंसा के योग्य उत्तम सुख युक्त है कि जिसके द्वारा शोक मोहादि रहित हुए पुत्रों वाले लोग स्वर्गको प्राप्त हो जाते हैं उस मार्ग को पशु पक्षी भी सूक्ष्म रूपसे जानते हैं इसी से वे माता के साथ भी संयोग करते हैं ॥ ११ ॥

धर्मशास्त्रादि सद्य विशेष कर मनुष्यों के लिये हैं इसी कारण अगम्यागमन का पाप पशुआदिको नहीं लगता इससे मातृगमन वि-

पयक कथन सिद्धानुवादपरक है किन्तु विधि वाक्य नहीं है। श्रुति का अभिप्राय यह भी नहीं है कि पुत्रों द्वारा पश्वादि को भी स्वर्ग प्राप्त होता है किन्तु श्रुतिका विवक्षितांश इतना ही है कि पुत्रोत्पत्ति द्वारा प्राणिमात्र का बहुत प्रकार से कल्याण होता है यह बात सर्वत्र व्यापक है इससे पश्वादि में भी इसका गन्ध पहुंच गया और वे भी पुत्रोत्पत्ति के लिये सर्व प्रकारसे बिना रोक टोक तत्पर हो गये। इससे यह आया कि गृहाश्रम का मुख्य फल पुत्रों का हीना ही है यदि यह फल न हो तो गृहस्थ होना व्यर्थ सा है। सन्तानोत्पत्ति होने की दशामें अनेक प्रकारोंसे जो २ सुखादि फल मिलते हैं वे निःसन्तान रहने की दशामें नहीं मिल सकते इसी कारण बन्ध्या गौ भैंस आदि की बँसी प्रतिष्ठा नहीं होती। स्त्री पुरुष के संयोग से जन्य काम सुखका सूक्ष्म मूल वेदने पुत्रको ही माना है इसी लिये पुत्रपणा के अन्तर्गत काम सुखको वेदने मान लिया है क्योंकि पुत्र अपना ही स्वरूप होने से अन्तरंग है और उसकी अपेक्षा पत्नी बहिरङ्ग है इसीसे पिताका पूरा २ दायभागो पुत्र बन जाता है ॥

आशा है कि पाठकगण उक्त ११ श्रुतियों का अभिप्राय ठीक २ समझ गये होंगे जिनसे समाजियों के दोनों प्रश्नोंका पूरा उत्तर हो जाता है। समाजोंका यह कथन कि "उनकी भूख मिटाने के लिये परमेश्वर के घरमें कोई प्रवन्ध नहीं है क्या, ? कौसा वेसमझी का लेख है। क्या अब निराकार ईश्वर का घर भी समाजी लोग मानने लगे। जब समाजियोंका मत है कि परमेश्वर सब प्राणियोंको उन २ के कर्मानुसार ही सुख दुःख के भोग देता है तब समाजी ने इस मन्तव्य से विरुद्ध उक्त लेख क्यों लिखा ?। यह बात उन समाजी महाशय से पूछनी चाहिये ॥

द्वितीय प्रश्नमें जो शुकदेव भीष्मादिका सन्तान हीन होना लिखा है उसका भी समाधान ११ श्रुतियों के व्याख्यान में आद्युका कि शुकदेव कोई सामान्य कौटिक के मनुष्य नहीं थे किन्तु वे लोग सिद्ध कौटिके प्रबल तपस्वी थे, जीवन्मुक्त थे, उनको स्वर्गादि प्राप्ति होना तो छोटी बात है किन्तु वे लोग साक्षात् मुक्त होगये ॥

प्रश्न १३-भूख लगना यह शरीर का धर्म है, शरीर त्यागने पर शरीर रहित जीवको भूख प्यास लगती है यह किसी युक्तिसे सिद्ध नहीं। इसीलिये शरीर रहित जीव को शरीरोपयोगी पदार्थों की कोई जरूरत नहीं रहती फिर उसके नाम पर दिये हुए अन्न, जल, वस्त्र, भूषण, छड़ी, छाता, पलंग, बिछाई, जूता, बूट, टोपी, कोट, डण्डो, मुर्कों, कुण्डल, कण्ठा, हाथी, घोड़े, भैंस, किसलिये ? और अगर यह कि बाड़ियों का बाजार भरना है तो क्या इसे बन्द करना बुद्धिमानों का काम नहीं। और अगर इसमें कुछ बुद्धिमत्ता वा शुभ फल है, तो वह कौनसा है और कैसे ?

उत्तर १३-इस प्रश्न में भी समाजी का प्रबल अज्ञान ही कारण है क्योंकि यह थोड़ा अज्ञान नहीं है कि जो इस स्थूल शरीरको छोड़के मिलने वाली दिव्य योनियों में वा नारकी योनियों में शरीर ही नहीं समझना जब कि वे एक प्रकारकी भोग योनि होना सैकड़ों युक्ति प्रमाणों से सिद्ध है तो बिना शरीर के पित्रादि योनि में भोग ही नहीं सकता फिर उस श्राद्धीय अन्न जलादि से होने वाले सुख और तृप्ति आदि भोग भी पितरों को अवश्य होते हैं। अरे भाई भोले भाले समाजी ? तुम कुछ तो हृदय के विचार चक्षुओं से शोचा विचारा करो, देखो प्रत्यक्ष भी इस स्थूल शरीर की अपेक्षा को सर्वथा छोड़कर प्रतिदिन तुम को सुख दुःख होते हैं। जब तुम स्वप्न के समय कहीं देशान्तर में पहुँच कर जिन सुख दुःखों का अनुभव करते हो तब तुम्हारा स्थूल शरीर तो लाहौर में पड़ा होता है परन्तु केवल सूक्ष्म शरीर से सुख दुःख भोगते हो स्थूल शरीर हमारा है वा नहीं और है तो कहां पड़ा है इस की कुछ भी खबर नहीं होती जैसे वहां सूक्ष्म शरीर से सुख दुःख भोग होते हैं वैसे ही अन्य भी योनियों के सूक्ष्म शरीर में नाना प्रकारके भोग होते हैं। जैसे अति-सूक्ष्म शरीरों वाले अर्थात् परमाणु पर्यन्त सूक्ष्म शरीरों वाले जीव यहां भूमि पर भी कुछ न कुछ खाते पीते हैं वैसे ही पितर आदि सभी योनियों में कुछ खाने पीने का व्यवहार है पर वह योनियोंकी योग्यतानुसार भिन्न २ प्रकार का है। - अन्न जलादि का सूक्ष्म अ-

मृतरूप सारांश पितृ आदि दिव्य योनियों का भोग है। इससे सिद्ध हुआ कि देव पितरों की, योनि शरीर रहित नहीं किन्तु उन के पांच महाभूतों के शरीर न हो कर दिव्य शरीर होते हैं उन्हीं के लिये गौतम न्याय के वात्स्यायन भाष्य में लिखा है कि—

आप्यतैजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि ।

वे अपञ्चीकृत एक २ तत्त्व से बने शरीर इन मानुषी चक्षुओं से समझ होने पर भी नहीं देखते, किन्तु योगाभ्यासादि द्वारा चक्षुमें दिव्य शक्ति आ जाते पर देख सकते हैं। भूषणादि बहुत से पदार्थ गिना देने से समाजी के मन में ब्राह्मणोंको अदृष्टार्थ दिये जाने वाले दान से ईर्ष्या द्वेष प्रकट होता है। कल्पना करो कि वैसे ही देय पदार्थ कोई श्रद्धालु पुरुष किसी प्रश्नकर्ता जैसे समाजी को बड़ी श्रद्धा भक्ति से समर्पण करे तो हे समाजी ! सत्य कहना कि तुम सन्तुष्ट होगे वा नहीं ? यदि नहीं कहो तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है हम सन्तुष्ट होना प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं और यदि हां कहो तो इसी सन्तोष से तुम्हारे इस १३ वें प्रश्न का खण्डन हो गया। क्योंकि दान और परोपकार एक ही है उस दान से जो अन्य को उपकार द्वारा सुख पहुंचाया जाता है उस का अदृष्ट प्रतिकूल उद्देशानुसार होता है इसी से अन्न जल भूषणादि से किये उपकार का उद्देशानुसार उन २ पितृगणों को उत्तम फल लोकान्तरस्थ वा देशान्तरस्थ उन २ योनियों में प्राप्त होता है। अब इस पर विशेष लिखना व्यर्थ है। वेदादि शास्त्र प्रतिपादित मृत पितरों की सद्गति के उद्देश से होने वाले और्ध्वदेहिक पितृयज्ञ की वास्तिक ब्राह्मणोंदि लोग वेदादि शास्त्र प्रमाण के आधार पर करते हैं उस वेदादि शास्त्र का खण्डन करते हुए ये समाजी मन माने कुतकों से उडाके सबको नास्तिक बनाना चाहते हैं ॥

प्रश्न १४-गया में जाकर एकवार श्राद्ध करने से पितरों की संशय काल तक तृप्ति होती है तथा गया के पण्डों के मुख से यह निकलने पर कि "तेरे पितर सरग भयो,, पितरोंको अगर स्वर्ग के दर-

बाजे सदा के लिये खुल जाते हैं यह मानना पोपों के वचनों पर विश्वास करनेके समान नहीं क्या ? जया वाले पण्डों को अगर इतना सामर्थ्य है तो वे अपने पितरों के हरसाल श्राद्ध क्यों कराते हैं और उन में इतने पाप अत्याचार क्यों हैं ॥

[यह एक प्रश्न तो लाहौर वाले पुस्तक में लिखा है इसी अंश में इटावा वाले पु० में छटा प्रश्न निम्न लिखित है]

प्रश्न ६—जो मनुष्य गयानगर में अपने पुरुषों का श्राद्ध करता है उस के पुरुषों का फिर श्राद्ध नहीं होना चाहिये परन्तु क्यों होता है ? और गया निवासी ही क्यों करते हैं ? ॥

उत्तर १४। ६—अक्षय काल तक तृप्ति होने का अभिप्राय हम लिख चुके हैं कि जिस उपकार का उपकृत न भूले वही अक्षय है किसी का भी भर्मानुकूल उपकार करने का अवधि वा भार नहीं है कि इतना ही पर्याप्त है आगे आवश्यकता नहीं किन्तु उपकार वा धर्म जितना अधिक किया जाय उतना ही अच्छा माना जाता है जैसे श्राद्धादि से अपने पूज्य पितरों का जितना उपकार हो सके करते ही जाना चाहिये । इसी सिद्धान्त को समाजी लोग भी मानते हैं कि डी० ए० वी० कालिज लाहौर आदि अष्टों में लाखों रु० जमा हो जाने पर भी जिस के सूदमात्र से दयानन्दी अध्येत्रध्यापकों को अक्षय काल तक तृप्ति हो सकने पर भी प्रतिवर्ष नया जन्दा करते ही जाते हैं और अवधि नहीं करते कि इतने के बाद कुछ न करेंगे । जैसे ही पितरों का गया श्राद्ध हो जाने से अक्षय तृप्ति हो जाने पर भी श्राद्ध करने की सदा आवश्यकता वनी ही रहती है । गया श्राद्ध कर आने पर पितरों का श्राद्ध फिर क्यों नहीं करना चाहिये ? करने में क्या दोष लगेगा ? यह समाजी को सिद्ध करता चाहिये था वा कोई ऐसा प्रमाण देना था जिस को सब कोई मान लेता क्या बिना युक्ति प्रमाण के समाजी के कहने मात्र से कोई मान सकता है कि गया श्राद्ध के पश्चात् श्राद्ध न करे । यह वैसा ही

कथन है कि किसी बड़े यज्ञादि धर्मोत्सव को करके फिर नित्य २ होने वाला पञ्चमहायज्ञादि होम वा सन्ध्यादि धर्म करना छोड़दे ॥

एक बार समाजी किसी मुकद्दमे को लेकर कचहरी में गया, वहाँका चीफरीडर मांस मद्य खाने पीने वाला वेश्याप्रेमी था परन्तु वह ऐसा होशियार वा चतुर भी था कि हाकिम लोग उस की बात पर विश्वास करते थे इस से वह जैसा चतुराई से समझा देता वैसा ही हाकिम करते थे । जब समाजी को घात हुआ कि इस पेशकार में अनेक पाप दोष अत्याचार हैं इस घात को जानकर समाजी ने जब कुछ कहा तो अर्दली के चपरासी द्वारा समाजी अदालत से निकाल दिया गया । तब एक बुद्धिमान ने समझाया कि पेशकार में पाप दोष अत्याचार हैं उन का फल ईश्वरीय व्यवस्था से वह स्वयं भोगेगा पर तुम अपना काम निकालना चाहते हो तो पेशकार की भेंट पूजा करो । तब समाजी बोला कि देखो हम गयादि के पण्डों में पाप दोष देखते हुए श्राद्ध का भी खण्डन कर डालते हैं तब पेशकार के दोष क्यों नहीं कहेंगे ? तब वह बुद्धिमान बोला कि जैसे गया वालों में दोषदर्शी होकर श्राद्ध का खण्डन करने से तुम्हारे पितर अधोगति में गये जिस का पाप तो तुम को लगाही था वैसे पेशकार वा बकीलादि कचहरी के लोगों के दोष देखने कहनेसे तुम्हारा मुकद्दमा भी विगड़ा । क्या पाप दोष देखने कहने का ही तुम लोगों ने ठेका लिया है ? वा किसी के अच्छे गुण भी कभी कहते मानते हो ॥

शोचने की बात है कि गया वाले श्राद्ध क्यों करते हैं ? भला यह प्रश्न है ? एक छोटा काम करने वाला मल्लाह जिस नौका से अन्योंको पार करता है उसीसे स्वयं भी अगाध जलके पार जाता है जो वैद्य वा डाक्टर सबकी दवा करता है वह अपनी भी दवा करता है वैसे ही गयाके पण्डा अन्यके लिये कराये श्राद्धादि कर्मानुसार स्वर्गमें पहुँचनेके अर्थ स्वयंभी श्राद्ध करते हैं तो दोषही क्या है ?

प्रश्न १५-एक वर्षके ३६५ दिनोंमें से केवल १६ दिन [आश्विन-कृष्णपक्ष] श्राद्धों के लिये रखे हैं उनमें से एक दिन बल्कि एक

चक्र एकके पितरोंके लिये होता है उस दिन के किये भोजनसे साल भर वृत्ति होती है या क्या? और जिस अन्न से ब्राह्मणों को ६ । ७; घंटे के बाद भूख लग धानी है उस अन्न के अक्षर से पितरोंका वर्ष भर वृत्ति कैसे होती है? ॥ (इटावा वाले पुस्तक में सातवां प्रश्न ऐसा ही है)

प्रश्न ७-३६० दिन में से १५ दिन पितरों के श्राद्ध नर्पण करने का क्यों नियम बांधा कि सब हिन्दुओं के एक दम श्राद्ध करने से दुपात्र ब्राह्मण और श्रावण्यक पदार्थों का मिलना कठिन हो जाता है । और एक ही दिन के पिराडों से वर्ष भर की वृत्ति कैसे हो जाती है? क्या ३५६ दिन पितर कहीं विनायत दीड़ा करने चले आते या उपासे रहते हैं? ।

उत्तर १५ । ७-क्या समाजी मन में सभी वैसमक हैं वा कोई कुछ बुद्धि भी रखता है? । अवनक सैकड़ों नहीं किन्तु सहस्रों लाखों समाजियों ने इन प्रश्नों को देखा यांचा होगा पर किसी ने क्या कभी शोचा समझा कि ग्रन्थों के प्रमाण से तथा लोकसिद्ध रीतियों से श्राद्ध काल कौन २ माना जाता है? । यदि कोई भी शोचता तो ये लोग अबतक १५ वा १६ ही दिन क्यों छपाते जाते । अस्तु जो दो श्राद्धों के अनेक काल शास्त्रों में और लोक व्यवहार में भी प्रसिद्ध हैं । जिस को वेदमें पिराडपितृयज्ञ कहा है वही स्मार्त प्रक्रिया में पार्वण श्राद्ध कहाना है यह प्रतिमास की अमावास्या के दिन होता है पितृलोक में निवास करने वाले पितृयोनिष पितरों का दिन हमारे मानुषों १५ दिन का होता है और १५ दिनका रात्रि होती है मनु जी ने भी कहा है कि-ध०

पितृयेराव्यहनीमासः प्रविभागस्तुपक्षयोः ।

कर्मचेष्टास्वहःकृष्णः शुक्लःस्वप्रायश्चररी ॥

अर्थ-पितरों का दिन हमारे एक मास का होता है उस में कर्म चेष्टा के लिये कृष्णपक्ष पितरों का दिन और हमारा शुद्ध पक्ष पितरों का रात्रि शयन करने के लिये इसी कारण शुद्धपक्ष में प्रायः

श्राद्ध का विधान नहीं किया। प्रत्येक अमावास्या को किया पिरह पितृयज्ञ वा पार्वणश्राद्ध पितरों को प्रतिदिन भोजन देने वाला सिद्ध होजाता है महीने भर का पितरोंका दिन रात समाजियों ने भी मान लिया है मनु० अ० ३। २७६ में १०। ११। १२। १३। ३०। दशमी से अमावास्या तक ये कृष्णपक्ष की पांच तिथि श्राद्ध के लिये उत्तम काल बताया है इससे प्रतिमास पांच दिन श्राद्ध करने का विधान सिद्ध है। अष्टका और अन्वष्टका चार दिन के श्राद्ध प्रति वर्ष भिन्न हैं। ये सब थोड़े नहीं हैं किन्तु एक दिन में एकवार से भी अधिक श्राद्ध पितरों का होजाता है ॥

नित्य श्राद्ध इससे भिन्न है जिसके लिये मनु आदि स्मृतियों में अनेक प्रमाण हैं—मनु० अ० ३। श्लो० ८२। ८३।

कुर्यादहरहःश्राद्ध—सन्नाद्येनोदकेन वा ।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यःप्रीतिमावहन् ॥

एकमप्याशयेद्विभ्रं पित्र्येषाम्नायज्ञिके ॥

अर्थ—अपने भोज्य अन्न से वा फल, मूल, दूध आदि से मृत पितरों को सन्तुष्ट प्रसन्न करने के लिये नित्यश्राद्ध करना चाहिये। श्रुति में लिखा है कि—

अहरहःस्वधा कुर्यात्, आउदकान्तथैतं पितृयज्ञं समाप्नोति ॥

अर्थ—प्रतिदिन “पितृभ्यःस्वधानमः” ऐसा कहकर भोज्याश्राद्ध समर्पण करे। यदि कुछ भी पदार्थ प्राप्त न हो तो केवल जल हाथ में लेकर अपसव्य होके दक्षिणाभिमुख हो उक्त मन्त्र से जल छोड़ देवे तब इतने से भी नित्य के पञ्चमहायज्ञों में कहा पितृयज्ञ समाप्त हो जाता है।

स्वा० दयानन्द जी ने भी पञ्चमहायज्ञविधि और संस्कारविधि के गृहाश्रम प्रकरण में पांच महायज्ञों का विचार लिखते हुए और खी पुत्र भृत्यादि सहित इन्द्रादि देवों को भोजनांश एक २ प्रास दिलाते हुए लिखा है कि “पितृभ्यः स्वधा नमः” इस से दक्षिण में

(एक ग्राम घर) अब माना है कि पाठक लोग समझ गये होंगे कि जो शतपथ ध्रुति में नित्यश्राद्ध कहा वही मनुजी ने बनाया उसी के अनुसार स्वा० दयानन्द जी ने नित्य श्राद्ध बताया वैसे ही सब सनातनधर्मी भी मानने हैं । अब ध्यान दीजिये कि एक वर्ष में प्रति दिनके ३६० नित्यश्राद्ध, ४ अष्टका अन्वष्टका दशमीने अमावास्या तक, एक चतुर्दशी को छोड़ के प्रतिमास पांच दिन के हिसाब से ११ महीने के ५२ दिन और आश्विन मास के १६ दिन, ये सब एक वर्ष नाम पितरों के १२ दिन रातों में ३५ बार श्राद्ध का विधान कम से कम है । वैमिक्तिक श्राद्धों के काल इन से अधिक भी हैं इस प्रकार ४३५ में १२ का भाग देने से पितरों के प्रत्येक दिन में ३६ से कुछ अधिक श्राद्धों का धोसन पड़ता है और मानुषी ३० दिन में ३६ से अधिक श्राद्ध हुए तो प्रतिदिन एक से अधिक पड़ा ऐसी दशा में समाजियोंसे पूछना चाहिये कि आश्विन मास के १५ वा १६ दिन श्राद्ध के कौन मानता वा कृत्ता है ? यदि कोई नहीं मानता तो तुम्हारा आश्लेष आकाश को धूँनों से पीटने के तुल्य मिथ्या वा निष्फल क्यों नहीं है ? ॥

लाहौर वाले समाजी ने यह भी लिखा है कि “ उनमें से एक दिन बल्कि एक वक्त एक के पितरों के लिये होता है ” इस लिखने से समाजी का अभिप्राय यह है कि जिन तिथि को जिन पितादि के नाम से कनागतों के श्राद्ध होते हैं उस तिथि को केवल एक बार वर्ष भर में उस पितादि को भोजन मिलता है पर यह समाजी का बड़ा अज्ञान इस लिये है कि श्राद्धों की व्यवस्था को यह लोग कुछ भी नहीं जानते । यह ध्यान एकोद्दिष्ट श्राद्धों में तो घट सकती है कि जहाँ उसी एक मृतक के उद्देश से एक ही पिरण दिया जाता है परन्तु कनागतों के श्राद्ध एकोद्दिष्ट नहीं किन्तु पार्षण विधि से होते हैं उनमें जिन२ का सपिण्डीकरण हो चुकता है वे सभी प्रत्येक श्राद्ध में लिये जाते हैं । पिता, पितामह, प्रपितामह ये तीन कोटि हैं तीन व्यक्ति नहीं हैं तीनों ही कोटि के सामान्यतया पितर कहाते हैं इससे प्रत्येक तिथि के श्राद्ध में सभी का पूजन वा स्तकोर किया जाता है ॥

द्वितीय यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जब पितृयोनि वासनामात्र के ग्रहण से वृत्त होती है और कोई भी नहीं मानता कि ब्राह्मणोंको कराया भोजन वा भूमि पर किया स्थूल पिण्डदान साक्षात् पितर का जाते हैं तब पितरों की स्थूल शरीरवत् वृत्ति का प्रश्न करना समाजी की यही वे समझी क्यों नहीं है ? इससे वासनारूप सूक्ष्म वृत्ति बहुत काल के लिये भी हो सकती है । इटावा वाले समाजी का प्रश्न है कि "सब हिन्दुओं के एक दम श्राद्ध करने से सुपात्र ब्राह्मण और आवश्यक पदार्थों का मिलना कठिन हो जाता है इससे एक ही समय नियत करना ठीक नहीं है" सक्षेप से इसका समाधान यह है कि-दर्शपौर्णमासादि वंशकन यशों को किसी न किसी प्रकार गिरी एही दशम समाजी भी मानते हैं तब समाजियों से पूछना चाहिये कि यदि भारतवर्षके सब द्विजोंके घर २ में प्रत्येक भ्रमावस्था वा पौर्णमासी को दशपौर्णमास याग जब होता था वा आगे हों तो उसको कराने वाले योग्य ब्राह्मण मिलने आदि का कष्ट वैसा ही क्यों नहीं होगा । और क्या तब बड़ी तुम्हारा प्रश्न वेद पर नहीं होगा कि वेदमें एकही दिन सबको यह करना क्यों बताया और यदि भिन्न २ त्रिधियों में दश पौर्णमासादि बनाये जाते तो भ्रमावस्था पौर्णमासी से अन्य तिथियों में हो सकने पर उन यशोंका नाम दर्शपौर्णमास नहीं हो सकता । जैसे अंग्रेजों का बड़ा-दिन एक ही दिन में सब का मानने पड़ता है क्योंकि बड़े दिन कई हो नहीं सकते इसके अनुसार समाजियोंका भी कोई सार्वजनिक उत्सव एक दिन हो सकता है । कल्पना करो कि भारतवर्ष में कभी सब का एक ही मत हो जाय और सब देशहितैषियों की एकानुमति से वर्ष भर में किसी एकही समय कोई सर्व हिन साधक उत्सव मना जाय तो क्या यही प्रश्न वहाँ न होगा ? । द्वितीय यह भी ध्यान देने की बात है कि-

ततःशेषाधिकन्याया यान्यहान्निवृत्तौ ॥

ऋतुभिस्तानितुल्यानि पितृभ्योदत्तमश्वयम् ॥

अर्थ—सिद्धान्तशिरोमणि नामक ज्योतिष के ऋषि प्रणीत समाजियों के भी मान्य ग्रन्थ में लिखा है कि कन्या राशि के शेष सोलह दिन (भाद्रपद की पूर्णमासी से आश्विन कृष्ण अमावास्या तक) यज्ञों के तुल्य पुण्य करने के सोलह दिन हैं उन सोलह दिनों में विशेष कर पितरोंके लिये दिया पिण्डदान रूप श्राद्ध अक्षय फल वाला होता है। यहां सिद्धान्त शिरोमणि के निर्माता महर्षियों से समाजियों को कहना था कि कन्यागत सूर्यमें ही १६ दिन के श्राद्ध का विशेष पुण्य तुम क्यों धरते हो ? तथा (श्राद्ध शरदः) शरद ऋतु के कन्यागत श्राद्धों की विशेषता दिखाने वाले अष्टाध्यायी व्याकरण के निर्माता पाणिनि जीसे कहना था, तब ये समाजी क्या विनायत का बारिस्टरी पास करने चले गये थे ? “एक दिन के पिण्डों से वर्ष भर की वृत्ति कैसे हो जाती है,, इस का जवाब पहिले दिया जा चुका है कि भारतवर्षमें जब सन् १८५७ ई० में गदर हो गया था तब जिस २ मनुष्य ने एक दिन एक समय भी किसी अंग्रेज की रक्षा की थी उस पर सदा के लिये अंग्रेज सन्तुष्ट वा तृप्त हो गये उन लोगों को दो रियासतें पीढ़ी दर पीढ़ी उन २ के सन्तान भोग रहे हैं कि जिन सन्तानों ने अंग्रेजों का कुछ भी उपकार नहीं किया था। वृत्ति सन्तोष प्रसन्नता ये सब एकार्थ शब्द हैं। संसार में ऐसे अनेक काम हैं जिन से सिद्ध है कि एक दिन के थोड़े से काम से सदा के लिये प्रसन्नता हो जाती है। वैसे ही किसी २ खास २ समय वा स्थानके श्राद्ध भी ऐसे हैं जिन से पितरों की अक्षय वृत्ति वा प्रसन्नता हांती है। जैसे प्रसन्न तृप्त हो जाने वाले राजादि का अधिक २ प्रसन्न करनेकी आवश्यकता बनी रहती है क्योंकि वृत्ति वा प्रसन्नता की मोक्ष प्राप्ति से पहिले कोई सीमा नहीं है वैसे ही पितरोंकी अक्षय वृत्ति हो जाने पर भी आगे २ श्राद्ध द्वारा पितरों को और भी तृप्त करने की आवश्यकता मोक्ष पर्यन्त बनी रहती है ॥

प्रश्न १६—देहधारी जीवों की वृत्ति तो पिण्डों से हो सकती है पर देह हीन आत्माकी स्थूल पिण्डों से वृत्ति कैसे हांती है ? (६-

टावा वाले पु० में ८ वां प्रश्न) पितर लोग कौन से शरीरसे पिण्ड ग्रहण करते हैं ? । यदि स्थूल शरीरसे तो देखने क्यों नहीं ? और सूक्ष्म शरीर से तो स्थूल भोजन को वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं ? ।

उ०-१६ । ८ यहाँ यद्यपि दोनों के प्रश्नों में भेद दीखता है तो भी दोनों का अभिप्राय एक है । इस में लाहौर वाले समाजी का प्रश्न अधिक बेसमझी का है तदपेक्षा इटावा वाले समाजीका कुछ समझ पूर्वक है । देहधारी जीवों की तृप्ति पिण्डों से हो सकने का नियम नहीं है । क्योंकि यदि किसी समाजी को अत्यन्त प्यास लगी हो और उस समय उस को पिण्डमात्र खिलाये जावे और जल न दिया जाय तो क्या समाजी तृप्त हो जायगा ? अर्थात् कदापि नहीं । जिस रोगी को अन्न से अरुचि हो गयी हो उस को भी पिण्ड [पेड़ा] से तृप्ति नहीं होती, जिस का हृदय धनादि प्राप्ति की तृष्णागि से दग्ध हो रहा है उस की पिण्डादि के खानेसे तृप्ति नहीं होती । इसी प्रकार अनेक अवसरों में देहधारी जीवों की भी पिण्डादि से तृप्ति नहीं होती और अनेक अवसरों में स्थूल देहधारियों की सूक्ष्मांशों से वा कल्पना मात्र से भी तृप्ति होती दीखती है । जैसे जाग्रत का तृष्णा की स्वप्न में कल्पना मात्र प्राप्ति से भी शान्ति हो जाती है वा जैसे दुर्गन्धादि से घबराया सुगन्धादि प्राप्ति से तृप्त हो जाता है, गर्मी से घबराया शीतल वायु से तृप्त होता इत्यादि । समाजी को बुद्धि वा होश नहीं है, स्थूल शरीर से निकलने पर भी शरीर से रहित आत्मा नहीं होना क्योंकि शरीर त्रिविध है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, स्थूल से निकलने पर सूक्ष्म कारण दो प्रकारका शरीर बना रहता है । सूक्ष्म शरीरका लक्षण यह है कि

**वागादिपञ्च अवणादिपञ्च, प्राणादिपञ्चाभ्रमुखा-
निपञ्च । बुद्ध्यद्याद्विद्यापिचकासकर्मणी, पुर्यष्टकं
सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥ १ ॥**

विवेकचूडामणौ ।

अर्थ-त्राणादि पांच कर्मेन्द्रिय, श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण, शब्दादि पांच तन्मात्र सूक्ष्मभूत बुद्धि आदि अन्तःकरण

चतुष्टय, भविष्या, कामना, कर्म, ये आठों पुर्यष्टक सूक्ष्म शरीर कहाते हैं इसी सूक्ष्म शरीर का (कि जो इन चक्षुषों से नहीं दीखता) इस शरीर से मरण समय निकलना होता है यही स्वर्ग नरकादि में जाया आया करता है वाणी आदि शक्ति स्वरूप से सूक्ष्म शरीर में सब रहते हैं ।

स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था-विवेकबूडामयी ।

सोते समय स्थूल शरीर की अपेक्षा को छोड़के सूक्ष्म शरीर से ही सर्वविध स्वप्न दीखते हैं । देव पितृ योनियों के शरीर भी ऐसे ही सूक्ष्म होते हैं जो दीखते नहीं हैं इसी लिये शतपथ श्रुति में लिखा है कि-

तिरिह्व वै पितरो मनुष्येभ्यस्तिरिह्वैतद्भवति ॥

अर्थ-आद्ध में आने वाले पितर मनुष्यों से छिपे से होते हैं इसीलिये पितरों का भोजन भी उन का अदृष्ट सूक्ष्म ही होता है । वैदमन्त्र में भी लिखा है कि-

असुं य ईयुरवृका चतञ्जाः । अथर्व० सं० ॥

असु नाम सूक्ष्म प्राणमात्र स्वरूप को प्राप्त हुए पितर आद्धादि में हमारी रक्षा करें, इसी अभिप्राय को मनुजों ने भी म० ३ में (चायुवचानुगच्छन्ति) से कहा है । जैसे भ्रमर वा मधु-मक्षिका पुष्प का सूक्ष्मांश लेलेती है वैसे ही पितर लोग भी सूक्ष्म शरीर से पितरणादि का सार मात्र ग्रहण करके तृप्त होते हैं । लाहौर वाले समाजी से पूछना चाहिये कि भांजनादि से आत्मा तृप्त होता है वा शरीर ? अर्थात् तृप्त वा प्रसन्न संतुष्ट होना धर्म किमका है ? स्थूल शरीर वास्तव में जड़ है । अधिक शीघ्र विचार करने पर समाजी को भी अवश्य मानना पड़ेगा कि इस स्थूल शरीर की अधि-ष्टात्री चेतन शक्ति ही प्रसन्न संतुष्ट वा तृप्त हुआ करता है । तब रहा यह कि इन्द्रियों द्वारा ज्ञान कर आत्मा तृप्त होता है और स्थूल शरीर से भिन्न इन्द्रियों में दर्शनादि शक्ति होती ही नहीं तो इसका संश्लेष से समाधान यह है कि इसी लिये प्राण और इन्द्रिय शक्तियों

का संप्रदाय सूक्ष्म शरीरों में मागा गया है वही सूक्ष्म शरीर जय दिव्य योनियों में प्रकट होता है तब वरां दिव्य तत्त्वों का प्रकट मत्सरगुणो सूक्ष्म दिव्य शरीर बन जाता है, जिन में दिव्य दृशनादि इन्द्रिय शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती हैं वे ही देवों में वा पितरों में जन्म सिद्धियां कदाती हैं । उससे पितर लोग दिव्य इन्द्रिय शक्तियों के द्वारा पिण्डादि का सूक्ष्म सारांश भोगकर तृप्त वा प्रसन्न होते हैं यह सिद्ध होगया ॥

अब इन दोनों प्रश्नों का स्पष्ट समाधान होगया कि शरीर रहित केवल आत्मा मोक्षावस्था से पहिले कभी होना नहीं, मोक्षावस्था में श्राद्ध की आवश्यकता रहती नहीं, स्थूल शरीरसे पृथक् होने पर तथा दिव्य योनि प्राप्त होने पर सूक्ष्म कारण दोनों प्रकार का शरीर साथ रहता है । (सूक्ष्माङ्ग भोगसाधनम्) कथन से यह भी सिद्ध होजुका है कि स्थूल शरीर के विद्यमान होते भी सूक्ष्म शरीर भोग का साधकतम कारक है और सूक्ष्म शरीर भोगाधिष्ठान है अर्थात् सूक्ष्म शरीर ही भोग कराता है वह सूक्ष्म शरीर दिव्य पितृयोनित्य पितरों को भोग कराता है उसी दिव्य सूक्ष्म शरीर से पितर लोग पिण्डादि के सूक्ष्म सारांश का भोग कर तृप्त वा प्रसन्न हो जाते हैं स्थूल भोजन का ग्रहण कोई मानता ही नहीं तब उस अंश में शंका करना समाजी की वे समझी है ॥

प्रश्न १८—एक मनुष्यके दश पुत्र हैं और वे दश नगरोंमें रहते हैं इन्होंने दश ग्रामों में एक ही समय श्राद्ध किया तो एक पितर दश जगह पर एक ही समय किस तरह अन्न खाने जायगा ? तथा दश गुणा अन्न खाने से उसे कष्ट और अजीर्ण न हो जायगा ? और भूख न होने पर वा कम होने पर दश गुणा अन्न खानेसे जो अजीर्ण हो सकता है उसका इलाज ब्राह्मणोंको दवाई देकर क्या नहीं करना चाहिये ? [इटावा के प्रश्नों में नवम प्रश्न] (६) यदि एकही मनुष्य के चार पुत्र ४ नगरोंमें एक ही दिन एक ही समय में एक संग श्राद्ध करें तो क्या वह चारों पुत्रों का भोजन कर सकता है ? वा नहीं ? किन्तु शास्त्रोंके मत से जीव अल्पशक्तिवाला और एकदेशी है ॥

उत्तर १८। २ दोनों समाजियों ने दश और चार पुत्रों को लेकर एक ही प्रश्न किया है परन्तु सनातनधर्मियोंमें तो एक मनुष्यके पुत्रों का हद्द करना भी कठिन है। वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है कि सूर्यवंशी राजा सगर के ६०००० साठ हजार पुत्र थे जिनके कारण समुद्र का नाम सागर हुआ है। सो २ पुत्र तो अनेकोंके लिये हैं। इस दशा में वेही दोनों प्रश्न हजारों पुत्रों पर ऐसे ही हो सकते हैं। अब समाधान देखिये हम पहिले भी लिख चुके हैं कि देवयोनियों के अन्तर्गत पितृयोनि एक प्रकार को देवयोनि है। मनु० भा० ३।१६ में लिखा है कि—

न्यस्तशस्त्रामहाभागाः पितरःपूर्वदेवताः ।

दयाद्वष्टगुणयोगो महाभागता तद्भ्रन्तऽभ्रनादि-
देवतारूपाः पितरइति तद्भाष्यम् ।

भाषार्थ—दयादि आठ गुणों से युक्त पितर देवोंसे भी पहिले देव हैं। इससे पितरों का देव योनि में उत्तम होना सिद्ध है।

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥

योगदर्शन पा० १।१६।

भा०—विदेह नाम पाँच महाभूतोंके स्थूल शरीरोंसे रहित देवोंमें जन्म सिद्धिके द्वारा सब योगसिद्धियां स्वाभाविक हुआ करती हैं जैसे पक्षियों में उड़ने की स्वाभाविक सिद्धि जन्मसे होती है वैसे ही देव योनिमें अणिमादि योगसिद्धियां भी स्वभाव सिद्ध होती हैं। उन्हीं योगसिद्धियों में एक सिद्धि एक रूप के अनेक रूप कर लेना भी है जिसके लिये सा० दयानन्दके माने हुए और समाजियोंके भी विशेष कर मान्य न्यायदर्शन चात्स्यायन भाष्य अ० ३।२।१६में लिखा है कि

योगी खलु ऋद्धौ प्रादुर्भूतायां विकरणधर्मा निर्माय
सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु तेषु युगपज्ज्ञेयानु-
पलभते तच्चैतद्विभौ ज्ञातर्युपपद्यते नाणौ मनसीति ।

भा०—सिद्धियों के प्रगट होने पर योगी मनुष्य भी अपने एक शरीर के इन्द्रियों सहित अनेक शरीर बनाकर उन २ अनेक शरीरों में एक ही समय अनेक विषयों को प्राप्त होता है सो यह बात

जीवात्माके व्यापक अपरिच्छिन्न मानने पर घट सकती है। पाठक गण ! आप लोग ध्यान दें कि ऊपर इटावा वाले प्रश्न में लिखा है कि "शास्त्रों के मत से जीव अल्पशक्ति वाला और एकदेशी है" तथा ऊपर वात्स्यायन भाष्य में चेतन्य शक्ति जीव का स्वरूप ही विभु व्यापक सर्वदेशी लिखा है ऐसी दशामें पाठकोंको हम सम्झानि देते हैं कि वे लोग मिलकर या पत्र द्वारा प्रश्नकर्त्ता से वा समाजी उपदेशकों से पूछें कि जीव को एकदेशी किन्तु शास्त्र में लिखा है ? उसका प्रमाण बताइये। और न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य में चेतन्य शक्ति जीवको सर्वदेशी व्यापक लिखा है सो क्यों ? इसका भा उत्तर दीजिये। योगसिद्धियोंके लिये महाभारत में भी यही लिखा है कि—

आत्मनोवैशरीराणि यद्गुणभरतर्षभ ! ।

कुर्याद् योगीबलं प्राप्य तैश्चर्यैर्भहीचरेत् ॥

भा०—शान्तिपर्व मोक्ष धर्म में लिखा है कि योगी मनुष्य योगबल को प्राप्त होकर अपने एक शरीरके अनेक शरीर बनाकर पृथिवी पर स्वतन्त्र विचरता है। हे समाजी महाशय ! अब तुम शोचो कि जब योगबल से मनुष्य में भी यह शक्ति होसकती है कि अपने अनेक रूप धारण करले तब स्वाभाविक योगसिद्धियों वाले देवयोनिस्य-पितरोंको क्या अपने अनेक पुत्रों के किये भिन्न २ देशों के श्राद्धों में एक ही दिन एक ही समय अनेक रूपों से श्राद्धांश के स्वीकारार्थ प्राप्त हो जाना कोई कठिन काम वा असम्भव कभी हो सकता है ? अर्थात् कदापि नहीं। चार और दश पुत्रों की दाह ही क्या है किन्तु सहस्रों लाखों पुत्रों के भिन्न २ देशों में किये सभी श्राद्धों में पितर लोग एक ही समय अनेक रूप धारण करके अवश्य प्राप्त हो सकते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। वास्तव में यह प्रश्न तो जीवितों का श्राद्ध मानने वाले समाजी मत में हो सकता है कि एक समाजी मनुष्य के दशपुत्र हैं उनमें से एक इङ्ग्लैण्डमें एक जर्मनीमें एक फ्रांस में एक जापान में अन्य २ भाषा पढ़ने को गया, एक सुम्बई में दलाल एक कलकत्ता में दारोगा, एक लखनऊ में कोतवाल एक लाहौर में मांसपाटी का प्रचारक, एक हरिद्वार में घासपाटी प्रचारक और

एक दिवसों में बिल्की पालता है और उन सबके माता पिता आगरे में अगर मगर से निर्वाह करते हैं अब ऐसी दशा में समाजियों से पूछना चाहिये कि जीवन श्राद्ध के समय आगरे वाले माता पिता का श्राद्ध वे दशों पुत्र प्रतिदिन कैसे करेंगे ? । अर्थात् उस जीवित पिताको वा माता को वे लोग भिन्न २ देशस्थ होकर भोजन कैसे करा सकते हैं ? । यदि नहीं करा सकते तो जीवित श्राद्ध को तिलाकृति हो गयी वा नहीं ? । अभिप्राय यह है कि सनातनधर्मो मृतक श्राद्ध में तो समाधान ऊपर लिखे अनुसार ठीक शास्त्रानुकूल होगया परन्तु समाजी मत में उक्त प्रश्न का समाधान कोई समाजी नहीं कर सकता ॥

और यदि समाजियों के पिता मरकर किसी पशु पक्ष्यादि की योनि में गये हों क्योंकि मरने पर ठीक ठीक दशगात्रादि वा षोडश श्राद्धादि कर्म न होने पर पितृयोनि तो उनको प्राप्त हो नहीं सकती तथा पशु पक्ष्यादि में एक के अनेक शरीर कर लेने की शक्ति भी हो नहीं सकती । ऐसी दशामें किसी कारण पीछे कभी उस समाजीके कई पुत्र कई नगरों में एक ही दिन श्राद्ध करें भी तो उनके पिता सब पुत्रों का श्राद्ध ग्रहण नहीं कर सकते । अब रही यह बात कि कई नगरों में एक ही दिन एक ही समय दशपुत्रों के श्राद्ध में दश गुणा भोजन करने से अजीर्ण होजायगा तब औपध किसको दिया जाय ? इस का समाधान सनातन धर्म के सिद्धान्त में तो ऊपर के लेख से होगया कि जब पिताको दश पुत्रों के श्राद्ध में दशरूप धारण करने की शक्ति है तब वह दश शरीरों में एक २ गुणा ही भोजन करेगा तब भी अजीर्ण कदापि हो नहीं सकता परन्तु किसी आर्य-समाजी के चार पुत्र एक ही ग्राम वा नगर में अलग २ घरों में न्याये होकर रहते हैं सबका अलग २ भोजन बनता है और भोजन के समय जीवित श्राद्ध करने के लिये चारों ने पिता माता को बुला २ कर एक ही दिन जबरदस्ती भोजन कराया क्योंकि जो न करावे उसीका श्राद्ध नष्ट हुआ जाता है तब विचारना चाहिये कि समाजी के पिता को विशूचिका रोग न हो जायगा ? ॥

प्रश्न १६-“यमेन वायुना” इस यजुर्वेद के मन्त्र अनुसार यम-संज्ञा वायु की वहाँ लिखी है, अगर यह ठोक मानते हो तो जो तुम यमलोक कहते हो वह यह लोक ही हुआ, और पितर इस हवा में रहते होंगे ऐसा ऊपर के मन्त्र से प्रतीत होता है इस लिये इस वायु मण्डल में घूमने वाले अशरीरी पितरों को अन्न वस्त्र वा छाते जूतोंकी क्या जरूरत है ? । और इस वायुमण्डल में गरुड़ पुराण में लिखे अनुसार तेल भरे-गर्म कड़ाहके भाग से लाल किये लम्बे और अस्तिपत्रादि भयानक नव वा रक्त पूषकी भरी चैतरणी नदी कहाँ है ? और अगर वायुमण्डलमें पिता रहते हैं तो हमारे पास था जा सकते हैं या इस वक्त विमानों का प्रचार होनेके कारण हमको हाँ वहाँ जाना चाहिये ? इस लिये इस बात का जरूर निर्णय होना चाहिये कि क्या यमलोक यही वायुमण्डल है वा कोई और है ? ॥

उत्तर १६-लार्हार् वाले समाजी ने अपना पुस्तक पूरा करने के लिये दो पङ्क्तियोंमें लिखने योग्य प्रश्नको व्यर्थ बढ़ाकर १५ पङ्क्तियों में लिखा है। तथापि हम संक्षेप से उत्तर लिख देने हैं—यम नाम वायुका नहीं है स्वा० दयानन्द की चालाकी है। परन्तु वायु को अन्तरिक्ष स्थान देवताओं में मुख्य माना है यम नाम भी अन्तरिक्ष स्थान एक देवका है एक स्थानी होने से पवन देवता के साथ यम का अधिक सम्बन्ध है। और यदि कहीं वेदादि में यम शब्द वायु का भी वाचक आजावे तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि यम देवता स्वतन्त्र कोई नहीं रहा। जैसे कि विस्तृत होने से अन्तरिक्ष का पृथिवी भी एक नाम है तब क्या इतने से अन्तरिक्ष से पृथक् प्रत्यक्ष पृथिवीको समाजी नहीं मानेंगे ? । अर्थात् जिस अन्तरिक्षका पृथिवी नाम कहीं होने पर भी अन्तरिक्ष से पृथक् समाजी को पृथिवी मानने पड़नी है वैसे वायु का कहीं यम नाम आजाने पर भी वेदादि के सहस्रों प्रमाणों से सिद्ध यमराज देवता को भी अवश्य मानना पड़ेगा अथर्ववेद काण्ड १८ अनु० २ मं० १३ में लिखा है कि—

उरूयासाणसुतृपाहुदुःखली यमस्यदूतौ चरतो जनां भ्रतुः॥

अर्थ-मनुष्यों के प्राण लेकर तृप्त होने वाले और बड़ी २ नाक वाले यमराज के दो दूत मनुष्यों के साथ २ धा पीछे २ विचरते हैं यहाँ समाजी से पूछना चाहिये कि जिन यम के बड़ी बड़ी नाक वाले दो दूत मनुष्यों के पीछे २ चलते हैं वह यम क्या वायु है ॥

बड़ी २ नासिका वाले वायु के दो दूत कौन और कहाँ हैं ? यदि नहीं लिख होते तो क्या वेद का लेख व्यर्थ है ? । अथवा निराकार के दो दूत हैं तो कैसे हैं और भी देखा अथर्व० का० १८ अनु० ३ म० १३ यह है कि-

योसमारप्रथसोऽर्त्विनां यः प्रेयायप्रथसोऽलोकजेतम् ।

वैवस्वतंसंनखनंजमानां यमराजानंहविषा सपर्यत ॥

अर्थ-सर्गाग्म में उदपन्न होने वाली सृष्टि के मनुष्यों में जो सब से पहिले मरना है और मरणानन्तर जो पहिले यमलोक में जाता है वही उस कल्पमें यमराज देवताके अधिकार को प्राप्त होता है ? उन्ही यमराज देव की ह्यम के द्वारा पूजा करो । यहाँ भी समाजी को बताना चाहिये कि यह अर्थ यमरू रा वायु में कैसे घटेगा ? वा निराकार ईश्वर में कैसे घटेगा ? अर्थान् कदापि घट नहीं सकता । और देखो अथर्वका० १८ । अनु० १ मन्त्र ६६ में कहा है कि-
 यास्ते धानाऽनुकिराभि तिलाग्निः स्वधावतीः ।

तास्तेऽनुविभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तेयसोराजानुसन्व्यताम् ॥

हे मृत मनुष्य ! तिल मिश्रित जिन धानार्थोंको त्वया याल कर मैं तुम को समर्पित करता हूँ उन का यमराज धनुमोदन करें अर्थात् स्वीकार की आज्ञा तुमको देवे यों भी समाजीको बताना चाहिये कि यह यम कौन है ? ऐसे सैकड़ों मन्त्र वेद में विद्यमान हैं जिन का अर्थ खतन्त्र यमराज देवता में घट सकता है । जैसे वायु तो त्रिलोकी में व्यापक है वायु पितृलोक में भी विद्यमान रहना है हम कारणसे पितृलोक पृथक् न माना जाय तब वायुमें तो हम सब रहते हैं वायु के बिना एक क्षण भी हम मनुष्यादि प्राणी जीवित नहीं रह सकते तब क्या वायु से भिन्न भूमिलोक और व्यवस्थापक साक्ष्य राजादि को नहीं मानना चाहिये ? ॥

और हम पहिले प्रश्नों के उत्तर में वेदके प्रमाण से स्पाफ साफ पितृलोकका पता बना चुके हैं उनसे ठीक २ समाधान हो जाता है ।

उदन्वतीद्यौरवसा पीलुमतीतिमध्यशा ।

तृतीयाहप्रद्यौरिति यस्यांपितरभ्रासते ॥

अर्थ—अथर्व कां० १८॥ अट्ट० २ म० ४८ में कहा है कि पृथ्वी की ओरका आकाश मण्डल उदन्वती नाम जल वाला भाग कहाना है जिस में नोल रूप से सूक्ष्म जल भरा हुआ है । उस से ऊपरका अन्तरिक्ष भाग पीलुमती नाम वाला है उससे भी ऊपर तीसरा आकाश मण्डल प्रद्यौ नाम उत्तम सात्त्विक भाग है उसी प्रद्यौ नामक भाग में पितृलोक है वहीं पितर लोग रहते हैं । दक्षिणा प्रवणो वै पितृ लोक इति श्रुतिः । पृथ्वीसे दक्षिणकी ओर झुका हुआ पितृलोक है यदि वायु में पितरों का निवास मानें तो वायु क्या उत्तर में नहीं है ? तब दक्षिण में कहना नहीं बनता । पितृलोक दक्षिणमें होने से ही दक्षिण दिशा पितरों की मानी गयी है और इसी कारण ग्राम से दक्षिण दिशा में श्मशान भूमि वेदके सिद्धान्तानुसार नियत की गई है इसी से मृतक शरीर का दक्षिणकी ओर ले चलते हैं और दक्षिण को ही मुख करके श्राद्ध पिण्डदान करने की चाल भी इसी लिये है ।

सिद्धान्त शिरोमणि में लिखा है कि (विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्ति) चन्द्रमाके ऊपरी भाग में पितर वसते हैं इसी कारण हमारा कृष्णपक्ष पितरोंका दिन और शुक्लपक्ष उनकी रात्रि होती है । अमावास्या को पितरों का सायं सन्ध्याकाल और पौर्णमासी पर पितरों का प्रातःकाल होता है । इत्यादि व्यवस्था से पितरों के लोक का ठीक २ निर्णय वेदप्रमाणानुसूल हमने दिखा दिया, यदि समाजी कुछ भी निष्पक्ष सत्यप्रेमी होगा तो अवश्य हठ छोड़के इस निर्णय को मान लेगा । हठ दुराग्रह का औषध हमारे पास कुछ भी नहीं है पितृलोक के तुल्य नरकादि भिन्न २ लोक भी वेदादि के प्रमाणों से सिद्ध हैं ॥

प्रश्न २०—वेदान्त शास्त्रमें लिखा है कि, जीव न किन्नी का पिता है न माता है पिता मातापन केवल देहके साथ है जो शरीरके व्या-
गने पर माता पितापन काहेका ? और मरने के पीछे माता पिता
आदिका श्राद्ध करना वेदान्त गृह सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है क्या ?
[इत्यादि वाले का प्रश्न १२—] माता पिता इत्यादि सम्बन्धसे शरीर
जीव से है ? वा निःशरीर जीव से । यदि सशरीर से है तो शरीर
वियुक्त जीव किसका माता पिता है ? और उस के लिये श्राद्ध करने
का कौन अधिकारी है (नैचखीनपुमानेप० । श्रुता०) ॥

उत्तर २० । १२—भिन्न २ रीतिसे लिखे होने पर भी दोनों प्रश्नों
का अभिप्राय एक ही है इस से दोनों का एक ही उत्तर होगा ।
ध्यान देने से प्रतीत होता है कि समाजियों में कदाचित् ही कोई
किसी अंश में वेदादि शास्त्रों का कुछ मर्म वा सिद्धान्त समझा हो
नहीं तो सब के सभी प्रबल अज्ञानसागर में गोता खा रहे हैं । सो
यदि समझे होते तो समाजी मतरूप गर्त्त में क्यों गिरते ? अब हम
संक्षेप से उत्तर लिखते हैं । जीव क्या है यह समझ लेने से उत्तर
समझ में आ जायगा । द्वैतवादी न्याय वैशेषिक शास्त्रों में भी
जीवात्मा को विभु—व्यापक माना है उस का भी एक शरीरसे श-
रीरान्तरमें वा स्वर्ग नरकादिमें जाना आना नहीं बनता केवल परि-
च्छिन्न वस्तुका ही जन्म मरणादि में आना जाना हो सकता है ।
वेदान्त के अद्वैतसिद्धान्त में सोपाधिक ब्रह्म ही जीव है । यद्यपि
उपाधि के अन्तर्गत उपधिमान्, निष्क्रिय ही रहता है तथापि व्यव-
हार में उस के साथ गमनागमनादि कहा जाता है इसका दृष्टान्त
यह है कि—

घटसंवृतभाकाशं नीयमानेघटेयथा ।

घटोनीयेतनाकाशं तद्दृज्जीवोनभोपरः ॥

जैसे घट के भीतर जितना आकाश का अंश घिरा हुआ है वह
घटके इधर उधर लेजाने पर वास्तवमें चलता नहीं, आकाशमें घटा
चलता है वड़ेमें आकाश नहीं चलता । यह तो वास्तविक बात है

परन्तु घटके जाने पर अविद्यावश घटाकाश भी चलना माना जाता है वैसे घटस्थायी अन्तःकरण के चलने पर तद्वच्छिन्न चेतन जीव भी स्वर्ग नरकादि में चलना जाना जाता माना जाता है वास्तव में तो चेतन सब में आकाशवत् व्याप्त अचल है उन्नी व्यापक ईश्वर में अन्तःकरण रूप सूक्ष्म शरीर चलता है। मनुस्मृति अ० १२ के १३ श्लोक में चेतन्यात्मसंसृष्ट महत्तत्त्वका नाम जोव रक्खा है। ब्रह्म वैवर्त्तपुराण के प्रकृतिवर्णन में लिखा है कि—

आत्मनः प्रतिविम्बश्च देहीजीवः सर्वच ।

प्राणदेहादिभृद्देही—सजीवः परिकीर्त्तितः ।

भा०—शरीरावच्छिन्न चेतनात्मा का प्रतिविम्ब देही और जीव कहाता है, प्राण शरीरादि का धारक पोषक होने से जो देही है वही जीव कहाता है। और श्वेताश्वनर श्रुति में जो लिखा है कि—

घालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च ।

भागोजीवः सविज्ञेयः, सचानन्त्यायकल्पते ॥

इसका अर्थ मनु जी के कहे महत्तत्व के अंश पर घट जायगा जीव को भगरूप कहा है और चेतन के भाग नाम टुकड़े होते नहीं इससे चेतन युक्त महत्तत्व प्रकृति का अति सूक्ष्मांश जीव है यह अभिप्राय अन्य प्रमाणों के अनुकूल है आकाशवत् चेतन के व्यापक होने पर भी घटवत् महत्तत्व का परिच्छिन्न सूक्ष्मांश होना शास्त्रों में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन प्रकारके शरीर प्राणियोंके माने गये हैं। पाँच प्राण, दशों इन्द्रिय शक्ति और मन बुद्धि इन सूक्ष्म सत्रह तत्त्वों का सूक्ष्म शरीर कहाता, है कहीं इसी को बढ़ा कर २७ तत्त्वों का संघट्ट सूक्ष्म शरीर कहा है। जैसा कि विवेक चूडामणि अ० २ में—

**वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च, प्राणादिपञ्चाभूमुखा-
निपञ्च । बुद्ध्यव्याद्यविद्यापि च कामकर्मणी, पुर्यष्टकं
सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥ ८८ ॥**

कहा है कि वाणी आदि पांच कर्मेन्द्रिय, श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच प्राण, आकाशादि पांच सूक्ष्मभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार अन्नःकरण चतुष्टय, अधिष्ठा मूल प्रकृति, महत्तत्त्व रूप काम और शुभाशुभ कर्मवासना इन सब २७ तत्त्वों का संघट्ट सूक्ष्म शरीर कहाता है इसीको लिङ्ग शरीर भी कहने हैं इसका सूक्ष्म आकार भी मानुषादि के स्थूल शरीरोंके तुल्य ही होता है । यही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग नरकादि योनियों में भ्रमण करता है । घटाकाशादि के तुल्य वस्तुनः अपरिच्छिन्न भी ब्रह्म परमात्मा इन सूक्ष्म शरीर के साथ परिच्छिन्न सा प्रतीत होता हुआ जीव कहाता है ।

इस सूक्ष्म शरीर में ही अहंकार ममकार रहते हैं, यह मेरा पुत्र यह मेरा पिता, यह मेरी पत्नी, यह मेरा धन, इत्यादि सूक्ष्म धारणा इसी सूक्ष्म शरीर का वासनारूप अंश है । इसी सूक्ष्म शरीर युक्त जीव के साथ पिता पुत्रादि संबन्ध मुख्य है इसी लिये वेद मन्त्र में लिखा है कि—

अङ्गादङ्गात्मस्मभवधि हृदयादधिजायसे ।

आत्माधैपुत्रनामासि सजीवशरदः शतम् ॥

अर्थ—हे पुत्र मेरे प्रत्येक अङ्गसे तुम्हारे प्रत्येक अङ्ग बने हैं हृदय से हृदय, मन से मन, बुद्धिसे बुद्धि, इत्यादि सूक्ष्म शरीर में ऊपर कहे सब अंश पिता के शरीर से पुत्र के शरीर में उद्भूत होते हैं । पूर्व जन्म से जो सूक्ष्म शरीरांश आते हैं वे वाज शक्ति मात्र मृतवत् होते हैं उनको पितृ शरीर से गयो वागादि-शक्तियां ही उज्जीवित वा अङ्कुरित करके कार्य साधक बनाती हैं इस से सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म शरीर के साथ ही पिता पुत्रादि का खास सम्बन्ध है । सूक्ष्म शरीर के सब अंश स्थूल के सारांश माने गये हैं । छान्दोग्य उपनिषद् में मन को अन्नमय, प्राण को जलमय, और वाणी को तेजोमयी कहा माना है कि अजादि का सार भाग मन आदि हैं और सार का मुख्य होना सर्वसम्मत है । सूक्ष्म शरीर के साथ मुख्य सम्बन्ध होने से ही किसी के मरजाने पर कहा जाता है कि अय उलमें कुछ नहीं केवल मट्टी पड़ी है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि स्वामी दयानन्द जी परमधाम वा स्वर्ग को गये । तब इनसे पूछना चाहिये कि जीवका नाम तो दयानन्द हो भी नहीं सकता शरीर दयानन्द, यहीं भस्म होगया जीव से तुम्हारा कुछ सम्बन्ध भी नहीं है । तब जिस शरीर से सम्बन्ध था उसे तुमने यहीं जला दिया जीव से कुछ सम्बन्ध नहीं तो भी उनकी अच्छी गतिके अभिलाषी क्यों बनते हो ? जैसे तुम स्वा०द० की सद्गति चाहते हो वैसे ही सनातनधर्मों लोग भी अपने माता पितादि सम्बन्धियोंकी सद्गति होनेके अर्थ वेदादि शास्त्रकी आज्ञानुसार श्राद्धादि करने कराते हैं जिससे तुम्हारा पेट क्यों पिड़ाता है ।

आशा है कि अब पाठक लोग समझ गये होंगे कि पिता पुत्र सम्बन्ध किसके साथ किसका है स्थूल शरीर मात्र के साथ पिता पुत्र का संबन्ध मानना आ० समाजियों का महा अज्ञान है । वास्तव में अन्तःकरण का संबन्ध ही मुख्य है इसी कारण मन में विरोध होजाने पर शारीरिक सम्बन्ध कुछ नहीं ठहरता । यह जो कहा माना जाता है कि जीव न किसी का पिता न किसी का पुत्र है सो परमार्थ कोटि में घटता है । कर्म उपासना सब संसार कोटि में घटती है ज्ञान होने से पहिले अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिये सब कर्मों का विधान है जैसे पुस्तक पठनरूप कर्म से पुस्तकस्थ विषयों का बोध हो जाने पर पुस्तक पठन रूप कर्म की आवश्यकता नहीं रहती । वैसे ही ज्ञान हो जाने पर कर्म की आवश्यकता वैसे नहीं रहती । वेदान्त के सिद्धान्त से सभी कर्म संसार दशा में हैं । पहिले धनोपार्जनादि कर्मोंसे उदासीन हो कर जो केवल शास्त्रोक्त धर्मके काम करे उसे ज्ञान हो सकता है और धनोपार्जनादि स्वार्थ साधन के कर्मों में ही अहर्निश लगे समाजी लोगों को कभी ज्ञान प्राप्त होने की सम्भावना ही नहीं है ॥

अब सिद्ध हो गया कि माता पितादि सम्बन्ध स्थूल शरीर से बहुत कम है किन्तु सूक्ष्म शरीरस्थ जीव से मुख्य है । सूक्ष्म और कारण शरीर मुक्ति पर्यन्त तट नहीं होते । जब मोक्ष में सूक्ष्मकरण शरीर भी नहीं रहते तभी चौथी पीढ़ी में श्राद्धकी आवश्यकता

मी नहीं मानी, तीन का ही श्राद्ध तर्पण कहा माना है। और ज्ये-
ताश्वतर में जो लिखा है कि [नवस्त्री न पुमानेष०] यह जीव न
स्त्री है न पुरुष है। इस के साथ ही दूसरी श्रुति क्या समाजियों
ने नहीं देखी ? (त्वं स्त्री त्वं पुमानसि०) कि तुम ही स्त्री तुम ही
पुरुष हो। इन दोनों की ठीक संगति यही है कि परमार्थ दृष्टि से
जीव न स्त्री न पुरुष है और कर्मवासनाओं के संयोग से वही स्त्री
है वही पुरुष है। जैसे परमार्थ दृष्टि से चेतन शक्तिमात्र जीव न
खाता पीता न बैठता उठता है परन्तु शरीर के संयोग से उसी में
खाना पीनादि कहा माना जाता है। [द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेय-
हेतुः । योगसू०] द्रष्टा जीव और दृश्य सूक्ष्मशरीरादिका संयोग
ही त्याज्य स्त्री पुरुषादि भावरूप संसारका हेतु-कारण है और दोनों
का पृथक् २ होना ही मोक्षरूप कैवल्य है। इस से दोनोंके संयोग
पर्यन्त श्राद्धादि सब कर्मोंको करने के लिये वेदादि शास्त्रोंकी आज्ञा
है लाहौर वाले के २१ वें प्रश्न का भी उत्तर इसी में आगया है।

प्रश्न १० । (इटावा वाले समाजी का) स्त्रियों को मृतक श्राद्ध
करनेका अधिकार नहीं है तो फिर पानेका अधिकार क्योंकर है ! ।

उत्तर १०—समाजी को चाहिये था कि स्त्रियों को मृतक श्राद्ध
करने का जो निषेध होता उसको प्रश्नके साथ लिखता तो कुछ भी
न करके मन माना लिख दिया है। तथापि हम संक्षेप से समाधान
दिखाते हैं यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो तो पुत्रके विद्यमान
होते हुये स्त्री को पति के श्राद्ध की आवश्यकता वा अधिकार इसी
प्रकार नहीं है कि जैसे पति पुत्रादि वाली स्त्रियोंको अन्य पुरुषों से
सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारों को स्वयं करने की आवश्यकता नहीं
होती, श्राद्धादि सभी कर्मोंमें पुरुषको पूरा २ अधिकार है और जिस
स्त्रीका पति पुत्रादि कोई खास विद्यमान न हो उसको जैसे राज्यादि
करने का अधिकार माना जाता है वैसे ही श्राद्ध का भी अधिकार
अवश्य है। देखो—

अपुत्राशयर्नभर्तुः पालयन्तीव्रतेस्थिता ।

पत्न्येवदद्यात्तत्पिण्डं कृत्स्नमंशंलभेतत्र ॥

भार्यापिण्डपतिर्दद्याद् भर्त्रेभार्यातिथैव च ।
 कानीनगूढसहज—पुनर्भूतनयाश्चये ॥
 पत्न्यभावेऽधिकुर्युस्ते अप्रशस्ताःस्मृताइमे ।
 कुलद्वयेऽपिचोत्सन्न स्त्रीभिःकार्याक्रियानृप ! ॥
 अपुत्रस्य च या पुत्री सापिपिण्डप्रदाभवेत् ।
 दुहित्रापुत्रवत्कुर्यान्मातापित्रोस्तुसंस्कृता ॥
 आशौचमुदकंपिण्ड—मेकोद्दिष्टंसदातयोः ।
 पत्नीकुर्यात्सुताभावे—पत्न्यभावेसहोदरः ॥
 पुत्रःकुर्यात्पितुःश्राद्धं पत्नोचतदसन्निधौ ।
 अनुजाअग्रजावापि भ्रातुःकुर्वीतसंस्क्रियास् ॥
 ततःस्वसोदरात्तद्वत्क्रमेणतमयस्तयोः ।
 पुत्रःशिष्योऽथवापत्नी—पिताभ्रातास्नुषागुरुः ।
 पत्नीमातापिताचैव—कुर्यात्पिण्डोदकक्रियास् ॥

भावार्थ—इत्यादि स्मृतियों के अनेक प्रमाण निर्णयसिन्धुमें लिखे हैं, जिस स्त्री के कोई पुत्र न हो वह अपने पति के शयन स्थान अपने शरीरादिकी रक्षा करती और नियम बद्ध रहती अर्थात् पतिव्रत धर्म का यथावत् पालन करती हुई पति के सर्वस्वकी अधिकारिणी होकर पति का पिण्डदानादि श्राद्ध करे। पत्नी के मरने पर उसका श्राद्ध पति करे और मृत पति का श्राद्ध पत्नी करे। कानीन, गूढज, सहज और पुनर्भू के पुत्र पत्नी के अभाव में पितृ श्राद्ध करने के अधिकारी हैं अर्थात् पत्नी विद्यमान हो तो वही अपने पतिका श्राद्ध करे कानीनादि न करे क्योंकि ये कानीनादि प्रशस्त पुत्र नहीं हैं इनकी अपेक्षा पत्नी अन्तरंग होने से श्रेष्ठ है यदि श्वशुर और पिता दोनोंके कुलमें सब का नाश होजाय दोनों कुलमें महामारी आदि किसी भी कारण कोई भी जीवित न रहा हो तो स्त्रियोंको चाहिये कि दोनों कुलके पति पिता भ्राता पुत्रादि सबका श्राद्ध करे जो कन्या अपने पिताके अकेली

हो अर्थात् उसका कोई धाता न हो तो पिता के मरने पर वह कन्या स्वयं श्राद्धादि पिण्डदान करे। पुत्रके न होनेपर उसके तुल्य पुत्री भी अपने माता पिता का पिण्डदानादि श्राद्ध करे। पुत्र के न होने पर पति मरजावे तो उसका दशगात्रादि पिण्डदान श्राद्ध पत्नी करे और पत्नी भी मरगई हो तो सहोदर भाई श्राद्ध करे। पिताका श्राद्ध पुत्र का करना चाहिये परन्तु पुत्र कहीं दूर देशान्तर में हो ऐसे समय में पति की मृत्यु हो जाय तो पति का पिण्डदान पत्नी करे। धाताके मर जाने पर छोटी व बड़ी भगिनी उसका श्राद्ध करे और उन छोटी बड़ी बहिनों के पुत्रों को भी मामा के श्राद्धका अधिकार है। पति वा श्वशुर के मरने पर पत्नी वा पुत्रवधूको भी पिण्डदानादि श्राद्ध करनेका अधिकार है। इत्यादि प्रमाणोंसे स्त्रियोंको मृतपति आदि के श्राद्धका अधिकार सम्यक् सिद्ध है। यदि कहीं ऐसा लेख स्मृति पुराणादि में हो कि स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है तो स्मरणके अनुसार उसका अर्थ यही होगा कि जिसके पुत्रादि विद्यमान हों उसको स्वयं श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि स्त्रियों की मृत पत्यादि के श्राद्ध का अधिकार न बताने वाले समाजी महाशय अब लज्जित संकुचित होकर सत्य समाधान को मानके सन्तुष्ट होंगे ॥

प्रश्न.—११कनागतोंमें हजामत [वाल] बनवाने और कपड़े धुलाने सिंलाने आदिका किस शास्त्रमें निषेध है ? क्या मैंले कुर्चले फटे लत्ते रहनेसे ही पितर प्रसन्न होते हैं ? ॥

उत्तर ११-शास्त्र की मर्यादा को सर्वथा ही न जानने वाले मूर्ख लोगोंको ऐसी ही बेसमझीकी शंकायें हुआ करती हैं। अब सनातन धर्मियोंमें भी मनुष्योंका अधिक भाग धर्मकर्मकी मर्यादासे शून्य होगया इस कारण हम संक्षेपसे इस उक्त प्रश्नका समाधान सबके उपकारार्थलिखते हैं। हम पहिले किसी प्रश्नके उत्तरमें लिज्जुके ही कि

ततःशेषाणिकन्याया यान्यहानितुषोडश ।

क्रतुभिस्तानितुल्यानि पितृभ्योदत्तमक्षयम् ॥

आ०-सिद्धान्त शिरोमणि नामक ज्यातिव के सर्वमान्य ग्रन्थ में

लिखा है कि कन्या राशि के १६ दिन यज्ञ करनेके तुल्य पुण्य दिन हैं इनमें पितरों के लिये किया श्राद्ध अक्षय पुण्य का हेतु होता है । जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रतकी रक्षाके लिये सर्वांगध शूद्रारका त्याग करता हुआ बाल रखा लेता और धोबीसे कपड़े नहीं धुलाता वैसेही सब प्रकारके व्रतोंमें गृहस्थको भी ऐसा ही करना चाहिये । अथर्व वेदमें लिखा है कि—

दीक्षितोदीर्घश्मश्रुः ॥

ब्रह्मचर्य दीक्षा लेने वाला डाढ़ी मूँछें सब रखाये रहे पृथिवी पर सोवे । पितरोंके लिये मनुजी कहते हैं—

अन्नोधनाःशौचप्रराः सततंब्रह्मचारिणः ।

पितर लोग स्वभाव से ही क्रोध रहित, अतिशुद्धि रखने वाले निरन्तर ब्रह्मचारी होते हैं पितृश्राद्धके दिनोंमें श्राद्धकर्त्ता यजमानको भी पितरोंके तुल्य स्वभाव वाला होना चाहिये । कनागतादि श्राद्धके दिनोंमें श्रद्धालु सनातनधर्मको ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर भूमि पर शयन करना और बाल नहीं बनवाना चाहिये । क्योंकि बाल रखा ना ब्रह्मचर्यका ऊपरी पुराना विन्द है ।

भगवान् रामचन्द्र जी तथा राजा युधिष्ठिरादि जब २ बनवासमें रहे तब सभी जटाधारी भूशायी और धोवियों से कपड़े नहीं धुलाते रहे । धोबी के धोये कपड़े श्राद्धादिमें धारण करना एक प्रकार की अशुद्धि है इसी लिये यहाँ में धोबी के धोये कपड़ों को धारण करना मना किया है । अधिक सफ़ेद न होने पर भी अपने आप धोये फीचे कपड़े अधिक शुद्ध होते हैं । धोबीके यहां सब जातियोंके महाअशुद्ध वस्त्रोंके विशेष संयोग से अच्छे वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं । जब कि यह नियम नहीं है कि जो लोग धोबी से कपड़े न धुलायें वे सब मूँछे कुचूँछे ही रहें तब धोबी के सर्वथा आधीन होने वाले समाजों की बुद्धिका दोष है । हम प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं कि अब भी पूरी २ शुद्धि करने वाले व्रतधारी भारत में अनेक हैं जो कभी भी धोबी को कपड़ा नहीं छुवाते पर उनके वस्त्र धोबी से धुलाने वालोंके वस्त्रोंकी अपेक्षा अधिक शुद्ध प्रत्यक्ष हैं । अर्थात्

पितर शीघ्र प्रधान हैं श्राद्ध कर्ताको भी ठीक २ पवित्र रहना चाहिये धोबीके धोये वस्त्र धारण करेगा तो अपवित्र अवश्य रहेगा । इससे वस्त्र स्वयं फाँचा करे । सभी कर्मकार्यों में दर्जी के सिधे कपड़े धारण करना निषिद्ध है एक धोती दूसरा उत्तरीय वा अंगोछा इन ही दो शुद्ध वस्त्रों से सब श्राद्धादिक कर्म करने चाहिये । इससे वस्त्र सिलाना अनुचित समझते हैं । सत्य बात तो यह है धर्म का शास्त्र की आधानुसार सेवन करने में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणादि को अन्य समय भी धोबीसे कपड़े नहीं धुलाने चाहिये और व्रतधारियों के तुल्य सदा रहना चाहिये पर जो आलस्यादि के वश दो कर्म धर्म हीन हो गये उनके लिये यह विचार लोकमें चल गया है कि सब दिन नियम नहीं सभ्रता तो कभी २ व्रतादिके समय नियम साधना भी अच्छा अवश्य है । इससे विशेष लिखना व्यर्थ है

प्रश्न २१-बद्धैतके सिद्धान्त मानने वाले श्री १०८ स्वामी शङ्कराचार्य के मतानुयायियों से प्रश्न है कि वे किस प्रकार श्राद्ध कर सकते हैं जब कि उनका मूल मन्त्र यह है कि—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥

और जब यह सब ब्रह्म ही है तब मातृ पितृ सम्बन्ध कहाँ और उसके बिना श्राद्ध किसका ? ॥

उत्तर २१-यद्यपि इस प्रश्नका भी उत्तर २० वें प्रश्न के उत्तर में आगया है तथापि संक्षेप से कुछ लिखे देते हैं । ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रत्यक्ष सहस्रों युक्तियों से सिद्ध वेदान्तादि का दार्शनिक सिद्धान्त समाजियों को न मानने पड़े अर्थात् अवश्य मानने ही पड़ेगा । समाजियों में न्याय शास्त्र की बातों के जानने मानने वाले अनेक हैं इससे वे अवश्य ध्यान देंगे-देखो न्यायशास्त्र के सिद्धान्त से सुवर्ण आग्नेय और मुक्ता नाम मोती आप्य है अग्निप्राय यह कि सुवर्ण अग्नितरु का विकार है और मोती जलतरु का विकार है । और यह नियम है कि जो जिसका विकार वा परिणाम होता है वह शास्त्र में ठीक २ आन्दोलन करने पर वही ठहरता है जैसे सूत से बने कपड़ों को तीन काल में भी कोई समाजो

निन्द नहीं कर सकता कि सूत या रई कपास से भिन्न लेशमात्र भी अन्य वंश वस्त्र है किन्तु सदा यही निन्द होगा कि कपास रई या सूत ही कपड़ा है, सुवर्ण के आभूषण सुवर्णसे भिन्न वस्तु तीनकाल में भी निन्द नहीं हो सकते किन्तु सदा सुवर्ण रूप ही निन्द होंगे । इसी विचार को सिद्ध करने के लिये वेदान्त छान्दोग्योपनिषद् में लिखा है कि—

यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृगमयं विज्ञा-
तथं स्याद्वाचाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव
सत्यम् ॥ प्रपा० ६ ब्रा० १ ।

अर्थ—हे सौम्य श्वेतकेतो ! मिट्टीके एक ढेलेसे मिट्टी के सब वि-
कारों का पता लग जाता है कि यह सब सूक्ष्म धनरूपति, मानुषादि
शरीर, सोना चाँदी ताँबा पीतल लोहादि सहस्रों नाम घाली केवल
मिट्टी मात्र है मिट्टीसे भिन्न कुछ नहीं है यह विचार समझने जानने
के लिये है किन्तु अज्ञान सम्यक् व्यवहार की सिद्धि के लिये सब
पृथक् २ मानने पड़ता है । यद्यपि समाजी जानते मानते कि मोती
एक प्रकार का जल है सुवर्ण एक प्रकार का अग्नि है पर अग्नि से
भिन्न ही मानते हुए व्यवहार करते हैं । हमारा प्रयोजन यह है कि
समाजियोंको भी ज्ञान कीटिका भेद पृथक् २ अवश्य मानने पड़ेगा।
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति० ।

यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केनकं पश्येत् ॥

भा०—जहाँ तक द्वैत सा रहता है वहाँ तक देखना सुनना आदि
व्यवहार होता है और जब एक अद्वैत ब्रह्म ही सब होजाता है अ-
र्थात् द्वैत का आचरण नष्ट हो जाता है तब द्वैत न होने से किससे
किसको देखे या जाने ? । जैसे समाजियों के मतमें पृथ्वीके सब
घट पटादि विकार घास्तव में पृथ्वीरूप होने पर भी उन २ सुवर्ण
हीरा-मणि आदि के सम्बन्ध और व्यवहार भिन्न २ होते हैं । जैसे

विभुकालके एक होने पर भी और न्यायसे विरुद्ध कालमें अंशांशी भाव वास्तविक सिद्ध न होने पर भी कालके सहस्रों अवयव पृथक् २ मान के उनका सम्यन्ध और व्यवहार समाजी आदि सभी प्रथम तार्किक लोग भी करने हैं वैसे ही सनातनधर्मों लोग अर्द्धत एक ब्रह्ममें ही उपाधि भेदसे माता पितादि सम्यन्ध मानकर श्राद्ध तर्पण होम यज्ञादि करते हैं उसमें कोई भी अनुचित वा दीप कहा नहीं जा सकता ।

और एक वान यह भी ध्यान दो कि एक मनुष्य है और उसको ऐसी शक्ति स्वयमेव प्राप्त हो जाय कि वह एक स्वरूपके अनेक स्वरूप बनाके अनेक प्रकार के सम्यन्ध और कर्म धर्मादि व्यवहार आपस में करे तो बताओ कि दीप क्या है ? । यदि कोई उसे पूछे कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो वह उत्तर देता है कि मेरी इच्छा, वैसे ही एक ब्रह्म ही यदि देव पितृ मनुष्य माता पिता पुत्रादि असंख्यरूप धारण करके सब श्राद्धादि करता कराता है और वही समाजी रूप से श्राद्धादि का खण्डन करता और सनातनधर्मों रूप से श्राद्धादि का ठीक २ युक्ति प्रमाण पूर्वक मण्डन करता हुआ स्वयं अपनी कीड़ा से आनन्द में मग्न होता है तब भी दीप वा अनुचित कुछ नहीं, इस रीति से एक अर्द्धत में सब कुछ घट सकता है ।

प्रश्न २२—धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ।

मरने के पीछे मनुष्यका किया धर्म ही साथ जाता तथा उसकी सहायता करता है अगर यह सिद्धान्त सत्य है तो दूसरों के लिये धर्म वा दानादि से किसीको क्या लाभ पहुँच सकता है ? और दूसरों के कर्म का फल तीसरे को मिलने से जो (अकृताभ्यागम) दीप आता है इसकी निवृत्ति कैसे कर सकते हो ? ॥

[इटावा वाले समाजी का १४ वां प्रश्न] जीव की निज कर्मानुसार गति होती है वा नहीं ? यदि होती है तो मृतक श्राद्ध करने का क्या फल है ? ॥

उत्तर २२-१४-इन दोनों प्रश्नों का अभिप्राय एक ही है । समाधान देखिये पुरुष का किया धर्म ही मरने पर साथ जाता है इसका अभिप्राय यह है कि संबन्धित किये धर्मादि पदार्थ वा इष्ट मित्र स्त्री

पुत्रादि कोई भी मरणान्तर साथ नहीं जाते। इस लिये मनुष्य को चाहिये कि धनादि संभय करने की अपेक्षा धर्म का संभय करने में विशेष प्रयत्न करे किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि पुत्रादि लोग श्राद्ध न करें। "धर्मानुगो गच्छति जीव एकः", इस समास वचनका भी अभिप्राय यही है कि अपने किये वा अपने अंश पुत्रादि के किये धर्म को साथ लिये जीव अकेला ही जाता है किन्तु यहांके स्त्री पुत्र धनादि सहायतार्थ साथ नहीं जाते, जय यहां के स्थूल पदार्थों के संग जाने का नियंत्रण करना शास्त्रकारों का अभिप्राय है तथा सूक्ष्म संस्कार रूप धर्म का सूक्ष्म शरीर वाले जीव के साथ जाने का अभिप्राय है तब पुत्रादि कृत धर्म से पितादि की सद्गति होने में कोई भी बाधक नहीं है।

रहा यह विचार कि पुत्रादि का किया धर्म अपना किया नहीं है अन्य के किये कर्मका फल अन्यको कैसे प्राप्त हो सकेगा ? तो सुगो श्राद्ध का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रकारों ने दायभाग की व्यवस्था बांधते हुए सपिण्डता का विचार किया है। समान नाम एक है पिण्ड, नाम शरीर जिनका वे सब आपस में सपिण्ड कहते हैं मनु जी ने भी छः पीढ़ीमें सपिण्डता विशेष कर मानी है सपिण्ड वालों को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। जिस सनातनधर्म के वेदादि शास्त्रों में एकता के विचार का अन्त ही नहीं रखा गया किन्तु अनन्त सृष्टि की एकता दिखायी और मानी है। 'वसिष्ठ भरद्वाजादि महर्षियों के सन्तान होने का दावा सहस्रों पीढ़ी घोट जाने पर भी हम अब तक मान रहे हैं। तब इतने लम्बे विचार को छोड़ के अति समीची अंशों में भी ये समाजी लोग जो भेद भाव फैलाना चाहते हैं इससे ये समाजी देश हित के भी जानो पूरे शत्रु हैं।

आत्मावैपुत्रनामासीति वेदश्रुतिः। भार्यापुत्रः स्वकातनूः। पतिभार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते इति मनुस्मृतौ ॥

भा०—वेद में लिखा है कि हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा नाम स्वरूप है अर्थात् पिताका ही एक रूपान्तर वा अंश पुत्र है। स्त्री और पुत्र

अपना ही शरीर हैं। पति पुरुष अपनी पत्नी में अपने सूक्ष्मांश रूपों से प्रविष्ट हो गर्भ रूप बनकर फिर से पैदा होता है इन से पिता और पुत्र एक ही हैं इनमें भेद कुछ नहीं है जब इत्यादि अनेक शास्त्रकार पुकार २ के पिता पुत्रादि की एकता दिखा रहे हैं और ध्यान देने से युक्तियुक्त भी दीखती है तब ये समाजी महाशय श्राद्ध खण्डन के मिससे पिता पुत्रादि में भी भेद भाव करके फूट फौलाना चाहते हैं यह आशय निकलता है। देश सुधारक लोग इस शास्त्राभिमत पिता पुत्रादि की एकता को लक्ष्य में रखते हुए देश भर के ब्राह्मणादिमें एकता सम्पादन करके पूरा २ देश हित साधन कर सकते हैं। चाहे यों कहे कि हमारे वेदादि शास्त्रोंमें कहे सब धार्मिक विचारों में अनेक रहस्य विचार महर्षियोंने संस्थापित कर दिये हैं। जैसे हाथों के द्वारा परिश्रम से बनाया पकाया भोजन मुख खाता और पेटमें पहुँचने पर क्षुधाकी निवृत्ति होती है यदि यहाँ यह विवाद उठाया जाय कि अन्य के किये काम का फल अन्य को हो गया इस से न्यायमतांनुसार कृतहान और अकृताभ्यागम दोष भी आगये कि जिन हाथोंने भोजन बनाया था उनको भोजनका फल कुछ न मिला अर्थात् हाथोंने कुछ नहीं खाया यही कृतहान दोष है और जिस पेट वा मुखने कुछ काम नहीं किया था उसने अच्छे २ माल उड़ाये यही अकृताभ्यागम दोष है अर्थात् कर्म करने वाले को उसका कुछ फल न मिलना और कुछ कर्म न करने वाले को फल मिलजाना। अब प्रश्नकर्त्ता समाजी से पूछना चाहिये कि इस कृतहान और अकृताभ्यागम दोष की निवृत्ति तुम कैसे करोगे ? क्या हाथों से पेटको वा मुख को पीटोगे। - यदि कहे कि हाथ मुख पेट सब एक ही हैं इस से। अन्य के किये का फल अन्य को नहीं हुआ। हाथों ने पेट के लिये ही भोजन बनाया था इस से दोष नहीं है तब वही समाधान यहाँ भी हो जायगा कि पिता पुत्रादि सपिण्ड के सब लोग एक ही हैं शास्त्र सिद्धान्तके अनुसार पुत्र भी अपने पिताकी सद्गतिके लिये ही श्राद्ध करता है और श्राद्ध का फल पितरों को पहुँचने के पश्चात्

उसका प्रतिफल पुत्रादि को भी प्राप्त होता है जिससे कृतहान और अहनाभ्यागम दांप सुत्रक श्राद्ध में नहीं आते ॥

प्रश्न १३ [इटावा वाले समाजी का] माक्षगत जीवों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिये वा नहीं । यदि चाहिये तो वे किस प्रकार पाले हैं यदि नहीं चाहिये तो क्या निश्चय है कि जीवमोक्षमें है वा अलग ।

उत्तर १३—इम प्रश्न का उत्तर १० । ४ प्रश्नों के उत्तर में पहिले आगया है कि तीन ही पीढ़ियोंका श्राद्ध क्यों होता है । जिसमें सिद्ध कर दिया है कि तीन पीढ़ी तक श्राद्ध हो चुकने पर चौथे के मरने पश्चत्त् उपर वाला चौथा, मुक्त हो जाता है इसी लिये चौथा पिण्ड मद्रियों ने नहीं रक्खा है । जिन लोगों को शाखां के प्रमाण पर पूरा विश्वास है उनको अन्य प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है क्योंकि उनको यह शक हो नहीं कि हमारा वृद्ध प्रपितामह मोक्ष में गया वा नहीं । और समाजियों के वाप दादे मोक्ष में जा भी नहीं सकते क्योंकि उनके यहां श्राद्ध का ही खण्डन है और यदि किसीके पिता, प्रपितामह अकामहत श्रोत्रिय नाम पूर्णतया जीवन्मुक्त विरक्त योग युक्त संन्यासी होकर मानुष योनिसे ही सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गये हों तो भी तीनों के नाम से श्राद्ध करना चाहिये क्योंकि श्राद्ध के देवता वसु रुद्र और आदित्य माने गये हैं वे सदा सर्वत्र विद्यमान और स्वयं मुक्त हैं वे ही पितृ पितामह और प्रपितामहके रूपोंसे श्राद्धको ग्रहण करते और उसका प्रतिफल देकर श्राद्धकर्ता को कृतार्थ करते हैं इससे मोक्षगत जीवोंके लिये श्राद्धकी आवश्यकता न होने पर भी कर्मके नित्य होनेसे कर्म का त्याग नहीं है क्योंकि उस का प्रतिफल श्राद्धकर्ताको मिल जानेसे सार्थकता विद्यमान है ॥

प्रश्न-१५ (इटावा वाले समाजीका) सपिण्डीकरणमें तीन शाखों में मेल किया जाता है वा क्या तीनों शाखें विना योनियों के कहीं विद्यमान हैं ? या यह मेल करना गुड़ियों का खेल बनाना है । यदि वे जीव निज कर्मानुसार किन्हीं योनियोंको पा चुके हैं तो उन शरीरों के साथ दूसरेका क्या मेल और वे कौन-२ शरीरोंमें है इसका निर्णय क्या है ? ॥

उत्तर १५-१६-समाजियोंके इस अज्ञानका समाधान हम पहिले समाधानोंमें सम्यक् प्रकारसे कर चुके हैं, कि [यस्यां पितर आसते० वेदे] जिस स्वर्ग रूप पितृलोक में पितर लोग निवास करते हैं वह अन्तरिक्षमें पृथ्वीसे ऊपर तीसरा लोक है, और पितर एक योनि है कि जिसमें दिव्य शरीरोंसे वे पितर स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हैं। ऐसी दशामें "बिना योनियोंके कहीं विद्यमान है" ऐसा प्रश्न करना समाजिक महाब्रह्मण है। क्या देव पितर आदि योनियोंका किसी प्रकार का विग्रहवती न समझ पाना यह समाजियोंका अज्ञान उनकी महासूक्ष्मताको सिद्ध नहीं करता ? ॥

वे मृत जीव अपने भीर पुत्रादि के दिव्य धात्र कर्मों के अनुसार जिस किसी यानिको पाचुके हैं तब उन शरीरोंके साथ दूसरों [जो अपने नहीं हैं] का वास्तव में मेल नहीं है। समाजियोंके पितर मरते ही समय जान लेते हैं कि वे कुपुत्र समाजी अब ही से दूसरे बन गये अब ये हमारा नाम भी नहीं लेंगे, दूसरे शब्दका अर्थ यही है कि जो जिसके सुख दुःखमें सहानुभूति कुछ न रखे। लोकमें दूसरे शब्दका व्यवहार ऐसे ही प्रसंगमें आता है, संसार में कुपुत्र वही है जो मरण पश्चात् पितरों का श्राद्ध तर्पण भी न करे इसी से कहा है कि [कुपुत्रमासाद्य कुतो जलाश्रुलिः] परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि सनातनधर्मों पिता पुत्र आस्तिक होनेसे द्वैतभाव नहीं करते किन्तु अनेक जन्मों तक वा मोक्ष पयन्त एकताका रस्सीसे शास्त्रकी आह्वानुसार बद्ध रहते हैं। सनातनधर्मों पुत्र अपने को उसी पिता का अंश मानता हुआ कदापि अपना से भिन्न दूसरा बनने का साहस नहीं कर सकता यह वेदादि शास्त्रोंकी मानता हुआ पिताके ही सूक्ष्म शरीरका अंश अपने मन आदि अन्तःकारण को मानता है। जिन्हें सनातनधर्मका मन्तव्य है कि (अर्थ निजः परोचिति गणना लघुचैतसाम्) इस के अनुसार संसार भरके सब आत्मा वास्तव में एक हैं यह हमारा है तथा यह अन्य है ऐसा त्रिचार तुच्छ लोगों का होता है। सनातन धर्मयोंके विरुद्ध सिद्धान्तमें सभी भूमण्डल भर एक ही है तब पिता पुत्रमें भी द्वैतभाव खड़ा करना भार्यसमाजियों के

साक्षात् फूट वा विरोधकी भूत्ति सिद्ध करता है। हे, समाजी ! वेद विरुद्ध भेद वा फूटको छोड़ो यह फूट नीतिले भी विरुद्ध है ॥

प्रश्न-१७ । १८-सपिण्डीकरण श्राद्ध में, वह पिण्ड, जो कि जीव का शरीर माना जाता है काटकर खी पुरुष में मिलाया जाता है ऐसी अवस्थामें घात दोष लगता है वा नहीं । यदि वे जीव जिनमें सपिण्डीले मेल किया जाता है वेल सिंह पश्वादि अज्ञात योनियोंमें हैं तो जिसका मेल किया है वह उस मेलके कारण उन्हीं योनियोंको जायगा अथवा और कोई दूसरी गति पावेगा ? ॥

उत्तर—ये भी दोनों प्रश्न इटावा वाले समाजी महाशयके हैं । इन दो प्रश्नोंमें मुख्य दो बातें हैं १-शरीर रूप माने हुए पिण्डके काटनेमें हिंसा दोष क्यों नहीं ? २-वेलसिंहादि अज्ञात योनियोंमें वह जायगा वा कहाँ जायगा ? । इसमें पहिली बातका संक्षेपसे उत्तर यह है कि अज्ञादि के पिण्डको शरीरों का उपादान कारण मानकर शरीर कहते मानते हैं । जैसे मट्टी ही घड़ी है ऐसा कथन उपादान उपादेय का अभेद भाव मानकर कहा जाता है किन्तु कार्य रूप शरीर पिण्ड रूप कारणसे भिन्न है । समाजी को अवश्य मानना पड़ेगा कि अरुप्रदादिका शरीर अन्नमय है अन्नसे ही बना अन्नसे ही जीवित रहता है इसीसे अन्न भी शरीर रूप होनेसे शरीर ही है तब ऐसी दशा में समाजीको बताना चाहिये कि प्रतिदिन अन्नरूप शरीरको तोड़ २ वा कुचल २ कर खानेसे तुमका हिंसा लगती है वा नहीं ? यदि नहीं कहाँ तो क्यों ? और हमारे यहाँ तो समाधान स्पष्ट है कि शास्त्र मनुष्यादि रूपमें बने शरीरोंके नाश करनेमें हिंसा दोष बतता है अन्न रूप शरीरके काटने तोड़ने में वह दोष नहीं हो सकता । जिस मट्टी से घट बनने वाला है उसके तोड़ने फोड़नेसे घट नहीं फूटता । तथा न्याय दर्शन वाटस्यायन भाष्य में लिखा है कि [अन्न ही प्राणियोंके प्राण हैं] सो वास्तव में जीवन रूप प्राण शक्ति अन्न में विद्यमान है इसी कारण अन्नके आहारसे जीवनकी रक्षा होती है । जब कि अन्न ही प्राण स्वरूप है तब हम प्रश्नकर्ता समाजी महाशयसे पूछते हैं कि आप प्रतिदिन जो अन्न को खा जाते हो तब प्राणों को खा लेने का

पाप तुमको क्यों नहीं लगता ? क्या तुम प्राणों को नित्य रखा लेते हो ? यदि तुम को प्राणरूप अन्न के खालेने में दाप नहीं लगता तो वैसे ही पिण्ड के काटने में भी घान दाप नहीं लग सकता ।

द्वितीय बात का संक्षेप से उत्तर यह है कि जिस का सपिण्डीकरण किया जाता है वंश बँल सिंहादि किसी योनि में नहीं जाता किन्तु जिस श्राद्ध तर्पणादि पितृयज्ञ के प्रताप से जैसे उसके पूर्वज पितादि लोग पितृलोक रूप स्वर्ग में गये वैसे वह भी प्रेतत्वभाव का छांडके स्वर्ग में अपने पूर्वजों के दिव्यविग्रहों के साथ स्वर्गोय सुख का अनुभव करता है इसी उद्देश को लक्ष्य में रखके महर्षियों ने वेदादि शास्त्रों द्वारा मृतक के लिये आध्वदैहिक कर्म करने की आवश्यकता दिखायी है ।

मृत्युर्यमस्यासीद्दूतःप्रचेता असून्पितृभ्योगमयाञ्चकार ।

अथर्व० १८

इस मन्त्र का साफ़ २ अक्षरार्थ सायणाचार्य भाष्यकार को सम्मत्यनुसार यह है कि यमराजका मृत्यु नामक दूत बड़ा प्रकृष्ट बुद्धिमान है वह मृत मनुष्य के असु नाम प्राणों को (पितृभ्यो-पितृमात्रायेति सायणः) पितृयोनि प्राप्त करनेके लिये भेज देता है, अर्थात् (पितृभ्यः) इसको चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन माना है परन्तु यह स्मरण रहे कि वेदादिशास्त्रों के सिद्धान्तानुसार उन ही मनुष्यों के प्राणों को पितृलोक में ले जाता है कि जिनका श्राद्धादि कर्म उनके पुत्रादि लोग ठीक २ श्रद्धा से मरण के पश्चात् करते हैं । सनातन धर्मों लोगों को एक बाल भर भी अविश्वास वा सन्देह नहीं है कि हमारे पितर कहाँ गये किन्तु उनको पूर्ण विश्वास है कि वे स्वर्ग में गये और वहाँ यह भी जायगा कि जिसका मैं सपिण्डीकरण करता हूँ । सपिण्डीकरण का असली अक्षिप्राय पितृपितामह प्रपितामह की श्रेणी में सम्मिलित करना है कि जिससे मासिक पार्वण श्राद्ध वा पिण्ड पितृयज्ञ में उसको भी प्रतिमास पिण्डदान दिया जा सके इससे सिद्ध हुआ कि जैसे श्रुत्या की निवृत्ति के लिये पकाये अन्न से अवश्य ही भूख निवृत्त होता है वैसे मृतक को स्वर्ग प्राप्ति के लिये

किये श्राद्धों से अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त होता है इससे वह मनुष्य बेल सिंहादि योनियों में कदापि नहीं जाता क्योंकि—

नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तातगच्छति ।

गीता में भगवान् ने कहा है कि उत्तम कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, यहाँ भी मृत मनुष्य के अंश रूपा पुत्रादिने किया श्राद्धादि सुकृत उसीका किया माना जायगा इससे उसका उत्तम गति होनेमें लेशमात्र भी सन्देह आस्तिक लोगोंको नहीं है ।

और बेल सिंहादि योनियों में जाने वालों की संख्या भी कम नहीं है क्योंकि जिन २ नमाजी समाजी आदि मर्तों में श्राद्धका खण्डन है उन सभीके पितर बेल वा सिंद व्याघ्रादि योनियोंमें जाया करते हैं इससे उन योनियों में अवनति होने की शंका भी नहीं है ।

प्रश्न २३—[लाहौर वाले का] सपिण्डी करने की विधि में जो तीन पितरों को पिण्डरूप में एकीकरण किया जाता है उसमें परमेश्वर को यदि एकीकरण स्वीकार न हो तो सपिण्डी करने का क्या लाभ ? और जब ईश्वर एकीकरण करेगा तो क्या श्राद्ध भोक्ता उस एकीकरण में बाधा डाल सकता है ? ॥

उत्तर २३—पाठकलोग ध्यान दें कि समाजीका कैसा विलक्षण प्रश्न है आप लॉग समाजी से पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट के न्यायालयों में भी यह नियम है कि चादी प्रतिवादी दोनों आपस में राजीनामा के रूपसे एकीकरण नाम मेल कर लें तो न्यायाधीश उसे सदाही स्वीकार करलेते हैं क्या समाजियोंके निराकार ईश्वरको फूट बँर विरोध अनैक्य ही स्वीकार है क्या पितरों की एकता रूप मेल को ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा ऐसी चिट्ठी समाजी के पास निराकार के दफ्तरसे क्या आगई है ? । हमें अनुमान होता है कि घांस पार्टी मांस पार्टी, लाला मुन्शोराम, वा रलाराम, धर्मपाल आदि जिन २ नेता मुख्य समाजियोंमें अब तक फूट हुई उनमें फिर एकीकरण नाम एकता रूप मेल नहीं हुआ सो यह निराकार ने ही इन सबमें फूट वा विरोध कराया है इसी कारण वह ईश्वर इनकी एकता को स्वीकार नहीं करता यह प्रश्नकर्ता समाजी को चिदित है

इसो विचार से समाजी ने पितरों के मेल में शंका की होगी। परन्तु समाजी को स्मरण रखना चाहिये कि सनातन धर्मियों का सगुण साकार भगवान् देव पितर मनुष्यादि किसीमें भी फूट वा विरोध कराना कदापि स्वीकार नहीं करता किन्तु वह सदा ही सबकी एकता को स्वीकार करता है इसी लिये उसने वेदके द्वारा श्राद्ध का उपदेश करके स्वर्गादि में गये पितरोंसे मेल कराया है। ईश्वर को मेल स्वीकार अवश्य है इसीसे वेदमें कह दिया है कि—

संगच्छध्वं सवदध्वं संवोमनांसि जानताम् ।

इस मन्त्र में कायिक वाचिक मानस तीनों प्रकार मेल करने का आदेश सनातनधर्मो ईश्वर ने किया है। परन्तु निराकार दशा में समाजियों की आबानुसार बद्ध रहने वाले समाजी ईश्वर को मेल होना अवश्य स्वीकार नहीं होगा इसीसे समाजियों द्वारा श्राद्ध का खण्डन उसने कराया है ॥

प्रश्न २४—और तत्क्षण जन्म धारण करने के मतवादियों में जब १००।५० और ५ वर्ष पहिले तीनों ने जन्म धारण कर लिया फिर उनको सपिण्डी करने का लाभ ? ॥

उत्तर २४—यह प्रश्न अत्यन्त वे समझी से। किया गया है क्योंकि जब १००।५०। वा ५ वर्षके बाद कहीं कभी कोई सपिण्डीकरण करता ही नहीं और न किसी ग्रन्थ में वैसा लेख है तब समाजीका प्रश्न ऊपर को धूलि फेंकने से अपने ही ऊपर पड़ने के तुल्य सिद्ध होगया। सपिण्डीकरण प्रायः सर्वत्र १२ वें दिन हो जाता है। और हम पहिले भी लिख चुके हैं कि देव पितृ आदि सूक्ष्म योनियों में जाना भी जन्मधारण करना है क्योंकि देवादि के भी दिव्य त्रि-ग्रहरूप शरीर होना सर्वसम्मत है तब केवल पार्थिव प्रत्यक्ष योनियों के धारणको ही जन्म समझना तथा मानना समाजीका महा अज्ञान सिद्ध होगया। और जन्म धारण करने में जब कई प्रकारके मतवाद नहीं है तब उनको अनेक मतवाद मानना भी समाजीका अज्ञान है।

प्रश्न २५—सपिण्डी करने में पिंडीका प्रेतका देह माना जाता है और फिर उसके टुकड़े किये जाते हैं इसमें टुकड़े करने वालों की माता पिता के देहको छेदने का पाप क्यों नहीं लगेगा ? ॥

उत्तर २५—इसका उत्तर इटावा वाले समाजीके १७ सत्रहवें प्रश्न के उत्तरमें ऊपर आगया है इससे विदोष लिखने की आवश्यकता नहीं। एक समाजी ने कहा कि मानव जानिका जीवन एकमात्र अन्न है। सब द्वितीयने कहा कि तुम अपने जीवनको पीम्ब पिसवा डालते फिर अन्न में भूँज डालते हो फिर उसी जीवन को चचा चचा के निगल जाते हो सो क्या जीवनकी ऐसी दशा करनेसे तुमको दोष नहीं लगता। न्याय वैशेषिक में मानव शरीरों का पृथिवी रूप करके स्पष्ट लिखा है परन्तु समाजी लोग पृथिवी नाम रूपसे अपने शरीरों का व्यवहार न करके आत्मभाव से व्यवहार करते हैं। सनातनधर्मियों का मन्तव्य यह है कि इसी पिण्ड का सारांश शरीर बनता है इस हेतुसे कार्य कारणका तादात्म्य मानकर पिण्डको शरीर माना गया है। यद्यपि घट भी सर्व सम्मत मट्टी ही है तथापि मट्टीके टूटने फूटनेसे घट नहीं फूटता है। वैसे ही शरीरों के साथ पिण्ड की एकता होने पर भी पिण्ड के तोड़ने से शरीर नहीं टूटता है।

प्रश्न २६—दुर्बलनी मृत पुरुषों की तृप्ति के लिये यदि ब्राह्मणों द्वारा उनके आहारादि पहुँचाने में जो दोष देशमें फैलेंगे उनका फल क्या होगा बताओगे क्या ? ॥

उत्तर २६—दुर्बलनी मृतपुरुषोंकी तृप्तिके लिये जो ब्राह्मणों द्वारा उनके आहारादि पहुँचाने का अधर्म अन्याय घोर विरोधादि अनिष्ट फल होगा जिससे दिन २ भारत सन्तानों की अधोगति होगी और यह अर्पराध प्रश्नकर्त्ता जैसे समाजियों को लगेगा। ऐसे ही प्रश्नोंके करने वालोंमें से एक समाजीका दृष्टान्त है कि समाजी महाशय अपने मृत पिता के श्राद्ध की तिथि से एक दिन पहिले एक सनातनधर्मो पण्डित जी के पास गये और जाकर पण्डित जी से कहा कि कल हमारे पिता का श्राद्ध दिन है परन्तु हमारे पिता को एक तोला अफीमप्रातःकाल नित्य खाने का अभ्यास था अब उनको अफीमके बिना बड़ा दुःख होगा इस से हम कल के लिये शाप को निमन्त्रित

करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रातःकाल तो आप एक तोला अफीम का भोग लगा लीजिये और मन्व्यान्ह में हलुआ पूरी उड़ाइये पाठकवर्ग समाजीका अभिप्राय वास्तव में पितृ श्राद्ध करनेका नहीं था किन्तु ऐसी शास्त्रमर्यादासे विरुद्ध व्यर्थ बातोंके द्वारा पण्डित जी के उपहास का अभिप्राय था। इस बात को पण्डित जी भी समझते थे। पण्डित जी ने कहा कि यदि आपका यह अभिप्राय है कि आपके पिता जो कुछ खाते व काम करते थे वे सभी काम हम को कर्त्तव्य हैं तब अफीम सहित आपका निमन्त्रण हमें स्वीकार है परन्तु आज रात को आपकी माता हमारी सेवा वैसे ही करें जैसे आपके पिता की सेवा करती थीं, क्योंकि पिता के कर्त्तव्य कामोंके प्रतिनिधि मानकर आप हम को अफीम खिलाना जैसे चाहते हैं वैसे ही सेवा भी है। इस बात को सुनकर समाजी महाशय बहुत चिगड़े पण्डित जी को सैकड़ों गालियां दीं, पण्डितजी सबका सहन करते गए। फिर समाजी बाबूने कहा कि हम इन पोप जी पर मानहानि का दावा करेंगे इनने हमको बहुत कड़ी गाली दी है, इन पर अवश्य नालिश हो सकती है। ऐसा सुनकर शान्ति पूर्वक गम्भीरता से पं० जी बोले कि बाबू साहब ! रुपा कर हमारी भी बात सुनलीजिये कि यदि आप नालिश करसकते हैं तो आपसे भी पहिले नम्बर हमारी नालिश आप पर होसकती है क्योंकि आप अफीम खिलाकर हमको मार डालना चाहते हैं इससे हमारा अभियोग आप पर बड़े समारोह से चलेगा यदि आप अभियोग चलाने की धमकी देते हैं तो अवश्य चलाइये। हमें स्वीकार है आप भी जान लेंगे कि किस पर अधिक अपराध लगता है।

ऐसा कथन पं० जी का सुनकर बाबू साहबकी कुछ होश आया और वे जान गये कि वास्तव में अभियोग चलाने पर विशेष अपराधी हमीं ठहरेंगे इस कारण ठंडे पड़ गये। आगे जिन २ समाजियों ने यह वृत्तान्त सुना उन सब ने कान पकड़ा कि ऐसा निमन्त्रण वा आक्षेप किसी पर नहीं करना चाहिये और आगे को ऐसे प्रश्न भी

महीं करेंगे । इस दृष्टान्त से पाठकों को ज्ञात होगया होगा कि ऊपर लिखे प्रश्न का उत्तर हो गया । पीछे शान्त गम्भीर भाव से उन्हीं प-
गिहन जी ने (जिनसे अफीम ग्राने पर वाचू से विवाद होगया था)
उक्त समाजी वाचू जी की ओर सकेत करके कहा कि महाशय !
रूपाकर सुनिये । श्रुति स्मृति पुराणोंको प्रामाणिक मानने वाले आ-
स्मिन्कनुन्द का मन्तव्य ना अटल सिद्धान्त यह है कि वेदादि शास्त्रोक्त
विधिवाक्य ही धर्म का लक्षण है । महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनिने
कहा है कि—

शब्दप्रमाणका वयं यच्छब्द आह तदस्माकंप्रमाणम् ॥

हम लोग शब्द प्रमाण को मानने वाले होनेसे आस्मिक हैं जो
जो कुछ शास्त्र में लिखा है वह हम को प्रमाण है । श्राद्ध पितृ पूजन
पितृदान ब्राह्मणोंको भोजन कराना जो २ पदार्थ ब्राह्मणों को जिमाना
चाहिये वो भी सब लिखा है उसको हम यथावत् मानते हैं परन्तु
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी का पिता मद्य वा अफीम वा भांग
पीता खाता रहा हो तो उसके श्राद्ध में मद्यपानादि कराना चाहिये
और यह भी नहीं लिखा कि मद्य भांग अफीम आदिसे उसकी तृप्ति
होती है इससे ब्राह्मणों को अफीम आदि खिलाना चाहिये । यदि ऐसा
कहीं लिखा हो तो वाचू जी ! आपही कोई प्रमाण श्रुति स्मृति का दि-
वाह्ये । जब शास्त्र की आज्ञानुसार हमलोग श्राद्धादिकर्म करते मा-
नते हैं और शास्त्रमें ऐसा कहीं लिखा नहीं तब हमलोग अफीम आदि
का खवाना पिलाना शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध होने पर क्योंकर
मान सकते हैं ? अर्थात् कदापि नहीं । और समाजी महाशय को यह
भी शोचना चाहिये कि अफीम अदि भौतिक पदार्थ हैं उनका अभ्यास
न वा दुर्व्यसन जिस भौतिक शरीर को होगया था वह वहीं पञ्च-
भूतों में मिलगया अब नयी योनि नये शरीर में वही अभ्यास नहीं
रह सकता तथा यह भी शोचनीय है कि नशा-सम्बन्धी पदार्थों से
नजेवाजों की तृप्ति कदापि नहीं होती किन्तु तमोगुणसे चेतनशक्ति
वाच्छल होजानी दृष्ट जाती है इसका नाम तृप्ति कदापि नहीं हो स-
कता । इसलिये यह प्रश्न शास्त्र मर्यादासे विरुद्ध वेत्तमफी का भी है ॥

प्रश्न २७-अमावास्या कृष्णपक्ष वा दक्षिणायनमें ही क्यों पितरोंके श्राद्ध किये जाते हैं ? और दूसरे दिनोंमें क्या उनको भूख नहीं लगती ?

उत्तर २७-इसका उत्तर संक्षेप से यह है कि ऊपर लिखे प्रमाण विचार के अनुसार श्राद्ध के काल भी शास्त्रोक्त लिये जाते हैं । यदि तुम लोग स्वयं प्रातःकाल होम करना मानते हो तो वृताशों कि अन्य २ दिन रात्रि के अंशोंमें होम करना क्यों नहीं मानते, क्या अन्य समय होम की आवश्यकता नहीं है । दक्षिणायन में ही श्राद्ध करें ऐसा कहीं नहीं लिखा तब दक्षिणायन का प्रश्न ही मिथ्या है । अमावास्या में चिदोप कर पिएड पितृयज्ञ वा पार्वणश्राद्ध करनेका विधान इस लिये किया है कि पितरों का एक दिन रात मानुषी एक मास का मन्वादि महर्षियों ने माना है उसमें कृष्णपक्ष दिन और शुक्लपक्ष रात्रि है जैसे मनुष्यों को रात्रि में भोजन करने की आवश्यकता नहीं वैसे ही शुक्लपक्ष रूप रात्रि में पितरों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्येक अमावास्याको दिया पिएडदान रूप भोजन पितरों के प्रत्येक दिन में एकवार उनको प्राप्त होजाता है । जिन लोगों के पितर द्वाइवर अंगरेज आदि हैं उनको अवश्य चार पांच वार भोजन देना चाहिये प्रतिदिन एकवार का भोजन सास्त्रिक है वार २ खाना लड़कपन है ॥

प्रश्न २८-दक्षिणायन भी उत्तरध्रुव के लोगों के लिये रात्रि है तो क्या वहाँके लिये श्राद्ध आधीरात्रिमें खाये जाते हैं अथवा वहाँ के शीतान्त पुरुषों के लिये यहाँ की खोर पूड़ी काम आते हैं ? ॥

उत्तर २८-हम पहिले समाधानों में पितृयोनि और पितृलोकका वेद प्रमाणानुसार ठीक २ पता बता चुके हैं उन्हीं पितरों के लिये हम श्राद्ध करते हैं । उत्तर ध्रुव के लोगों में श्राद्ध न करने मानने वालों के पितर जाते हैं उनके लिये समाजी लोग दुःख मानें हमारे पितर श्राद्ध के अवलम्ब से पितृलोक रूप स्वर्गमें जाते हैं उत्तर ध्रुव में नहीं । शेषांशका उत्तर पहिले में आगया है ॥

प्रश्न २६-ठंडी के देशों में ठंडीके समय ही सेवा करना जरूरी प्रतीत होता है और अगर यह ठीक नहीं तो गर्म ऋतु में मृतकों के श्राद्धकी कल्पना कहां से आई ॥

उत्तर २६-यह प्रश्न सर्वथा ही वे समझी का है गर्म ऋतुमें ही श्राद्ध हीं शीत में न हीं ऐसा लेख जब कहीं नहीं है तथा जब सब ऋतुओं में श्राद्ध किये और माने जाते हैं तब समाजी का लेख सब शास्त्रोंसे और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी विरुद्ध कौन मानेगा ? ठंड देशोंमें रहने वाले यूरोपादि निवासियों का श्राद्ध समाजी मत के अनुकूल है सो वे ही करें ॥

प्रश्न ३०-पितृ शब्द का अर्थ रक्षक है, और राष्ट्ररक्षक ज्ञानी लोगों को कई शास्त्रकारों ने पितर नाम से माना भी है इसलिये अगर उन रक्षकों की सेवा के प्रतीकार के लिये ही श्राद्ध विधि है तो मृतकों की पूजा का कहां से प्रमाण मिला ? ॥

उत्तर ३०-यद्यपि पितृ शब्द का अर्थ रक्षा करने वाला है तथापि भिन्न २ विषयों में उसी २ प्रकार की रक्षा मासुनी होगी । समाजी से पूछना चाहिये कि अपने वृद्ध वा रोगी पिता को रक्षा पुत्र करे तो क्या समाजी उस पुत्रको पिता का पिता मानेंगे वा नहीं ? यदि कुत्ता खीरोसे घनादि की रक्षा करता है तो क्या समाजी कुत्ते को पितर मानलेंगे ? ज्ञानी कदापि राष्ट्र रक्षक नहीं होते और राष्ट्र रक्षक मनुष्य ज्ञानी नहीं होसकते जिस को ज्ञान प्राप्त होगा वह कदापि राष्ट्ररक्षादि अज्ञान के कामोंमें नहीं फसेगा । इसीसे राष्ट्ररक्षकों को किसीने ज्ञानी माना भी नहीं इस कारण समाजी का उक्त लेख वेद विरुद्ध है । वेदादि सभी शास्त्रों में श्राद्ध विधि स्पष्टतया मृतक मनुष्य के लिये लिखा है तब समाजी से पूछा जा सकता है कि जीवित मनुष्य के लिये श्राद्ध करने का प्रमाण कहां से मिला ? जीवित मनुष्य के लिये श्राद्ध करने का कहीं एक भी प्रमाण नहीं है जैसे कोई मरेहुए मनुष्यों का विवाह होना लिख करे वैसे ही जीवितों का श्राद्ध जानो ॥

प्रश्न ३१-क्या चारों वेदों में कहीं भी मृतक श्राद्ध व सपिण्डीकरण की विधि वा शब्द लिखा है ? यदि नहीं तो इस कर्म को वेदानुकूल क्यों मानते हो ? ॥

उत्तर ३१-क्या पांचों वेद स्मृति पुराणादि किसी में जीवित श्राद्धादि लिखा है। यदि नहीं लिखा तो ऐसे महा मिथ्या मनगढ़न्तके विचार क्यों मानते हो ? जब जीवितों का श्राद्ध त्रिकाल में कभी हो ही नहीं सकता तो मृत पुरुषों का श्राद्ध सबमें लिखा ही है। अग्निष्वात्त अग्निर्ग्रथ पित्र श्राद्ध संबन्धो वेद मन्त्रों में स्पष्ट लिखे हैं जिनका अग्निमें दाह कर्म हुआ वे ही अग्निष्वात्त वा अग्नि-दग्ध कहाते हैं मरने के बाद ही दाह कर्म होता है इत्यादि अनेक प्रमाणों से मृतक निर्मित श्राद्ध वेद से सिद्ध हो चुका है। और समाजी के लिखने से स्पष्ट सिद्ध है कि जो वेद में लिखा है वही वेदानुकूल है और जो नहीं लिखा वह सब वेदविरुद्ध है ऐसी दशा में परमेश्वर शब्द वेद में दिखाना चाहिये अन्यथा परमेश्वरको वेदविरुद्ध मानो। समाजियों के मनगढ़न्त के मत में सैकड़ों मन्तव्यों को वे लोग वेद में न दिखा सकने पर भी दृष्टपूर्ण मानते हैं और मिथ्या दावा करते हैं कि हम वेदमतानुयायी हैं परन्तु हम लोग तो कोई बात वेद में लिखी न होने पर भी शिष्ट प्रमाणित स्मृति पुराण प्रतिपाद्य अनेक मन्तव्यों को (असति ह्यनुमानम्) प्रमाण के अनुसार वेदानुकूल मानते हैं इस से वेदविरुद्धता का कथन सब समाजी मत में रह गया। यद्यपि श्राद्ध शब्द समाजियों के माने हुए थोड़े से वेद में नहीं हैं, तथापि जब ११३१ शाखायें वेद ही हैं तो उन सबमें श्राद्ध शब्द भी अवश्य मिलेगा तथा श्रद्धा शब्द जब समाजी वेदमें भी विद्यमान है तब सूत का नाम होने पर भी कोई कहे कि वस्त्र नाम नहीं वैसाही कथन श्राद्ध विषय में जानो जहां कारण है वहां कार्य का होना स्वतः सिद्ध है वेद सद्भादपरक है कार्य सब असत् है इससे श्रद्धा शब्द ही श्राद्ध का मूल कारण है।

३२ वां प्रश्न वही निमि ऋषि के पुत्र विषय में है जिसका समाधान ६म पांचवें प्रश्न के समाधान में सम्यक् प्रकार लिख चुके हैं

वहाँ पांचवा प्रश्न महाभारत के नाम से था यहाँ वराहपुराणका नाम है दोनों में बात एक ही है जिस में समाजी ने छल से कुछ का कुछ उल्टा मतलब लगा लिया है महाभारत और वराहपुराणादि सब ग्रन्थों में श्राद्ध को ठीक २ माना है खपडन कहीं नहीं किया इस से समाजी की मिथ्या बात किसी को मन्तव्य नहीं है ॥

प्रश्न ३३—कृष्णपक्ष को पितरों का दिन मानने वाले बतावें कि यदि किसी का क्षयाह शुक्ल में हो तो उसका उस दिन श्राद्ध करना पितरों को रात्रि में जगाकर तंग करना नहीं तो क्या है ? ॥

उत्तर ३३—कृष्णपक्ष को पितरों का दिन मानना शास्त्र प्रमाण के अनुकूल है । शुक्लपक्षमें किसीका क्षयाह श्राद्ध हो तो कोई दोष नहीं वह लेख अपवाद रूप से ठीक है क्योंकि अपवाद के अंश में उत्सव लक्षणकी प्रवृत्ति नहीं होती शुक्लपक्षमें श्राद्ध न होना उत्सव है और मरण के दिन क्षयाह श्राद्ध करे यह अपवाद है शुक्लमें क्षयाह अवश्य माना जायगा । अपवाद से उत्सव की कुछ हानि थी नहीं होती । अर्द्ध रात्रिके समय भोजन निषिद्ध होने पर भी जन्माष्टमी आदि के दिन विशेष विहित होने से अपवाद रूप से अवश्य कर्त्तव्य है और पुण्य धर्मका हेतु है । सनातनधर्मियों के पितर कदापि तंग नहीं होते किन्तु वे लोग दिव्य दृष्टि होने से जानते हैं कि क्षयाह श्राद्ध वेदादि शास्त्रों में उसी दिन कर्त्तव्य लिखा है शास्त्रानुकूल किया ही हमको प्राप्त होगा इसलिये वे सब लोग क्षयाह श्राद्ध के दिन हमारे शुक्लपक्ष रूप अपनी रात्रि के उन्हीं घंटोंमें सम्मिलित होकर पितृलोक में सभा करते उत्सव मानते भूमिलोकस्थ अपने अपने पुत्रादिको आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं और उन लोगोंकी बुद्धि पर शोक प्रकाशित करते हैं कि जिन्होंने श्राद्धके विरोधी बनकर अपने पितरों को अधोगति में गिराया । जिसका विवाह होता है वह रात्रिमें जागने पर भी तंग नहीं होता किन्तु उत्सव दिन मानता है वैसे ही पितर भी उत्सव मानते हैं ॥

प्रश्न-३४—प्राचीन समय में जब ब्राह्मणादि द्विज संन्यासी के

लिये कर्म की आवश्यकता नहीं फिर क्या यह सिद्ध नहीं होता कि मृतकश्राद्ध शूद्र कर्म ही है ।

उत्तर ३४—यदि समाजी के मतानुसार शूद्र के लिये मृतक श्राद्ध सिद्ध हो तो भी एक अंशमें समाजी ने अपना ही खण्डन कर डाला अपने पग में कुल्हाड़ी मारली न ? क्योंकि शूद्र के लिये मृतक श्राद्ध समाजी ने मान लिया । हमारा मन्तव्य तो यह है कि ऐसा समय न कभी हुआ न होगा कि जब सभी ब्राह्मणादि संन्यासी हो सकें । जितने लोग संन्यास लेते थे वा लेंगे उनके संन्यास की भी चार कक्षां हैं उनमें तीन कक्षाके लिये तो श्राद्धकी आवश्यकता है, चतुर्थ परमहंस कक्षा में कोई विरला पहुँच पाता है उसके लिये भी श्राद्ध का निषेध नहीं है इस कारण सब विद्वानों में नित्य नैमित्तिक काम्य श्राद्ध सदा सिद्ध ही है ।

प्रश्न ३५—भागवत माहात्म्यमें लिखा है कि गोकर्ण के गयाश्राद्ध कराने पर भी धुन्धुकारीकी मुक्ति न हुई (गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति) फिर गया श्राद्ध क्यों किये जाते हैं ? ॥

उत्तर ३५—हे समाजी ! तुम्हारे प्रश्न वास्तव में वे समझी के हैं सुनो ! यदि छोटी अदालतों में किसी भी कारण किसी प्रार्थी का निवेदन न सुना जाय तो क्या वे सब अदालतें व्यर्थ हो जाती हैं ? जब सैकड़ों चादी प्रतिवादियों के अभियोगों का फैसला होता है तब वे सभी न्यायालय सार्थक हैं वैसे ही गयाश्राद्ध से सहस्रों का कल्याण होता है इससे वह सार्थक है । धुन्धुकारी ने यह कहा कि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी मेरी मुक्ति न होगी किन्तु यह नहीं कहा कि गयाश्राद्धसे किसीकी मुक्ति न होगी । मेरी न होना कहनेसे अन्यों की मुक्ति होना सिद्ध है । धुन्धुकारीका मोक्ष भगवद्भक्तिसे होने योग्य था यह भागवत माहात्म्यका अभिप्राय अर्थवाद रूप है । पाठक ! लाहौर वाले समाजी के सब प्रश्नोंका उत्तर यहाँ तक पूरा हो गया ।

१६—प्रश्न—श्राद्धमें जो २ पदार्थ दिये जाते हैं यदि वे उन २ वोनियों के (जिन २ को जीवात्मा पाचुके हैं) अलकूल नहीं हैं तो पुत्र

आदिके दिये श्राद्धगत पदार्थ व्यर्थ हैं वा नहीं ? यदि कालान्तर के लिये सार्थक माने जायें तो संप्रति वे क्या खाते पीते हैं ? क्योंकि विना श्राद्ध उन्हें भूखों ही मरना है, यदि निज कमनुसार भोजन पाते हैं तो श्राद्ध करना व्यर्थ है ? ॥

उत्तर ११—यद्यपि इन सभी प्रश्नोंके उत्तर पहिले समाधानों में आ चुके हैं तथापि हम सक्षेपसे फिर भी समाधान लिखेंगे । हम पहिले भी लिख चुके हैं कि स्मृतिकार ऋषियोंने श्राद्धमें जो २ पदार्थ प्राणियोंको देने वा भोजन कराने लिखे हैं उन्हींको हम सनातनधर्मों लोग श्राद्धकाल में देते हैं । यदि वे पदार्थ उनके योग्य न होते तो ऋषि लोग अवश्य लिखदेते कि वे पदार्थ उन मृत पितरों के योग्य नहीं हैं इससे मत दो सो ऐसा न लिखकर ऋषियोंने लिखा है कि वे ही अन्नादि पदार्थ मृत पुरुषको यदि देवयोनिमें जन्म पाया होतो अमृत रूपमें परिणत होकर मिलते हैं पितृ योनिमें स्वधारूप होके मिलते, मनुष्य योनिमें अन्नरूप होकर प्राप्त होते और पशुवादि योनियों में वृष घासादि रूप होकर प्राप्त होते हैं । इससे वे पदार्थ सर्वथा मृत प्राणियोंके अनुकूल होने सिद्ध हैं! अब प्रश्नकर्त्ता समाजीसे प्रष्टव्य यह है कि वह वेदादि किसी शास्त्रका प्रमाण दें कि इस प्रमाणसे वे पदार्थ मृत प्राणियोंके अनुकूल नहीं हैं । और हम तो एक उत्तर यह भी पहिले लिख चुके हैं कि (असून, पितृभ्यो गमयाञ्चकार) जिन मृत प्राणियोंका विधि और श्राद्धके साथ मरणान्तर पुत्रादि लोग श्राद्धादि कर्म करते हैं उनको वेदप्रमाणके अनुसार पितृयोनिमें स्वर्ग प्राप्त होता है किन्तु मनुष्य पशु कीट पतङ्गादि योनियां श्राद्धके विरोधी समाजी आदिके पितरोंके लिये ही हैं । तथापि किसी कारण अन्य योनियोंमें सनातनधर्मोंका जन्म हो जाय तो उसको वही अन्न अनुकूल होकर उस २ योनिके अनुसार प्राप्त होगा । संसारमें मनुष्योंके सुख साधन सामान्यतया भोजन वस्त्र दो हैं परन्तु भोजन वस्त्र मिलने पर समाजी लोग उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि रुपया पैसा मिलने पर प्रसन्न होते हैं । किसी प्रकार रुपये का चूर्ण

कारके कोई समाजी खावे तो न क्षुधा की निवृत्ति होगी और न कुछ स्वाद मिलेगा वा यों कहो कि खाया भी न जायगा तथा रुपया पैसा शरीर, में लपेटने पर शीत भी निवृत्त नहीं होगा । ऐसी दशा में समाजी लोग रुपया लेनेसे इनकार क्यों नहीं करते ? वा ऐसा ही प्रश्न क्यों नहीं करते कि रुपया पैसा मनुष्य के भोजन वस्त्र के योग्य न होने से अनुकूल नहीं तो व्यर्थ हैं वा नहीं ? यदि कहें कि रुपये से भोजन वस्त्रादि सभी प्राप्त हो जाता है तो वही समाधान यहाँ भी जानो कि जैसे रुपयेके बदलेमें भन्न वस्त्रादि अपेक्षित सामान तुमको प्राप्त हो जाता है वैसे ही श्राद्ध में दिये पदार्थों के बदले में मृत प्राणियों को योनियों के अनुकूल पदार्थ उन २ को प्राप्त हो जाते हैं । क्योंकि लोक में भी यही व्यवहार है कि मूल्यवान् वस्तु किसी को कुछ भी मिले उसके बदलेमें अपना अभीष्ट वस्तु सब कोई लेसकता है । हम यह भी पहिले लिख चुके हैं कि भूखों मरसेसे बचाने मात्र प्रयोजनसे श्राद्ध नहीं किया जाता किन्तु अपने मृत पितादिको स्वर्ग मोक्षदि तक उच्च २ दशा में पहुँचाने के लिये श्राद्ध किया जाता है । और हम यह भी लिख चुके हैं कि निज कर्मानुसार भोजनादि जन्य उत्तम सुख मृत पितरों को प्राप्त होने पर भी उनको श्राद्ध तर्पणादि द्वारा वृत्त करनेकी आवश्यकता ऐसे ही माननी चाहिये कि जैसे समृद्धि सम्पन्न होनेपर भी गुरु व माता पितादिकी सेवा करना शिष्य और पुत्रादिका परम कर्त्तव्य धर्म है ऐसा होने पर ही वे सुशिष्य वा सुपुत्र कहाते हैं और ऐसा होने पर ही गुरु वा माता पितादि संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं । क्या समाजी लोगों के गुरु माता पिता जय भूखों मरने लगने हैं तभी उनको भोजनादि कराना नियत है ? और गुरु आदि को अपने कर्मानुसार भोजनादि मिलने पर क्या समाजी मत में गुरु सेवादि कर्त्तव्य धर्म नहीं ? इसका उत्तर समाजी प्रश्नकर्त्ता को देना चाहिये ॥

प्रश्न २०-श्राद्ध करने का अधिकार कौन २ जातियोंको है ? और जिन २ जातियों को श्राद्धाधिकार माना जावे उन २ जातियों के अनुकूल वे २ पदार्थ श्राद्ध में क्यों नहीं दिये जाते ? ॥

उत्तर २०—श्राद्ध करने का अधिकार सभी जातियों को है, ब्राह्मणादि चारों वर्ण तथा चर्मकार चाण्डालादि सभी अन्त्यज जातियों और असुर राक्षसादि जातियोंको भी श्राद्ध करनेका अधिकार है। द्विज ब्राह्मणादि को वेद मन्त्रों से श्राद्ध करने का अधिकार महर्षियों ने बताया है और शूद्रादि अनुपनीत असंस्कृत जातियों को नाम मन्त्रों से वा स्मार्त्त पौराणिक मन्त्रों से श्राद्ध करने का अधिकार बताया है वैसे ही सब वास्तिक लोग मानते हैं और यह भी माना जाता है कि दूध खोया, मलाई, घृत, मधु पायस आदि अनेक उत्तम पदार्थ सभी जातियों के अनुकूल हैं यद्यत् चावल आदि अन्न भी सब के अनुकूल हैं इन्हीं न्योगा आदिके पिण्ड पितरों को दिये जाते हैं। अब प्रश्नकर्त्ता समाजी महाशयसे पाठकगणोंको पूछना चाहिये कि खीर खोया दूध मलाई मिथी आदि किस २ जाति के प्रतिकूल हैं कौन २ जाति के मनुष्य इन पदार्थों को ग्रहण नहीं करते ? और उक्त पदार्थ किस २ जाति के अनुकूल हैं यदि सभी के अनुकूल कहे तो तुम्हारे प्रश्न का स्वयं खण्डन हो जायगा। और यदि यह अभिप्राय हो कि मांसाहारिणी जातियों के अनुकूल मांस के पिण्ड क्यों नहीं दिये जाते ? तो उत्तर यह है कि मांसभक्षण सर्वसाधारण के लिये निषिद्ध होने पर भी जो लोग शास्त्रकी आज्ञा को न मानकर रागवश मांसभक्षण करते हैं उन्हींके लिये तो परिसंख्यारूपसे मांसके पिण्डों का प्रसङ्ग मन्वादि महर्षियोंने दिखाया है। जैसे आर्यसमाजियों में भी एक मांसपार्टी है ऐसे लोगों को ही मन्वादि के कहे मांस के पिण्डदान करने का अधिकार है। मांसाहारियों के मांसभक्षण वा मांसपिण्डों का अपराध महर्षियों पर वा हम सनातनधर्मानुयायियों पर कुछ भी नहीं आता क्योंकि कोई कहता नहीं कि तुम मांसभक्षण करो किन्तु निषेध को न मान कर दूठ पूर्वक रागवश जो लोग मांस भक्षण करते हैं इस से अपराध उन्हीं पर है। हाँ इतना तो हम अवश्य कहते हैं कि श्राद्धादि न करने वाले तथा निरन्तर मांस खाने वाले मनुष्यों से वे अच्छे हैं जो मन्वादिके लेखानुसार देवपितृर्थ ही मांस का विनियोग करते हैं परन्तु मांसके सर्वथा त्यागी होकर खीर

खोयादिके पिण्डदान द्वारा श्राद्धादि करने वालोंसे वे मांसके पिण्ड देने वाले निरुण्ट भी माने जावेंगे। इससे मांसाहारी समाजियों को भी अपने अनुकूल पदार्थों से श्राद्ध करने का अधिकार है।

प्रश्न २१—यदि प्राणीकी तृप्ति होनी अभीष्ट है तो मद्य मांसाहारी गंजेरी भंगेड़ी अफीमची आदि के लिये मद्य, मांस, गांजा, भांग, अफीम आदि ही देना उचित होगा अन्य पदार्थों से वे कैसे तृप्त होने होंगे ? (उन्हें तो अमल त्रिन तलव अवश्य लगती होगी ?) ॥-

उत्तर २१—इस प्रश्न का उत्तर दृष्टान्त सहित साङ्गोपाङ्ग सम्यक् रूप लुका है। प्रश्नकर्त्ता समाजी महाशय से निवेदन है कि वे उक्त समाधान का आखे खोलकर पढ़े समझें और युक्ति-प्रमाणानुसार सब महाशय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि तृप्ति पदका स्यास अर्थ क्या है ? यद्यपि सामान्य गौणार्थ से अन्न के द्वारा भी तृप्ति कही और मानी जाती है तथापि मुख्यकर जलका गुण तृप्ति है क्योंकि तर्पण एक कर्म है वह जलके द्वारा होता है उस तर्पण का योगिकार्थ (जिससे पितरोंकी तृप्ति हो वह तर्पण कहाता) है। इसी लिये दानधर्म के अर्थवाद में अ० ४ में मनुजी ने लिखा है कि (चारिदस्तृप्तिमाप्नोति) प्याऊ आदि द्वारा जलदान करने वालेको तृप्तिफल प्राप्त होता है। इस प्रकार जब जल का गुण तृप्ति है तब प्रश्नकर्त्ता समाजी महाशय से यह पूछना चाहिये कि यदि मद्य गांजा भांगादि सेत्रियों की तृप्ति उसी से हो जाती है तो वे लोग अन्यों से भी अधिक भोजन क्यों करते हैं ? जब मद्यादि से उनर की तृप्ति होती ही नहीं तब उन की तृप्ति के लिये मद्यादि देने का प्रश्न भी निरर्थक हो गया। द्वितीय जिस शरीर ने मद्यादि का अभ्यास किया था वह यहीं पञ्चभूतोंमें मिलगया अब जन्मान्तरमें जो शरीर मिला है वह यदि कर्मानुसार पशुयोनिके अन्तर्गत है तो समाजी को बताना चाहिये कि पशु पक्षी आदि को मद्यादि पीने की उत्कट इच्छा होती है वा नहीं ? ॥

२२ प्रश्न— जिन जातियों का श्राद्धाधिकार नहीं है उन के पितर

दूसरोंसे छीन भूषणकर खाते या भूखे रहते हैं ? उन विचारोंके दिन कैसे व्यतीत होते होंगे ?

उत्तर २२-ऊपर वीसवें प्रश्नके साथ यह प्रश्न पुनरुक्तदोषग्रस्त है इस लिये स्वयं लपिडित हो गया । जब हम लिख चुके हैं कि श्राद्ध करने का अधिकार सभी जातियों को है तथापि समाजी मन में प्रविष्ट जो २ ब्राह्मणादि लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते उनके पितर अपने २ पुत्रों को कोसते गालियां दिया करते हैं भोजनादि मिलने की आशा न होने से दुःखित भी होते हैं तथापि भूखों नहीं मरने पाते, क्योंकि सनातनधर्मियों के पितरों के पास पुष्कल भोजनादि सामान पटुंच जाता है और सनातनधर्मों पितर दयालुभी होते हैं इससे अपने भोजनमेंसे थोड़ा २ देकर भूखों मरने वाले समाजी आदि धाद्धविरोधियों के पितरों की भी वृत्ति कर देते हैं शेष विचार वीसवें प्रश्न के समाधान में देखो । इससे जिनके पुत्रादि श्राद्धनहीं करते उन को भी छीन भूषण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो भी अन्यो का मुन्न देखने पड़ने से वे लोग दुःखित रहते हैं ॥

प्रश्न २३-श्राद्ध करने का कोई नियत देश है वा सर्वदेश है यदि सर्व देश है तो गया में क्या विशेषता है ? । यदि कोई नियत देश है तो जिन में श्राद्धाधिकार नहीं है वहां के पितर भूखे प्यासे मरते वा दूसरे मुल्कोंको धावा लगाते होंगे या दूसरे पितरों पर डाका डालते होंगे क्योंकि पेट पापी है चाहें सो करावे धरावे ? (बुभुक्षितः किं न करोति पापम्) भूखा क्या २ पाप नहीं करता है ? ॥

उत्तर २३-वास्तवमें यह प्रश्न अत्यन्त वेत्तमन्हीसे किया गया है क्योंकि वीसवें प्रश्नमें किये जाति विषयक प्रश्नमें ही यह बात आ जाती है कि भूमण्डलके सब प्रदेशोंमें ही प्रायः सब मनुष्य जातियों का निवास है यदि सब जातियोंके मनुष्योंकी श्राद्धका अधिकारमान लिया गया तब सब देशोंमें श्राद्ध करना सिद्ध हो गया । विशेष कर

इस प्रश्नमें निर्वुद्धिना यह है कि जो २ पदार्थ वा काम सामान्यतया सब देशोंमें व्याप्त हैं वे ही कहीं २ विशेषरूपसे भी विद्यमान हैं जिस के अस्संख्य उदाहरण सत्सारमें विद्यमान हैं । जैसे अग्नि वायु आदि पदार्थ सर्वत्र व्याप्त हैं परन्तु ज्वालामुखी पर्वतादि स्थानों में अग्नि विशेष रूप से आविर्भूत है, सव पृथिवी में सुवर्णादि निकल सकते हैं पर जहां थोड़े परिश्रम से सुवर्ण अधिक निकल सकता है वहां विशेष कर सुवर्ण माना जाता है । इसी प्रकार सव काम सव स्थानों में हो सकने पर भी जो काम जिस प्रदेशमें उचित साधन मिलने से वा विशेष फलोभूत होनेकी सम्भावना से अच्छे प्रकार हो सकते हैं वहां वे काम विशेष कर किये जाते हैं । इसीके अनुसार श्राद्ध का सर्वदेश होने पर भी गयामें श्राद्ध की विशेषता यह है कि (गयशिरसीत्यौर्णवाभः) निरुक्त ग्रन्थमें लिखा है और्णवाभ आचार्य कहते मानते हैं कि गय नामक असुरके शिर पर विष्णु भगवान्ने एक पग रख्खा था जिससे पिचल कर वह असुर जहां मर गया वही विष्णु पदका चिन्ह अष्टनक गयामें माना जाता है । गय नामक असुर के कारण तीर्थका नाम गया नगरी हो गया । जो लोग गया श्राद्ध करने जाते हैं वे अब भी विष्णुपद पर पिएडदान किया करते हैं । गयामें श्राद्धका अधिक वा-विशेष फल होना वेदादि शास्त्रसम्मत है और वहां विशेष फल होनेपर भी सर्वत्रका सामान्य श्राद्ध खण्डित नहीं होता । जब ऐसे विचारों को समाजी लोग भी मानते और मानने पड़ता है तब श्राद्ध विषयमें वैसे शंका उठानेका हेतु अज्ञान ही सिद्ध है । वास्तवमें किसी न किसी रूपान्तरसे श्राद्ध को संसार की सभी जातियां मानती और करती हैं कोई यवनादि मृतक के स्मारकमें कुछ भोजनादि कंगालों को देते हैं कोई स्मारक चिन्ह पाठशाला कालिज स्कूलादि मृत के नाम से बनवाते हैं । जैसे दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल वा डी० ए० बी० कालिज इत्यादि । यदि कोई पुरुष कहे कि उन मृतकों को भोजन वस्त्रादि पहुंचने के उद्देश से वे लोग स्मारकादि नहीं बनवाते तो वे वैसे.

उद्देश से अवश्य श्राद्ध करते । विश्वास वा ध्यान नास्तिकता के कारण नहीं है इस से यह दाव उन्हीं का है क्योंकि मृत प्राणी से प्रेम होने के कारण सुख पहुँचाने को सभी लोग अच्छा तो अवश्य मानते हैं इन्हीं से मानने हैं इसा से करते लिखते हैं कि ईश्वर मृत प्राणी को सद्गति देवे ॥

प्रश्न २४-जीव की जीवनी दशा के उत्सव दिनों को छोड़ श्राद्ध के लिये क्षयाह नियत किया गया यह बड़ा असमझल है क्योंकि इस जीव को जब घोर क्लेश का स्मरण आता है तब इसका खाना पीना सब छूट जाता है फिर मरण क्लेश को स्मरण करके जीव रोता होगा वा श्राद्ध पाने की आशा करता और आनन्द मानता होगा ॥

उत्तर २४-इसमें भी प्रश्न कर्ता की बड़ी बेसमझी इस लिये है कि आर्य समाज लोग स्वा० दयानन्दजीकी जीवित दशाके किसी भी उत्सव दिन में अपने समाजों का उत्सव नहीं करते किन्तु जिस नगरके समाजो महाशय प्रश्न करते हैं उसी इटावा नगर में ठीक दिवाली के दिन समाज का चार्किंग उत्सव किया जाता है उत्सव के समय अनेक प्रकार समाजो लोग आनन्द मानते हैं और दिवाली के उत्सव का स्वा० दयानन्द जी का स्मारक मानते हैं यह वास्तव में स्वा० द० जी का क्षयाह श्राद्ध स्थानी है । इसमें बड़ा असमझल प्रश्नकर्ता को क्यों नहीं होता ? । क्योंकि जब स्वा० दयानन्द नाम रूपावच्छिन्न जीवका मरण समय के घोर क्लेश का स्मरण समाजियों के उत्सव द्वारा होता होगा तब क्या स्वा० दयानन्द का खाना पीना नहीं छूट जाता होगा ? और क्या मरण क्लेश स्मरण कर २ स्वा० द० नहीं रोते होंगे ? तथा वैसे भयानक समय में उत्सव मानने वाले समाजियों को क्या गालियाँ नहीं देते होंगे ? वा आनन्द मानते होंगे । पाठक ? देखिये ? प्रश्न के सब अंश समाजो पर लीट कर ऐसे ही आगड़े जैसे आकाश में फेंकी धूलि फेंकनेवाले पर ही आ पड़ती है ॥

अब हम सनातन धर्मियों के पक्ष में इसका समाधान देखिये । सनातन धर्मियों का मन्तव्य वा सिद्धान्त यह है कि—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कारएवच ।
 जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ गीता
 अवेक्षेतगतीन् नृणां कर्मदोषरुमुद्भवाः ।
 निरयेचैवपतनं यातनाश्रयमक्षये ॥ २ ॥
 विप्रयोगंप्रियैश्चैव संयोगंचतथाऽप्रियैः ।
 जरयाचाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ३ ॥
 देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भचसम्भवम् ।
 योनिकोटिसहस्रेषुसृतीश्यास्यान्तरात्मनः ॥ ४ ॥

अर्थ—गीता में कृष्ण भगवान् कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध नाम इन्द्रियों के विषयोंमें नित्य दोषदर्शी होता हुआ परमार्थी पुरुष चित्तमें वैराग्य उत्पन्न कर अहङ्कार को त्यागे और जन्म मरण वृद्धावस्था तथा रोगसे होनेवाले घोर भयानक दुःख रूप दोषों का चार २ स्मरण द्वारा ध्यान दृष्टि से देखना ज्ञान कहाता है । मनुजी अ० ६ में कहते हैं कि अपने अपने निन्दित बुरे कर्मोंसे होनेवाली नरक भोगादि कर्म गतियोंको, नरक में पतन को, यमराजके इजलास में होनेवाले भयङ्कर दण्डों को, प्रिय स्त्री पुत्र पौत्रादि से होनेवाले वियोग दुःख को, अप्रिय शत्रु आदि के संयोग से होनेवाले दुःखों को, वृद्धावस्था के दुःखों को और रोग पीडाओं को, इस शरीरके छाड़नेमरने के दुःखोंको, फिर गर्भवास में होनेवाले दुःख को, और सहस्रों प्रकार की दुःखप्राय योनियों में इस जीवके चार २ जन्म धारणके दुःखोंको ध्यान दृष्टि से स्मरण कर कर के चार २ देखा शाब्द करे । ऐसा करने से मनुष्य अधर्म से बचकर धर्म में चित्त देकर विषयों में न फँसता हुआ ज्ञान वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष का भागी बन सकता है । इसलिये सनातन धर्म के नियमानुसार मृत्यु आदि समय के दुःखोंका चार २ स्मरण करना बड़ा उपयोगी है । आश्चर्य करनेवाला सनातन धर्मों पिता का क्षयाह आश्चर्य करता हुआ शोचता मानता है कि आज पिताजी की संसारयात्रा पूरी होने का दिन है

हे पितः ! आप इस अन्नरूप मेरे इस तुच्छ उपहारको स्वीकार करो आप की सद्गति ही मेरी सुगति का हेतु है जिस प्रकार बाज के दिन आप ने इस बसार संसारको छोड़ा था वैसे ही एक दिन मुझे भी इस सब को छोड़ना अवश्य पड़ेगा इस लिये दयालु आप मुझे अधर्म से बचा कर धर्म में तत्पर होने का वरदान दीजिये । इसी के अनुसार (दातारो नोऽभिवर्द्धन्तां०) इत्यादि वरदान मांगनेका विचार तृतीयाध्याय के श्राद्ध प्रकरण में मनुजी ने कहा है । अभिप्राय यह है कि मरण दुःख का वार २ स्मरण होना मनुष्य के लिये शास्त्र कारोंकी आज्ञानुसार बड़ा उपकारी है उससे विरुद्ध उलट्टा समझना यह समाजियों के मतानुसार तो ठीक है क्योंकि जो श्रुति स्मृति आदि शास्त्र से विरुद्ध है उसी का नाम समाजी मत है । हम प्रश्न कर्त्ता समाजी से पूछते हैं कि क्या घोर मरण क्लेश का समाजियों में जिस किसी को जब कभी स्मरण आता है तब क्या खाना पीना सब छूट जाता है ? । अर्थात् कदापि नहीं इस से यह बात मिथ्या है सैकड़ों को स्मरण आता है उससे उदासीनता कुछ नहीं होती क्योंकि प्रायः सभी मनुष्यों का चित्त विषयों में आसक्त है इस मरण आदि जन्य दुःख का स्मरण उनको विषय वासनासे हटा नहीं पाता परन्तु परमार्थी पुरुषोंको वार २ किया स्मरण ज्ञान वैराग्यका पोषक हो जाता है इसी लिये गीता और मनुस्मृति आदि में मरण दुःखका स्मरण करना लिखा है ।

प्रश्न २५—कन्यागत सूर्यों में मरनेके दिन नियत नहीं किये गये, जो सब जीव इन्हींमें मरें तो फिर श्राद्ध करनेकी क्या विशेषता है ? ।

उत्तर २५—यह भी प्रश्न अज्ञान प्रसूत होकर वा मदमत्त होकर लिखा जान पड़ता है । सभी मनुष्य कन्यागत सूर्य में मरें, ऐसा जब हो ही नहीं सकता तो मरनेके वे दिन कौन नियत करता ? और क्यों करता ? यदि असम्भव काम के होने का नियम हो सकता है तो समाजी लोग ही वैसे करके दिखावें । जब सब जीव इन्हीं कन्यागत दिनोंमें नहीं मरते और न मरसकते हैं तब कन्यागतमें श्राद्ध करने की विशेषता प्रश्नकर्त्ता के लेखानुसार भी सिद्ध होगई । अथ

रहा सनातन धर्म का मन्तव्य, सो यहां के पूर्वज महर्षियों ने स्पष्ट ही कन्यागत श्राद्धकी विशेषता मानी है पाणिनि मुनिने स्वयं कन्यागत श्राद्ध की विशेषता जानी और मानी थी—

श्राद्धे शरदः । ४ । १२ । श्राद्धेऽभिधेये शरच्छ-
ब्दाच्छैषिकपृञ् प्रत्ययो भवति । ऋत्वणोऽपवादः ।
श्राद्ध इति कर्म न श्रद्धावान् पुरुषोऽनभिधानात् ।
इति काशिका । शरदि भवं शारदिकं श्राद्धम् । भक्त्या
क्रियमाणं पित्र्यं कर्मेत्यर्थः । श्रद्धावान्पुरुषस्तु न गृह्य-
तेऽनभिधानात्—इति सिद्धान्तकौमुद्याम् ॥

अर्थ—शरद् शब्द से श्राद्ध अर्थ में शैषिक ऋ. प्रत्यय होता है । इससे शरद् ऋतु नाम कन्यागत सूर्यमें होने वाले श्राद्धका शारदिक नाम पड़ता है । भक्ति पूर्वक किया हुआ पितृकर्म यहां श्राद्ध पदका अर्थ लेना है श्रद्धावान् पुरुषका नाम भी श्राद्ध है पर वह शारदिक शब्दसे उक्त न होनेके कारण यहां नहीं लिया जाता—इससे सिद्ध है कि पाणिन्यादि आचार्योंने भी शरद् ऋतुके कन्यागत श्राद्ध में विशेषता मानी है । तथा स्वामी दयानन्दजीने भी प्रमाणकोटिमें परिगणित किये सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थमें लिखा है कि—

ततःशेषाणिकन्याया यान्यहानितुषोडश ।

ऋतुभिस्तानितुल्यानि पितृभ्योदत्तमक्षयम् ॥

अर्थ—कन्याराशिके अन्तिम सोलह दिनोंमें ऋतु-पितरोंके निमित्त जो पिरुडदान वा ब्राह्मणोंका भोजनादि दिया जाता है उससे पितरों की अक्षय तृप्ति होती और श्राद्धकर्त्ताको अग्निप्रोमादि यज्ञ करनेके तुल्य फल होता है इस कारण कन्यागत सूर्यके शेष सोलह दिनों में श्रद्धा, भक्ति और प्रीति पूर्वक श्राद्ध करना चाहिये ॥

प्रश्न २६—क्षयाहःश्राद्धमें पायस खीर देनेसे यदि चर्प भर पितृजन तृप्त रहते हैं तो बीचमें (कन्यागतमें) उत्तका श्राद्ध करना उन्हें बीमार घनाना है । पेसी अवस्था में पितरों का औषध कौन देता

होगा ? बिना औषध पितर बिनारे महा क्लेश भोगते होंगे क्योंकि अजीर्ण रोगका मूल कारण है (अजीर्ण रोगस्य मूलकारणम्) ॥

उत्तर २६-तुष्टि होनेका अर्थ वा अभिप्राय हम पहिले प्रश्नों के समाधान में प्रतिपादन कर चुके हैं कि कोई मनुष्य किसी के साथ ऐसा महोपकार करे कि जिसे घट उपकार्य न भूले और चार २ स्मरण करता हुआ उपकारक पर सन्तुष्ट प्रसन्न हूँ रहकर धन्यवाद दिया करे तो ऐसी दशांशमें क्या उपरुत समाजी का पुनर्चार बही वा अन्य कोई उपकार करे तब समाजी को अजीर्ण हो जाता है ? तब क्या समाजी लोग डाक्टर को बुनाकर दवा बिया करतें हैं ? स्वा० दयानन्दजीको अनेक लोगों ने चार २ भेंट आदिके रूपसे धन दिया केवल सोलह हजार ५० मरण समय तक स्वा० द० ने कर पाया था परन्तु चार ७ हजार संग्रह होने के पश्चात् अन्य रुपया अने पर स्वा० द० जी को अजीर्ण रोग क्यों नहीं हुआ ? । डी० ए० वी० कालिज लाहौर के लिये ३२ वर्षसे प्रतिवर्ष चन्द्रा जमा किया जाता है थयतक लाखों ५० हो जाने पर भी अजीर्ण क्यों नहीं होता ? । इसी के अनुसार यहां भी जानना चाहिये कि श्राद्ध एक पुण्य कर्म है उस का पुण्य फल पितरोंको पहुंचता है स्थूलाश्र के पिण्ड वा पार्थिव्यांश के भोज्य स्थूल पदार्थ द्राह्मण खाया करते हैं उस पुण्यरूप फल से अजीर्ण कैसे होगा ? प्रश्नकर्ता समाजी भी जानते हैं कि स्थूलाश्रको पितर आंकर खाते हैं ऐसा कोई भी नहीं मानता तो अजीर्णका प्रश्न कैसे हो सकता है ? ॥

प्रश्न २७-वर्ष ऋतु आश्विन (कार) मास में जब नदी, नाले, तालाब, भील; पोखरे पानीसे लवालव भर होते हैं तब जल दान-तर्पण करनेकी क्या आवश्यकता है ? और ग्रीष्म ऋतु जेठ वैशाख में जलदान क्यों नहीं करते ? ॥

उत्तर २७-वेद का दम भरने वाले समाजी ने अज्ञानवश वेद से विरुद्ध इस प्रश्नमें लिखा है । चैत्र वैशाख दो मासको वसन्त और आश्विन कार्तिक दो मासको शरदऋतु रूप में कहा है वैसे ही अर्थ स्वा० दयानन्द जीने भी किया है । देखा शु० यजु० अ० १३ । २५ । अ० १४ । ६-१५ । १६ ।

अधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृत् । नभश्च नभस्यश्च
वापिकावृत् । इयञ्चोर्जश्च शारदावृत् ॥

अर्थ—मधु, चैत्र, माधव, वैशाख, वसन्त ऋतु, शुक्र, ज्येष्ठ, शुचि, आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, नभस्, श्रावण, नभस्य भाद्रपद वर्षा ऋतु और इय आश्विन, ऊर्ज कार्तिक शारद् ऋतु कहाते हैं। पाठक ! देखें कि समाजी ने वैशाखको ग्रीष्म और आश्विन को वर्षा ऋतु लिखा है सो साफ २ वेदविरुद्ध है क्या आप लोगोंके पूछने पर समाजी इस का उत्तर दे सकेंगे ? अर्थात् कदापि नहीं। शोधनेका स्थान है कि जिस समाजी को यह भी बोध नहीं कि किस २ महीने का कौन २ ऋतु होता है वह श्राद्ध जैसे वेदोक्त गर्भार विषयमें कुतर्करूप प्रश्नकर्त्ता बने ? समाजियोंके लिये लज्जित होनेका स्थान है । आश्विन मासमें नदी, तालाब आदि लवालवा नहीं भरते किन्तु प्रायः घटजाते हैं यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। द्वितीय जब कोई ऐसा मानता ही नहीं कि जब सर्वत्र जल सूख जावे तब तर्पण करना उपकारो है न ऐसा किसी शास्त्र में लिखा किन्तु श्राद्ध तर्पण विधायक श्रुति स्मृति पुराणों में सर्वत्र नित्य २ तर्पण करना लिखा है और प्रायः धर्म कर्म के प्रेमी सनातनधर्मो वैसा ही करते भी हैं अर्थात् ज्येष्ठादि सभी महीनों के सभी दिनों में तर्पण कर्त्तव्य है। यदि सर्वसाधारण सनातनधर्मो लोग प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण नहीं करते किन्तु कन्यागत में विशेष कर करते हैं तो सर्वदा न करना मनुष्यों का दोष है शास्त्र का नहीं और जो कन्यागत में भी श्राद्ध तर्पण नहीं करते उनसे कन्यागत सूर्य में विशेष मान करने वाले भी अच्छे हैं ॥

प्रश्न २८—क्या “तृप्यन्ताम् २” कहने से पितरों को जल मिल जाता है ? यदि ऐसा हो तो किसान अपने २ पुरोहितों को जल के पास बैठा कर गाजर मूरी तृप्यन्ताम् २। गेहूँ बैकर तृप्यन्ताम् २ कह कर अपने २ खेत क्यों नहीं सहज ही में सींच लिया करते हैं ? क्यों बृथा लिहड़ी डोल पुर चलाते, कुआ बावड़ी बग्घा नहर खदाने हैं ? ॥

उत्तर २८-जब स्वा० दयानन्द जी ने सन् ७१ वाले सत्यार्थ प्रकाश में लिखा छपाया था कि जो २ मर गये हों उनके नाम से तर्पण अवश्य करे और जो २ जीवित हों उनका तर्पण न करे और " ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ,, इत्यादि तर्पण के वाक्य पहिले से अथ तक छपते जाते हैं, तब समाजियों ने दयानन्द जी से क्यों नहीं कहा कि "तृप्यन्ताम् २ ,, कहने से जल मिल जावे तो हम भी वार्पिकोत्सवादि के समय समाजियोंको जल प्याने वाला कोई न रखें और एक समाजी जल लेकर बैठ जावे और पृथिवी पर जल गिराता हुआ कहता जावे " सभी नमस्ते तृप्यन्ताम् "। धुना जुलाहे तृप्यन्ताम् । सांप्रतिक सत्यार्थ प्र० में भी (तृप्यन्ताम् २) अब भी छपता है सो क्यों ? और संस्कारविधि में लिखे अनुसार अप्सव्य हो दक्षिण को मुख कर (पितरः शुन्धध्वम्) कह कर भूमि पर जल छोड़ने से पितर लोग यदि शुद्ध हो जाते हैं तो समाजी लोग स्नान करना छोड़ दें और एक समाजी दक्षिण को मुख कर पृथिवी पर जल छोड़ता हुआ कहता जावे, मुंशी तुलसी शुन्धध्वम् । शर्मा वर्मा शुन्धध्वम् " इस प्रकार कह २ कर सब को शुद्ध कर लिया करे स्नानादि क्यों कराते हो ? उक्त प्रश्न का हमारे पक्ष में समाधान यह है कि गौह आदि के खेतों के सींचने की रीति लोकसिद्ध है जिस २ रीति से सुभीता देखते हैं वैसा २ सींचने का उपाय कर लिया करते हैं इसमें धर्मशास्त्र वा वेद की आवश्यकता नहीं है परन्तु पितृगण और पितृलोक परोक्ष विषय है परोक्ष विषय में कर्तव्य को बताने वाला वेद है । जब हमने मान लिया कि वेद जो कुछ कहता है कि ऐसा करो वही धर्म है तब हमको कुतर्क उठाने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वेद के सैकड़ों प्रमाणों द्वारा स्नान पुरुषों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना सिद्ध हो चुका है । वास्तव में वेदों के नाम का वहाना करते हुए आ० समाजियों द्वारा संसार को धोखा दिया जा रहा है कि हम वेद को मानते हैं । सत्य बात यह है कि वेद के मन्तव्य विषयों का खण्डन द्वारा वेदका मूलोच्छेद

खरडन आर्यसमाज द्वारा हो रहा है इसलिये अब हम उक्त प्रश्नों का समाधान यहीं समाप्त करते हैं ॥

इटावा वाले प्रश्नों के टुकट के अन्त में पब्लिशर ने छपाया है कि "जीते माता पिता की अन्न जलादि विन तरसाते और मरों के सुखार्थ पिएड भराते हैं" इत्यादि का उत्तर यह है कि 'सनातनधर्म का मन्तव्य है कि जीवित माता पिताकी देवता बुद्धिसे श्रद्धा भक्ति के सहित सेवा शुश्रूषा करनी चाहिये तदनुसार अनेक सुपुत्र करते भी हैं और मरणानन्तर भी श्राद्ध तर्पण द्वारा उनको सुख पहुँचाते हैं। अब रहे कोई २ ऐसे भी कुपुत्र होने' सम्भव हैं जो जीवित माता पिता को दुःख दें ता यह उनका दोष है सनातनधर्म का दोष नहीं है जब सनातन धर्मियों में ऐसा कोई नियम वा लेख ही नहीं है कि जीवित माता पिताको अन्न जलादि से तृप्त न करें किन्तु सब प्रकार से माता पितादि को सुख पहुँचाने की स्पष्ट आज्ञा है। तब ऐसा लिखना सरासर अज्ञान है। आर्यसमाजियोंमें भी माता पिता की सेवा शुश्रूषा का नियम नहीं संकड़ा लड़के समाजी बनकर अपने २ सनातनधर्मों माता पिताको अज्ञानों मूल पोपजी आदि शब्दों से लूग करते हैं उचित सेवा करने वाला कोई भी समाजी नहीं दीखता। अन्तमें एक बात यह भी लिखी है कि पितृ शब्दका अर्थ जन्मदाता वा विद्यादाता है सो यह भी व्याकरण कौशादिसे विरुद्ध है क्योंकि श्राद्धादि पितृयज्ञ प्रकरण में वह अर्थ नहीं घट सकता वहाँ सम्बन्धी मृत मनुष्य पुत्रादि तक पितर कहते हैं। जीवात्माका मरण पश्चात् किसीसे नाता रिश्ता नहीं रहता यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि साधुओं पतिव्रता स्त्रीको पतिलोककी प्राप्ति मनुजी ने लिखी है इस कारण सूक्ष्म शरीरके साथ नाता रिश्ता अवश्य शास्त्र सम्मत होनेसे मन्तव्य है। जीवात्मा शब्द (नैवस्त्री०) पद्यमें नहीं किन्तु शुद्धात्मा चिप्य में वह पद्य है आवागमन सूक्ष्म शरीर का होता है उसके साथ नाता रिश्ता अवश्य रहता है। अन्य शरीर धारण करनेसे श्राद्धका खरडन नहीं होता क्योंकि पितृयोनि

प्राप्त करना भी एक शरीर है। यहाँ तक हमने इटावा वाले भी सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया।

अब अनेक फुटकर प्रश्नों के बहुविध समाधान श्राद्ध विषय में और भी दिखाने हैं। किन्हीं २ प्रश्नोंके उत्तर कई प्रकार से लिखे गये हैं पाठक लोग उन सभी प्रकारोंको ठीक समझें। यदि किसी उत्तर में पुनरुक्ति हो तो उसे अनुवाद रूप समझिये।

‘क्या ब्राह्मणों के पेट लेटरवक्स हैं उन में खाया अन्न पितरोंको कैसे पहुंचा जाता है?’ यद्यपि इसका उत्तर पहिले भी लिखा गया है। तथापि अब फिर प्रकारान्तरसे समाधान लिखते हैं कि ब्राह्मणों का खायाहुआ अन्न लोकान्तरस्थ वा देशान्तरस्थ पितरोंको पहुंचाना शास्त्रकारोंका अभीष्ट सिद्धान्त नहीं है। यदि किसी ब्राह्मणको निमन्त्रण देकर अपने घर आकर सत्कारपूर्वक भोजन करानेको बुलाया जाय तो इससे यह सिद्ध होजायगा कि उसके घर पर भोजन भोजना वा पहुंचाना अभीष्ट नहीं है। और जिन ब्राह्मणोंके यहाँ कुछ भोज्य वस्तु मिठाई परोसा वा सीधा भोजना अभीष्ट हाता है उनको निमन्त्रण देकर अपने यहाँ नहीं बुलाया जाता। इसी के अनुसार पितृ-यज्ञों और श्राद्धों में वेद मन्त्रों द्वारा पितरों का आवाहन होना स्पष्ट सिद्ध है। जब वेद हम को साफ २ पितरोंके आवाहनको बतला रहा है तो परोसादि के तुल्य पितरोंके पास लोकान्तरमें देशान्तर में वा किसी योन्यन्तरमें अन्न पहुंचाना अभीष्ट नहीं है यह सिद्ध होगया।

आयन्तुनः पितरः सीम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथि-
भिर्देवयानैः। अस्मिन्त्यज्ञे स्वधयामदन्तोऽधिब्रुवन्तु
तेऽवन्त्वस्मान् ॥ अग्निष्वात्ताः पितरसहगच्छतसदः
सदः सदतमुप्रणीतयः । अत्ताहवीश्चिप्रयतानिब-
र्हिष्यथारयिश्च सर्ववीरं दधातन ॥

शु० यजु०-। अ० १६ । ५८ । ५६ ॥
सर्वास्तानग्र आवहपितृन्हविषेअत्तत्रे ॥ अथर्व०

भाषा—सोम यागादिमें पूजने योग्य अग्नि में जिन का दाह कर्म विधिपूर्वक हो चुका है ऐसे दिव्य पितर-देवयान नाम देवताओं सम्बन्धी आकाशमार्ग से आधे । पहिले जब श्राद्ध को मानते थे तब खा० ६० ने भी पार्वण श्राद्ध की पद्धति ख्यं बनाई थी (जिसकी नकल हमारे पास अब भी विद्यमान है) उसमें भी यही (आयन्तुः०) मन्त्र पितरों के आवाहन में लिखा है, अग्नि में जिनका दाह कर्म हो चुका है ऐसे हे अग्निष्वात्त पितरों ! यहां श्राद्ध वा पितृयज्ञमें आइये । हे नम्र कोमल स्वभाष वाले पितरो ! आप लोग इस यज्ञ में आकर अपने २ नियत स्थान पर बैठिये । और विधि के साथ कुशों पर रखे हुए पिरडों का भोग लगाइये । और पुत्र पीत्रादि धीरों सहित धन-हमारे लिये दीजिये । हे अग्निदेव ! उन सब प्रकार के पितरों को हविष्यान्न रूप पिरड खानेके लिये हमारे श्राद्ध में आवाहन कीजिये, इत्यादि मन्त्रों से श्राद्ध आदि के समय पितरों का आवाहन करना वेद से सिद्ध है । इसीके अनुसार मनुजी ने भी लिखा है कि-

निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् ।

वायुवज्जानुगच्छन्ति तथाऽऽचीनानुपासते अ० ३। १८८

भाषा—जिन ब्राह्मणोंको श्राद्धमें न्योता दिया जाता है उनके समीप में पितर लोग उसी निमन्त्रण के समय से उपस्थित हो जाते हैं यदि वे ब्राह्मण कहीं चलते हैं तो उनके पीछे २ वायुरूप होकर पितर भी चलते और जब वे ब्राह्मण बैठ जाते हैं तब पितर भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं । ब्राह्मण के साथ आने वाले पितर जिनका अत्युग्र प्रचल पुण्य हो तो साक्षात् दीख भी सकते हैं । रामायण में लिखा है कि जब भगवान् रामचन्द्र जी ने वन में अपने पिता दशरथजी का श्राद्ध किया था उसमें जो न्योते हुए ऋषि लोग आये उन के साथ २ महाराजा दशरथ जीके आत्त देखकर सीताजी आइं में हो गयीं । अर्थात् सीता जी ने साक्षात् महाराज दशरथको देखा था यह मनु जी के ऋथन का उदाहरण इतिहास में लिखा है ।

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । !
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥

मनु० अ० ३

जय तक श्राद्धका अन्न गर्मागर्म रहता, जयतक ब्राह्मण लोग मौन होकर खाते हैं और जय तक यजमान के पूछने पर भी ब्राह्मण लोग प्रत्युत्तरमें भोजनकी प्रशंसा नहीं करते तभीतक पितर लोग ब्राह्मणों के संगमें वायु रूप सूक्ष्म हुए भोजन करते हैं । पाठक महाशय ! आप समझ गये होंगे कि पितरोंका श्राद्ध में आना पिण्डों का तथा ब्राह्मणोंके साथ भोजन करना प्रमाण सिद्ध है । इसीलिये पितरोंको श्राद्ध का फल कैसे पहुंचता है इसका विचार ग्रन्थों में नहीं लिखा गया । और पितरोंके पास हमारा पहुंच सकना अति कठिन वा असम्भव था परन्तु श्राद्धादि में देवता और पितरों का आ सकना सुगम वा सहज है क्योंकि वे लोग समर्थ और हम असमर्थ हैं इसी लिये यह सिद्धान्त वेदमें रक्षित गया कि देवता तथा पितर लोग यद्य श्राद्धादिमें आवाहन किये हुए आवें ॥

यदि कोई कहे कि देव पितर आते हुए हमें दीख पड़ें तो हम मानें तब हम उत्तर देंगे कि क्या दिन में उल्लू को नहीं दीखता तो सयके लिये अन्धकार मान लो ? । वेदशास्त्र रूप आंखोंसे देवों तथा पितरोंका सूक्ष्म यथेच्छाचारी होना तथा यज्ञादिमें आना दीख सकता है सो वेदरूप चक्षु स्वा० द० ने सब समाजियों के ऐसी दवा डालके फोड़दिये कि जिसमें अन्य भी कोई दवा नहीं लगती । देवों और पितरों का सूक्ष्म कारण शरीरधारी योगसिद्धियुक्त होना क्षण मात्र में लाखों कोश आ जा सकना अपनी इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर सकना इत्यादि बातें युक्तिसे भी सिद्ध होसकती हैं जिनको फिर किसी अवसर पर लिखेंगे । यह पहिले प्रश्नका उत्तर होगया ।

अब द्वितीय शंका यह है कि सृष्टिके आरम्भमें पितरोंको ब्रह्मा जीने बनाया वा पहिले ही से थे ।

इसका संक्षेप से उत्तर यह है कि प्रत्येक ब्राह्म दिनके अन्त में

होने वाले कालिक प्रलय में देवता और पितरों का प्रलय ही नहीं होता केवल मानुषी सृष्टिका प्रलय होता है । दिव्य पितर सना-
नन कालसे लगे आते हैं । प्रजापतिके पास पितरों आदिके जानेकी
आख्यायिका उन २के कर्मका भेद दिखानेके लिये है कि परमात्माने
इन सबके कर्म इस २ प्रकार नियन्त्रण कर दिये हैं । महा प्रलयमें अवश्य
सब ब्रह्मा पर्यन्त देवताओं का भी प्रलय हो जाता है तिस के बाद
फिर होने वाली सृष्टिमें वे ही देव पितर मनुष्य फिर २ प्रकट किये
जाते हैं जो पहिली सृष्टिमें देव पितर आदि रहे थे । इसीसे यह शंका
भी दूर हो सकेगी कि मनुष्य मरकर पितरों में जाके मिलता है वा
यहां पृथिवी पर जन्म लेता है । इनका संक्षेप उत्तर यह भी है कि
आम तीर से कोई नियम नहीं अपने २ कर्मानुसार स्वर्ग नरक देव
पितर मनुष्य पश्यादि योनि सबको मिलती है ॥

जो २ मनुष्य लोग अपने २ कर्मानुसार पितृयोनि में जाने योग्य
होते हैं । उनके भी कर्म मनुष्यादिके तुल्य ऐसे अवश्य मानने होंगे
कि जिनका फल भोग पितृयोनिमें उनकी प्राप्त होना चाहिये । सो
जैसे मनुष्योंको अपने २ पूर्व कर्मोंके शुभाशुभ फल मित्र स्त्री पुत्रादि
द्वारा ही प्राप्त होते हैं । वैसे पितरोंको भी अपने कर्मोंका शुभ फल
अपने अंश रूप पुत्रादि द्वारा प्राप्त होता है । यदि कही कि पुत्रादि
के किये श्राद्ध का फल तो पितरों को मिल गया तो पुत्रों को क्या
मिला ? क्या पुत्रादि का परिश्रम वा समय व्यर्थ हो गया ? तब उ-
त्तर यह है कि कोई पुरुष राजा रहस वा शुक महात्मा को प्रसन्न
करने का उद्योग करता है यदि उस पर वह राजादि प्रसन्न हो जावे
तो वह मानलेता है कि मेरा परिश्रम सफल हो गया । वैसे यहां
भी पितरों को प्रसन्न संतुष्ट करना ही मुख्य उद्देश है । और प्रस-
न्नता का परिणाम सर्वत्र यही है कि जो जिस पर प्रसन्न होता
है वह उसके वांछित मनोरथोंको भी पूर्ण करता है । वैसे ही प्रसन्न
हुये पितर लोग धन धान्य आरोग्य विद्या सन्तति धर्ममें रुचि आदि
करा के पुत्रादि को प्रतिफल द्वारा सन्तुष्ट प्रसन्न कर देते हैं इस से
पुत्रादि को अपने किये कर्म का शुभफल मिल जाता है ।

शंका—यह तो माना परन्तु बड़ी शक्ती तो यह है कि पिता पुत्र का सम्बन्ध तो शरीर के साथ है जीवने साथ नहीं, तो जब शरीर छूट गया तो वह शरीर महातत्त्वोंमें मिल गया । जीवने अपने कर्मा-नुसार कहीं जन्म ले लिया तब पिता के साथ कुछ सम्बन्ध न रहने से जब पुत्र के लिये श्राद्धादिका फल पितृ शरीर वाले जीवको कैसे प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् कदापि नहीं फिर मृतक श्राद्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ।

समाधान—इसका उत्तर अधिक सूक्ष्मता की ओर जा सकता है उसको यथासम्भव बचाया जायगा । संसारमें जड़ चेतन वा प्रकृति पुरुष दो अंश मुख्य हैं । प्रकृति पुरुष के मेल का नाम संसार और परस्पर सम्बन्ध का छूट जाना मोक्ष वा परमार्थ है । जीव जब तक जन्म मरण के चक्र प्रवाहमें रहता है तब तक प्रकृतिका सम्बन्ध उस के साथ है प्रकृति का सम्बन्ध ही पञ्चतत्त्वका सम्बन्ध है । ईश्वरके साथ भी प्रकृतिका सम्बन्ध अवश्य लगा है क्योंकि प्रकृति सम्बन्धी ऐश्वर्य का स्वामी नाम मालिक होनेसे ही वह ईश्वर कहाता है । केवल भेद यही है कि जीव प्रकृतिके आधीन और ईश्वर प्रकृतिके आधीन नहीं है किन्तु प्रकृति ईश्वर के आधीन वा अधिकारमें है । मनुष्यादि प्राणी जब मरता है तब उसका स्थूल शरीर छूटजाता है वही पञ्चतत्त्व में मिल जाता है पर सूक्ष्मतत्त्वों का शरीर जो कि स्थूल में सारांश रूप होके विद्यमान था वह जीव के साथ जन्मान्तरमें जाता है । वास्तव में यह बड़ी भारी भूल है कि पिता पुत्र सम्बन्ध स्थूल शरीरोंके ही साथ है सूक्ष्मके साथ नहीं ऐसा मानना । क्योंकि पिता पुत्र सम्बन्ध मुख्य कर सूक्ष्मके साथही है स्थूलके साथ वैसा नहीं इसी लिये पिता के शरीर का सूक्ष्म सारांश आकर ही पुत्ररूप बनता है । यदि कहो कि जड़ के साथ सम्बन्ध है चेतन के साथ नहीं तो यह भी भूल है जड़ चेतन दोनों के साथ है केवल जड़ के साथ नहीं है । जड़ चेतन दोनों अत्यन्त मिले हुए हैं । जैसे भांग वा अफीम में नशा वा अग्नि में गर्मी जलमें शीतलता वैसे ही जड़

में चेतनाश मिला है। कहीं प्रकट और कहीं अप्रकट है। वैसे शरीरों में नशा आदि के तुल्य सब धातुओंमें चेतनाश जो व्यापक है वह भी गर्भाधानके समय रजवीर्यके साथ जाता है। यदि कोई ऐसी रीति होती कि मुर्दा शरीरसे सन्तान पैदा होते तब तो पिता पुत्र सम्बन्ध केवल स्थूल शरीरों से ही है ऐसा कह सकते थे। सो मुर्दा होने पर शरीरों में रजवीर्य रहते ही नहीं। इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसे भांग के साथ ही नशा भी रहता है वैसे ही रजवीर्य के साथ माता पिता का चेतनाश भी सन्तान में जाता है। तभी तो श्रुति स्मृति में कहा यह विचार भी ठीक घटता है कि—

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्रनामासि सजीवशरदःशतम् ॥

यह वेदमन्त्र निरुक्तादिमें लिखा प्रसिद्ध है कि हे पुत्र ! तू मेरे अङ्ग अङ्गसे पैदा हुआ है। अर्थात् मेरे हाथ पांच आंख नाक कान आदि अङ्गोंके अंशसे तेरे हाथ पांच आदि पैदा हुए हैं। और (हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुतदेहिनाम्) चेतनता का स्थान जो मेरा हृदय है उससे तेरा चेतन हृदय हुआ है। इस कारण हे पुत्र ! तू मेरा ही आत्मा नाम स्वरूप है अर्थात् मैं ही तेरे पुत्र नाम रूप में प्रकट हुआ हूँ। सो तू सौ वर्ष तक जीवित रहे ऐसी प्रार्थनामें दैव से करता हूँ। जैसे सूत ही कपड़ा रूप हो जाता है वैसे पिता ही अपनी पत्नी रूप कलके द्वारा पुत्र रूपसे प्रकट हो जाता है। यही बात मनुस्मृति में भी स्पष्ट करके लिखी है। मनु० अ० ६ श्लोक ८।

पतिभार्यासंप्रविश्य गर्भाभूत्वेहजायते ।

जायायास्तद्विजायात्वंयदस्यांजायतेपुनः ॥

अर्थः—पति ही अपनी स्त्री में रज वीर्य के साथ सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गर्भ रूप बनके पुत्र नाम से प्रकट होता है। जिस कारण पुरुष स्त्री में जायते नाम प्रकट होता है इसीसे वह स्त्री उस पुरुषकी जाया कहाती है। इत्यादि अनेक प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि माता पिता का ही चेतनाश भी सन्तान में जाता है इससे

स्थूल शरीर के साथ ही पिता पुत्र सम्बन्ध नहीं किन्तु सूक्ष्म चेतन शक्ति के साथ वास्तविक पिता पुत्र सम्बन्ध है। स्थूल शरीर तो पिता पुत्र सम्बन्ध की कार्यवाही को दिखाने का करने का द्वार है। यदि पिता पुत्र दोनों के चित्तसे सम्बन्ध किसी कारण निवृत्त होजाये दृष्ट जाये तो स्थूल शरीरों के विद्यमान रहने पर भी सम्बन्ध टूट जाता है। और यदि चेतन चित्त में सम्बन्ध बना तथा दोनोंका दृष्ट प्रेम लगा है तो एक पिताका शरीर न रहने पर भी सूक्ष्मका सूक्ष्मके साथ सम्बन्ध बना रहता है। इस ऊपर के लेखका सारांश यह हुआ कि प्रकृति का सूक्ष्म सारांश आत्म चेतन्य युक्त जीव कहता है उसका भी अंश पिताके शरीर से पुत्र में जाता है। और जन्मान्तर से दूसरा जीव जो पुत्रमें जाता है वह भी अत्रादि के द्वारा पिताके शरीर में थाकर उसके चेतनांशको लेता हुआ ही शुक्र के साथ गर्भमें जाता है और स्थूल सूक्ष्मका अज्ञान्तर सम्बन्ध सिद्ध ही है कि जैसा गुडके साथ मिष्ट रसका सम्बन्ध है। इससे सिद्ध हुआ कि जीवके साथभी पिता पुत्र सम्बन्ध है।

और यह भी नियम है कि जैसे पृथिवी में एक ही जगह नीम और आम दोनों को दिये जायें तो नीमका सम्बन्ध कड़ुपपनके साथ होने से पृथिवी में व्याप्त कड़ुपपन के अंश को नीम का वृक्ष दूर से भी खींचेगा और दूर २ का भी कड़ुवापन नीम के साथ आन्तरिक सम्बन्ध होने से स्वयमेव खिन्न आवेगा। परन्तु नींबके बति समीप्य भूमि में जो आमका मीठा अंश होगा उसको नींबका वृक्ष कदापि नहीं खींचेगा। क्योंकि उसके साथ उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। यही बात चात्स्यायन ऋषिने न्याय दर्शन अ० १ भा० २ में स्पष्ट कही है।

यस्ययेनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापितस्यसः ।

अर्थतोह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम् ॥ १ ॥

अर्थ-जिसका जिसके साथ भीतरी सम्बन्ध है वह दूरस्थ होने परभी उसी अपने सम्बन्धी का है। और जिनका परस्पर सम्बन्ध

नहीं उनका एकत्र होना मेल का कारण नहीं है। इसीके अनुसार जिन जीवों का पिता पुत्रादि सम्बन्ध है उनके परस्पर दूर होजाने पर भी अर्थात् पिताके मरजाने पर भी उनका परस्पर भीतरी सम्बन्ध वा आकर्षण बना है। इसी कारण पितृ रूपधारी वसु रुद्र और आदित्य देवता श्राद्धके पिण्डों वा ब्राह्मण भोजन के सूक्ष्म सारांश वासनारूप तत्त्व को लेकर वहाँ २ पहुँचते हैं कि जिस २ लोकस्थ जिस २ योनि में वे पिता पितामह वा प्रपितामह विद्यमान हैं श्राद्धांश भी भीतरी सम्बन्ध होनेसे स्वत एव उधर ही को आकर्षित होता है पितर लोग भी अपने अंश को स्वयं भी खींचते हैं। जैसे कि आकाश मण्डलस्थ नीले पनकेसाथ धुआँका भीतरी अंशांशी कार्य कारण सम्बन्ध होने से पृथिवीसे उठा धुआँ स्वयमेव अपने सम्बन्धी के पास जाता है और आकाश मण्डलस्थ सूक्ष्म कारण जल भी उन धूम का आकर्षण करता खींचता है। इसीके अनुसार पुत्रादिकेकिये श्राद्ध कर्मका सूक्ष्मवासनारूप फलभी वसु, रुद्र और आदित्य देवताओंकी व्यापक शक्तियोंके द्वारा पितरोंका सम्बन्धी होनेसे लोकान्तरस्थ वा देशान्तरस्थ पितरोंके पास दोनोंके आकर्षणसे स्वयमेव पहुँच जाता है अर्थात् वास्तवमें तो वखादि रूपोंसे आवाहित पितर श्राद्ध में आते हैं। पर जहाँ २ देवादि योनियों में उन २ के अनुकूल अमृतादि रूप से श्राद्धका फल पहुँचना लिखा है उसका अभिप्राय यही पूर्वोक्त है कि उन मृत पुत्रोंका जहाँ २ कर्मानुसार जन्म हुआ है उस २ योनि में उनको वखादिके द्वारा आकर्षण के साथ श्राद्ध का परिणाम रूप उन २ के अनुकूल भक्षणीय वस्तु प्राप्त होता है आशा है कि उक्त दृष्टान्तों के अनुसार श्राद्ध का फल पितरों को पहुँच जानेकी रीति प्रयत्नकर्त्ता और पाठक महाशयोंके ध्यानमें ठीक २ बैठ जायंगी।

पर यह अवश्य ध्यान रहे कि जिनके कुछ कर्म अच्छे होते हैं उन्हींके अच्छे कर्मानुसार मरण समयसे लेकर ही पिण्डदानादि सब कर्म श्राद्धसे करने वाले भी पहिले से ही तैयार हो जाते हैं। उसी श्राद्धकर्मके अनुसार उनका जन्म पशु पक्षी कीट पतंगदि नीच योनियों में नहीं होता किन्तु उन को पितृलोकादि में उत्तम योनि ही

प्राप्त होती है। मरने पश्चात् जिनका श्राद्धादि ठीक होना है उन को भी यदि नीच योनि ही प्राप्त हो तो श्राद्ध का होना न होना एकसा होजाय। चाहे यो कहे कि मरण के बाद जिन का श्राद्धादि कर्म होता है उनको उत्तम गति होनेका वही कर्म चिन्तनरूप है। इसलिये पशु पक्षी आदिमें उनके जन्म होने और श्राद्ध का फल घास आदि रूप होकर मिलनेकी शक्ती वहाँ नहीं हो सकती ॥

प्रश्न—कल्पना करो एक मृत पुरुष कर्मान्तर किन्ही के यहाँ भी भोजन आदि पशु बन और उन के लिये किया श्राद्ध लड्डू, जलेबी आदि ब्राह्मणको जिनाये उनके बदले नौ भैंस आदि रूपधारी पितरोंको भिगा घास भूसा, तो क्या यह अन्धेर नहीं है कि सुवर्ण के बदलेमें ताँबा मिले। फिर यह पशु के स्वामी का पला, पशु का दुग्धादि फल स्वामीको भिला इससे हमारा क्या लाभ हुआ? तो क्या भोग? और हम उन के निमित्त श्राद्ध न करें तो क्या पशु का स्वामी पशु का घास नहीं करेगा। जैसे कंदधानों में भी कंदो को भोजन मिलता है वैसे स्वर्ग नरक में भी वहाँ २ के नियत भोग अवश्य मिलेंगे यदि न मिले तो वे स्वर्ग नरक ही कैसे होंगे ऐसी दशा में हमारा किया श्राद्ध व्यर्थ क्यों नहीं है ॥

उत्तर—संक्षेप से उक्त प्रश्न का उत्तर यही है कि भोजनके स्वाद लगने में सुख है किन्तु जलेशी आदि में नहीं, पशु को घास में भी यह स्वाद मिलता है पशु के स्वामी का सम्बन्ध विशेष कर पशु शरीर से ही शरीर भोगाधिष्ठान है श्राद्धकर्ता का सम्बन्ध भोक्ता जीव से है इससे श्राद्धकर्ता पशु योनि से जीव का उद्धार करता है वह उद्धार को प्राप्त हुआ जीव अपने जन्मान्तरीय श्राद्धकर्ता का उद्धार करता है यही फल है तथा पशु पक्षी आदि मनुष्याश्रित कोई जीव ऐसे सुखी दीखते हैं जितना सुख गरीब मनुष्यों को भी प्राप्त होना दुर्लभ है और अनेक पशु चारा भी ठीक न मिलने तथा दुःखित रहने से ही मर जाते हैं वहाँ ऐसा क्यों नहीं मान लिया जावे कि 'जिन' के जन्मान्तरीय पुत्रादि श्राद्ध करते हैं वे पशु योनि प्राप्त होने पर भी सुखी हैं और वही श्राद्ध उनको पशु योनि से छुड़ा के उत्तम दशा में

पहुंचाने वाला होगा जैसे मनुष्य योनि में सुख दुःखादि के सहस्रों भेद हैं वैसे ही स्वर्ग नरकों में भी सुखों वा दुःखों के अनेक भेद हैं । जिनका श्राद्ध यहां होता है उनको नरक में भी अनेकों की अपेक्षा कम दुःख मिलेगा । यद्यपि जेल में सामान्य नियत भोजन कंदियों को मिलता है तथापि कैदी के मित्रों को भोजन पहुंचाने का राजा की ओर से निषेध न होना तो जेलखानेकी अपेक्षा से उत्तम कंदियों के अनुकूल भोजनादि कैदी के घर वाले अवश्य पहुंचाते, आश्ना न होने से नहीं पहुंचा सकते । यदि जेल के कर्मचारियों को गुप्त रीति से कुछ दे दिला कर पहुंचा सकते हैं तो कहीं २ वैसे होता भी होगा पर ईश्वरीय व्यवस्थाके स्वर्ग नरकों में उपदानाम [विश्वत वा घूस] नहीं चलती इससे खुले मैदान श्राद्ध द्वारा उनको वर्त्तमान दशा से उच्च २ सुख भोग पहुंचाने का मार्ग वेदों द्वारा ईश्वर ने ही श्राद्धरूप से नियत किया है । स्वर्गलोकों में भी ब्रह्मलोक वा सत्यलोक पर्यन्त उच्च नीच सहस्रों भेद हैं । सम्राट् महाराज के पाचक की वा उनके अन्य कर्मचारियों की छोटे २ राजा भी विनती करें यह हो सकता है वैसेही देवताओंके परिचारकगण भी स्वर्गीय माने जावेंगे । पर उच्च कक्षाओं की अपेक्षा से उनको अपना लघुता का दुःख भी रहेगा तथा मनुष्यादि की अपेक्षा अत्यन्त सुखी होने से वे स्वर्गीय सुखमागी भी माने ही जावेंगे । श्राद्ध करने का प्रयोजन केवल यह नहीं है कि श्राद्धके चिन्ता वे भूखों मरेंगे खाने को न मिलेगा किन्तु मुख्य अभिप्राय यही है कि भोजनादि सभी प्रकार सुख प्राप्तिके लिये हम को आगे बढ़ना चाहिये अर्थात् अपनेको और अपने बड़े चाप दादों को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना चाहिये सो जैसे अपनी उन्नति के लिये दृष्ट अदृष्ट फल वाले सहस्रों उपाय वेदादि शास्त्रों द्वारा हमें बताये गये हैं वैसे मृत चाप दादादि की उन्नति के लिये भी वेदादि शास्त्रों ने श्राद्धादि उपाय विशेष कर इस लिये बताये हैं कि स्वर्ग नरकादि की भोग योनियां कर्मयोनि न होनेसे उनमें उन्नति के साधन प्रायः नहीं हो सकते इससे श्राद्धादि कर्म मोक्ष पर्यन्त उन्नति में पहुंचाना है ॥

(प्रश्न) जिनने यज्ञ दान तप आदि कर्म अपने जीवन में यज्ञे समारोह से तथा प्रबल परिश्रम से किये हों और उनके श्राद्धादि कर्म करने वाला कोई पुत्रादि न हो वा हो तो श्राद्धादि न करे तब क्या उनको उत्तम स्वर्गादि फल प्राप्त नहीं होगा क्या वे नीच गति में जायेंगे ? ।

उत्तर—यज्ञादि कर्म करने वाले का सन्तान ऐसा तो हो नहीं सकता जो नास्तिकतादि के कारण श्राद्धादि न करे । क्योंकि सर्वथा कारण से विरुद्ध कार्य होना नहीं । हां यह हो सकता है कि पुत्रादि न हो वा हो भी तो इतना छोटा हो जो तत्काल ठीक कर्म न कर सके अथवा दान चौराग्य के कारण-विरक्त होजाने से श्राद्धादि न करे । प्रयोजन यह है कि कुछ हो जिसके यज्ञ दान तप आदि कर्म प्रबल हैं उसका श्राद्ध करने वाला कोई न हो वा होकर भी किसी कारण श्राद्ध न कर सके तो भी उसको अपने कर्मानुसार उत्तम स्वर्गफल अथवा प्राप्त होजाता है ।

(प्रश्न) जिसके उत्तम यज्ञदानादि कर्म हैं उनके यदि श्राद्ध करने वाले पुत्रादि भी हों और श्राद्ध भी करें तो यह व्यर्थ हुआ कि नहीं ? क्योंकि उनको तो अपने कर्मानुसार उत्तम फल स्वर्गादि विना श्राद्ध के भी प्राप्त हो ही जायगा जैसा कि तुमने अभी ऊपर स्वीकार किया है ॥

(उत्तर) हम इस प्रश्न का समाधान पहिले लिख चुके हैं कि जैसे राजा शुरु पिता आदि धन धान्यादि पदार्थों से पूर्ण होने पर भी प्रजा शिष्य और पुत्रादि की समर्पण की भेंट से प्रसन्न सन्तुष्ट होते हैं आशीर्वाद वरदान देते हैं । अर्थात् राजा के पास किसी वस्तु की कमी न होने पर भी कुछ समर्पण के द्वारा प्रजादिकी भक्ति राजादि चाहते हैं । वैसे ही स्वर्ग में प्राप्त हुए पितादि भी अपने अंश पुत्रादि की भक्ति चाहते हैं । और इस बात को यहीं क्यों न शोच लो कि तुम्हारे पास आमदनी होने पर तथा किसी कक्षा तक धन होने पर भी और अधिक २ घनादि तुम क्यों चाहते हो ? खाने पीने के पदार्थ विद्यमान होने पर भी और अधिक २ पदार्थों को मनुष्य

लोग प्रत्यक्ष में प्रायः सभी चाहते हैं। केवल पूर्ण योगी सर्वथा विरक्त पुरुष अवश्य नहीं चाहते। जब कि सभी भागों के विद्यमान होते भी अधिक २ भोग सब चाहते हैं तो वैसे ही स्वर्गस्थ पितादि के पास उत्तम भोग उपलब्ध होने पर भी यदि वेदानुकूल धर्मानुकूल श्राद्धादि का अमृत रूप फल वे अधिक २ चाहते हैं तो आश्चर्य वा अनुचित ही क्या है!। अथवा इस बात को ठीक २ समझने के लिये द्वितीय प्रकार यह भी हो सकता है कि यहां संसार में अच्छे परिहृत विद्वान् धर्मात्मा महात्मा लोग होते हैं वे अपने पुत्रादि का धर्मात्मा होना सब कामों से अधिक चाहते हैं और पुत्रादि के धर्मात्मा होने से सर्वोपरि सन्तुष्ट वा प्रसन्न होते हैं। और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान ही मनुष्य के धर्मात्मा होने का बड़ा चिन्ह है। इसी के अनुसार देवता और पितर लोग जो स्वतः सिद्ध मनुष्य से भी बहुत अधिक विद्वान् महात्मा हैं वे अपने अंशरूप पुत्रादि की वेदोक्त श्राद्धादि कर्म के द्वारा अपने तुल्य उत्तम गति चाहते हैं।

इस बात की देवता और पितरों को बड़ी उत्कट इच्छा होती है, इस इच्छा के पूर्ण न होने पर उनको इसका बड़ा दुःख रहता है और उन की इच्छानुसार यदि पुत्रादि वेदोक्त यज्ञ श्राद्धादि कर्म करते हैं तो अपने मनोरथ को पूर्ण होते देख अत्यन्त प्रसन्न संतुष्ट होते हैं। और प्रसन्नता ही सुख वा सुफल प्राप्ति का चिन्ह है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वर्गस्थ पितादि की प्रसन्नता और अपना कल्याण दोनों उद्देश्य से वेदोक्त श्राद्धादिक कर्म पुत्रादि को करना चाहिये। जब संसार में कोई मनुष्य अपने शुभ गुणों वा विद्यादि के अनुसार कोई बड़ा अधिकार प्राप्त कर लेता है तब भी उस की यह आकाङ्क्षा विशेष कर रहजाती है कि मेरे पुत्रादि भी ऐसे ही उत्तमाधिकारी बनें यदि वैसे नहीं बनते तो यह दुःख भी उस उत्तमाधिकारी को अवश्य खटकता है वैसे ही यहां देवता और पितरों में भी जानो।

जगन्मोहन वर्मा कहते हैं कि पितृयज्ञ होमान्तकृत्य का नाम है और पितृदान उससे भिन्न कृत्य है उनका यह कहना सर्वथा युक्त

प्रमाण से शून्य है जगन्मोहनजी जिस कर्मको पितृयज्ञ समझते और लिखते हैं उसका नाम पितृयज्ञ है ही नहीं किन्तु उसका सर्व सम्मन नाम पिण्डपितृयज्ञ है इस पिण्ड पितृयज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण कां० २ । प्र० ३ वा० ४ की चौथी कण्डिकाओं में साफ २ किया गया है । तथा इसी पिण्डपितृयज्ञका वर्णन कृष्णयजु० के तीसरीय ब्राह्मणमें दर्शपीठमासेष्टिके पश्चात् आरम्भ में ही आया है वहां यह भी लिखा है कि (तुनीये वा इनां लोके पितरस्तानेव प्रीणाति) यहाँ से तीसरे लोक में पितर रहने हैं उन्हीं को पिण्डपितृयज्ञ द्वारा यजमान नम करता है । कातीय श्रौत सूत्र अ० ४ की प्रथम कण्डिका के ३१ एकलौल सूत्रों में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन है । सूत्र १—
अपराह्णे पिण्डपितृयज्ञश्चन्द्रादर्शनेऽसावास्वायासु ॥

अर्थ—जब चन्द्रमा, न दीये उस। असावास्याके दिन मध्याह्नोत्तर पिण्ड पितृयज्ञ करे । यहाँ स्पष्ट मूल सूत्र में ही पिण्डपितृयज्ञ नाम लिखा है । तथा—शापस्तम्बीय श्रौतसूत्रके प्रथमाध्यायकी सातवीं कण्डिकाके आरम्भमें पहिला सूत्र यह है कि—

असादास्यायां यदहश्चन्द्रमसं न पश्यन्ति तदहः

पिण्ड—पितृयज्ञं कुरुते ।

इस सूत्रमें भी इस कर्म का नाम ही पिण्डपितृयज्ञ रक्खा गया है । तथा कातीय श्रौतसूत्रके भाष्यमें कर्काचार्यादि लिखते हैं कि—

पिण्डपितृयज्ञ इति वक्ष्यमाणस्य कर्मणः समा-
नसंज्ञा सा च पिण्डदानपदार्थस्यैवार्थानुगमात् पिण्डैः
पितॄणां यज्ञः पिण्डपितृयज्ञइति । अतश्च हीमजपा-
दयस्तदङ्गम् । प्रयोजनं चिन्तायाः पिण्डदानस्याकरणे
अभ्यावृत्तिः । न हीमादेः । कातीयश्रौतसू० अ० ४
कां० १ सू० १ ॥

अर्थः—पिण्डपितृयज्ञ यह कण्डिका-भर में कहे कर्मका अर्थानु-
कूल नाम है क्योंकि इस कार्यमें पिण्डदान मुख्य है । पिण्डोंके द्वारा

जो पितरोंका यज्ञ नाम पूजन किया जाता है उसका नाम पिण्डपितृयज्ञ है इससे उस के साथमें होने वाले होम जपादिसब अङ्ग नाम शौण है पिण्डदान मुख्य अङ्गी है । इस बातका विचार भाष्यमें इस लिये किया गया है कि-पिण्डदान न करे तो उस कर्मको सर्वथा न हुआ मानकर फिरसे सब कृत्य करे और होमादि किसी कारण छूट जाय तो फिरसे कर्म नहीं किया जायगा किन्तु उसका प्रायश्चित्त हो सकेगा । इसीके अनुसार शाङ्खायनकल्प और कटसूत्रादि में पिण्डपितृयज्ञ कर्म की संज्ञा होने के प्रमाण मिल सकते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि पितृयज्ञ और पिण्डदान दो कर्म भिन्न २ नहीं हैं । अब यह भी विचार सुनिये कि पितृयज्ञ संज्ञा किस कर्मकी है । एक तो पञ्चमहायज्ञोंमें नित्यकर्मका नाम स्मार्त्त यां गृह्य पितृयज्ञ है जैसा आश्वलायनगृह्य० । अ० ३ क० १ ।

देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ।

तथा मनु० अ० ३ में लिखा है कि-(पितृयज्ञस्तुतर्पणम्) इसी प्रकार पारस्करगृह्यसूत्रादि में भी जानो । पर स्मरण रहे कि इस पितृयज्ञमें सभीके मतानुसार पितरों के नामसे भूतवलियोंसे दक्षिण में एक पिण्ड अपसव्य होके दिया जाता है उतने ही कर्म का नाम पितृयज्ञ है वा मनुजीकी रायमें पितरोंके तर्पणका नाम पितृयज्ञ है । ब्राह्मण को भोजन वा होम का नाम यहाँ पितृयज्ञ कहापि नहीं है क्योंकि इस प्रसंगमें अर्थात् पञ्चमहायज्ञोंमें ब्राह्मणको भोजन कराने का नाम मनुष्ययज्ञ वा अतिथियज्ञ तथा अग्निमें होम का नाम देवयज्ञ है । इस से पितरों के नाम पिण्डादि रूप से अन्नजल देने मात्र कर्मका नाम पितृयज्ञ सिद्ध है । द्वितीय चातुर्मास्य यज्ञों के साकमेध पर्व में होम और पिण्डदानादि सब कृत्य के तीन नाम हैं १ पितृयज्ञ २ महापितृयज्ञ और ३ पित्र्या इष्टि । प्रयोजन यह निकला कि कातीय श्रौत सू० अ० ४ क० १ । में लिखा कर्म पितृयज्ञ और पिण्डदान दो प्रकारका नहीं और न उसका नाम पितृयज्ञ है किन्तु ऊपर लिखे अनुसार वह कर्म पिण्डपितृयज्ञ कहाता है ॥ इस से जगन्नीहन जी

की लिखनेमें सर्वथा भूल होना सिद्ध है। अग्निका नाम वेद में हव्य वाहन और कव्यवाहन ठीक है इसमें कुछ विवाद नहीं है। "पिण्ड दानके विषय में अथर्व्य कह सकता है कि यह विवाद नवीन नहीं चरम प्राचीन कालसे चला आता है," जगन्मोहन जी का यह कथन एक अंशमें लें तब तो ठीक है कि नास्तिक लोग भी प्राचीन कालसे ही चले आते हैं (मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेतृत्तिकारणम्) इत्यादि नास्तिकोंने श्राद्धादि सभी कर्मोंका खण्डन किया ही है पर अनुमान है कि उक्त महाशयका अभिप्राय यह नहीं है किन्तु वे नास्तिक ऋषियों में पिण्डदान पर विवाद मानते हैं सो यह सर्वथा असत्य है। आगे जगन्मोहनजी लिखते हैं कि "जातृकर्याचार्यजी पिण्डदान को नहीं मानते और कहते हैं कि मृतक के निमित्त दान नहीं हो सकता,, सो यह लिखना सर्वथा मिथ्या है इस में कुछ भी सत्य नहीं। इस को स्पष्टता के लिये हम कातीय श्रौत सूत्र यहां क्रमसे लिखते हैं।

प्रैतेभ्यो ददाति ॥ २३॥ सू० । भा०—यत्पितृप्रभृ-
तिभ्योदानमुक्तं तत् प्रैतेभ्यो मृतेभ्यः पितृपितामह-
प्रपितामहेभ्यो ददाति न जीवद्भ्यः । सू०—जीवपितृ
कोऽपि ॥२ ४ ॥ भा०—पिण्डपितृयज्ञेऽधि क्रियते ॥-
सू०—जीवान्तर्हितेऽपि ॥ २५ ॥ भा०—जीवपितृकस्य
जीवेन पित्रादिना अन्तर्हितेऽपि व्यवहितेऽपि पिता-
महादौ पिण्डदानं भवति । सू०—जीवपितृकस्य हो-
मान्तमनारम्भोवा ॥ २६॥ भा०—जीवपितृकस्य यज-
मानस्य होमान्तमेव पिण्डपितृयज्ञसंज्ञं कर्म भवति ।
अथवाऽनारम्भएव पिण्डपितृयज्ञस्य, वा शब्दः पूर्व-
यज्ञनिरासार्थः । अत्रानारम्भपक्षएव युक्तः । यतः
पिण्डदानं प्रधानम् । तदभावे होमस्याङ्गभूतस्यानुष्ठानं

न घटते ॥ सू०—न व्यवेते जातूकर्यो न जीवन्तम-
 तिददातीति ॥ २७॥ भा०—जीवपितृकस्य होमान्तं कर्म
 कुर्वतो यतो जातूकर्यं आचार्यो न व्यवेते—जीवता
 पित्रा व्यवहिते पितामहादौ पिण्डदानं न भवतीत्याह
 कुतो न भवतीत्यत्र हेतुः न जीवन्तमतिददातीति
 शाखान्तरे श्रवणात् । अतः प्रधाने पिण्डदाने जीव-
 पितृकस्य निषिद्धेऽनारम्भएव घटते न होमान्तता ॥

आपार्थः—पूर्व जो पिता आदिके लिये पिण्डदान कहा है सो मरे
 हुये पितादि के नाम से देना चाहिये । यदि कोई जीवित हो तो उसके
 नाम से न देये । जिस का पिता जीवित हो उसको भी पिण्डपितृयज्ञ
 करने का अधिकार है । जीवित पिता को बीच में छोड़ के भी मरे
 हुए पितामहादि के नाम से पिण्डदान हो सकता है जिसका पिता
 जीता हो वह होमान्त पिण्डपितृयज्ञ करे । यहां तक तो पूर्व पक्ष का
 विचार है । यहां से आगे उत्तरपक्ष सिद्धान्त का विचार चलता है
 कि जिसका पिता जीवित हो वह पुरुष यदि अग्नि को स्थापित भी
 करले तो भी पिण्डपितृयज्ञ कर्मका आरम्भ ही न करे । होमान्त कर्म
 करने पर उम्रमें पिण्डदान न होनेसे उसका नाम पिण्डपितृयज्ञ होही
 नहीं सकता । जैसे कि विवाह में कन्यादान और पाणिग्रहण न हो
 तो केवल अङ्गरूप गौण घरपूजनादि करना सर्वथा व्यर्थ है । वैसे ही
 होमान्त कर्म भी व्यर्थ है । इस लिये अनारम्भ पक्ष ही सिद्धान्त
 है क्योंकि पिण्डदान प्रधान अङ्गी है उसके न होने पर गौण होमका
 करना नहीं घटता । जीवित पिता को बीच में छोड़कर पितामहादि
 के नाम से पिण्डदान नहीं हो सकता ऐसा जातूकर्यं आचार्य कहते
 हैं क्योंकि किसी शाखामें श्रुति है कि (न जीवन्तमतिददाति) जी-
 वित पिता को उल्लंघन कर पितामहादि को पिण्डदान नहीं करना
 चाहिये इस से सिद्धान्त यह निकला कि जिसका पिता जीवित हो
 उसको न होमाज्ञत और न पिता को छोड़के अन्योंके नाम पिण्डदान

कुछ भी न करना चाहिये । धव आशा है कि पाठक लोग तथा जगन्मोहन जी इस प्रकरण का अभिप्राय समझ गये होंगे । “जातूकर्याचार्य पिरडदान को नहीं मानते कि मरों के लिये दान नहीं हो सकता” यह जगन्मोहनजीका कहना सर्वथा निर्मूल है । इस प्रकरण में केवल इस बातका विचार किया गया है कि जिसका पिता जीवित हो उस को मरे हुए पितामहादि के नाम से पिरडदान करना चाहिये वा नहीं उसका निर्णय (फसला) जातूकर्याचार्य ने भी शास्त्रान्तरीय श्रुति का प्रमाण देकर यही किया है कि उस पुरुष को पिरडदान वा पिरडपितृयज्ञ का कुछ भी कृत्य नहीं करना चाहिये । और जगन्मोहनके विचारका इस प्रकरणमें कहीं नामनिशान नहीं है ।

आगे (पितृन् वर्द्धिपदो यजति) इत्यादि तैत्तिरीय ब्राह्मण के वाक्यों में कोई एक भी शब्द नहीं जिस से जीवितों का श्राद्ध सिद्ध हो और ऐसा भी कोई शब्द नहीं जो मृतक श्राद्ध में न घट सके । जैसे कोई मनुष्य विवाह और यज्ञोपवीतकी प्रक्रियाको सर्वथा ही न जानता हुआ उस प्रकरण के किसी एक दो वाक्योंको कल्पसूत्रादि से ले आगे और दावा करे कि विवाह वा उपनयन के ये वचन तो मृतक में घट सकते हैं इस लिये विवाह मरोंका होना चाहिये । घंसे ही यहां भी जानो । हम बृह प्रतिशाके साथ दावा करके लिखे देते हैं कि यदि वह पुरुष दृष्टी नहीं है तो कल्पसूत्रों को कुछ काल तक किसी विद्वान् के पास पढ़े और महापितृयज्ञ तथा पिरडपितृयज्ञ सम्यन्ध की सब श्रुतियों और सूत्रों को ठीक समझ ले तो कदापि लेशमात्र भी संन्देह न रहेगा और जीवित का श्राद्ध कहने वालों की बुद्धि पर ऐसे ही हंसेगा जैसे मरों के विवाह को कोई हंसे । तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त वचन चातुर्मास्य यज्ञों के साकमेध पर्वान्तर्गत महापितृयज्ञ प्रकरण के हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण के इसी महापितृयज्ञ प्रकरण में लिखा है कि—

मृतीये वा इतो लोके पितरस्तानेव प्रीणाति॥तै ब्रा०

उदन्वती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा ।
तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥ १ ॥

अथर्व सं० कां० १८ अनु० २ मन्त्र ४८ ।

अर्थ:—इस पृथिवी लोक से तीसरे लोक में (वै) निश्चय कर पितर रहते हैं उन्हीं व हंपदादि पितरों को यजमान इस महा-पितृयज्ञ में वृत्त करता है तथा अथर्ववेद संहिता में लिखा है कि मेघों वाला पहिला आकाश उदन्वती द्यौ कहाता है उससे ऊपर मध्यम आकाश भाग पीलुमती द्यौ कहाता है । तथा उससे भी ऊपर का लोक प्रकृष्ट अधिक प्रकाश वाला होने से तीसरा प्रद्यौः कहाता है उसी तीसरे प्रद्यौ नामक लोकमें पितर रहते हैं । तथा सिद्धान्त शिरोमणि में लिखा है कि (विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्ति) विधु नाम चन्द्रमा के ऊपरी भागमें पितर बसते हैं । क्या ये तीसरे लोकमें रहने वाले जीवित मनुष्य हो सकते हैं ? कदापि नहीं । बहिर्पद् पितर वे हैं जो दर्शपूर्णमासादि हविर्यज्ञ कर चुके तथा जिनने ये यज्ञ नहीं किये किन्तु स्मार्त्ताग्नि सम्बन्धी होमादि किये हैं वे अग्निवात्त हैं । मनुष्य की जीवित दशामें जिनने श्रौत स्मार्त्त यज्ञ किये वे पीछे बहिर्पदादि कहाये । इस प्रकार मरोंमें ही यह प्रकरण ठीक घटेगा जीवितों में नहीं । क्योंकि जीवित मनुष्य यहांसे तीसरे लोक में नहीं रहते किन्तु पृथिवी में ही रहते हैं । अब रहा वाल्मीकीय रामायण में जावाल का खण्डन करना सो जब वा० रामायण के वे श्लोक प्रमाण पते सहित सामने उपस्थित किये जायंगे कि वा० रामायणके अमुक कांडके अमुक सर्गमें यह लिखा है तब हम उस पर कुछ विशेष लिख सकते हैं । अभी केवल इतना ही लिखते हैं कि जावाल ऋषि वा महर्षि वहां कदापि नहीं लिखा होगा । ऋषि महर्षि श्राद्धका खण्डन करे यह कदापि सम्भव नहीं है । एक नाम का एक ही पुरुष नहीं होता किन्तु एक ही समय तथा भिन्न २ समय में एक नाम के अनेक पुरुष होते हैं उनमें किसी नास्तिक जावाल ने श्राद्ध तर्पणका खण्डन किया होगा । क्या उस

खण्डन को मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीभगवान् रामचन्द्र, जो नै ठीक मान लिया था ? यदि नहीं मान लिया तो ऐसा खण्डन अब भी तो सहस्रों आर्यसमाजी करते हैं पर कोई आस्तिक सनातनधर्मी तो उसे ठीक नहीं मानता सारांश यह है कि आस्तिकोंमें पिण्डदान पर कभी न मतभेद था और न कभी विवाद हुआ ॥

जातूकरण्याचाय ने तो पिण्डदानका खण्डन कियाही नहीं जैसा पूर्व लिख चुके हैं तब जावाल जातूकरणके अनुयायी कैसे हो सकते हैं । महाभारत में पिण्डदानका खण्डन नहीं किया । रही ब्राह्मण भोजन की प्रधानता सो हमें भी स्मार्त्त-श्राद्ध में स्वीकृत है कि केवल शुद्धाचारी ब्राह्मणका यथाविधि पूजन कर भोजन करा तथा दक्षिणा दान देनेसे भी श्राद्ध होसकता है पर वही भी श्राद्धका मृतकोद्देश होना अवश्य माना जायगा जैसा कि—

निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्तितान्द्रिजान् ।

वायुवज्जानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥

मनु अ० ३ श्लो० १८६ में लिखा है कि जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमन्त्रण दिया जाता है उनके साथ पितृलोक वासी सूक्ष्म पितर उपस्थित होते हैं उनके चलते समय वायु के तुल्य पीछे चलते और बैठ जाने पर बैठ जाते हैं । इस कारण मृतकोद्देश से ब्राह्मण भोजन मात्र भी श्राद्ध माना जायगा । पर जिस में पिण्डदान और ब्राह्मण भोजन दोनों कृत्य विधि पूर्वक हों उस श्राद्ध से केवल ब्राह्मण भोजनरूप श्राद्ध निकट कक्षाका अङ्गहीन अवश्य माना जायगा क्योंकि मनु आदि धर्मशास्त्र में दोनों का साथ ही विधान है । पत्रिक श्राद्ध भी मृतकोद्देश से सभी लोग शास्त्रानुकूल जानते मानते हैं । जगन्मोहन जी वेस्ती आदि के विद्वानों से इर्थाक कर लें । वेदमन्त्रों के अर्थ आज तक किसी ऋषि वा आचार्यने जोचित श्राद्ध परक नहीं किये तब अङ्गहीन पुरुषों के अर्थ को कोई आस्तिक कैसे मान लेगा ? । वेद मन्त्रों का अर्थ ईश्वर वादके खण्डन का कोई करे तो जगन्मोहन जी उसे क्या ठीक मान लेंगे ? । यदि मानेंगे तो वैसे ही यहाँ भी जान लेंगे ॥

सारंश यह निकला किं श्राद्ध संदा से सत्र ऋषि महर्षियों की एक रायसे मरों के लिये सनातन से चला आया है। परम्पर दिन रातके समान विरुद्ध दो मत कदापि वेद शास्त्र सम्मत नहीं हो सकते। जगन्मोहनजीका सिद्धान्त (मुरारिस्तृतीयः पन्थाः) हो गया इसको आर्यसमाजी भी नहीं मानेंगे और न सनातनधर्मों ठोक मानेंगे। अब अन्तमें हम जगन्मोहन जी को राय देते हैं कि यदि वे वास्तवमें सत्यके खोजी और हठ नहीं रखना चाहते तो इस निष्पक्ष सच्चे समाधानको स्वीकार कर प्रकाशित करें। यदि अब भी श्राद्ध विषयमें जितनी शंका बाकी रह गई हो उन सबको जिज्ञासु भावसे लिखे-दात्रिके साथ लिखना अच्छा नहीं तो उनका प्रथम उत्तर विद्वान् लोग देंगे। हमारा उद्देश भी यही है कि हम कदापि हठ नहीं करें सत्यको ही मानेंगे मरन्तु सत्यासत्य का ठीक-२ विवेक हम अपनी केवल बुद्धि से कर सकें ऐसी शक्ति वा योग्यता हम अपने में नहीं देखते। इसलिये संहिता ब्राह्मणादि से जो सिद्धान्त स्थिर हो जाय उसीको सत्य मानना यही परम्परा सनातन कालसे ऋषि महर्षियों की चली आई है इसी मर्यादा पर चलना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। यद्यपि हम केवल शुष्कतर्कवाद का भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं पर हम उस की शास्त्र मर्यादासे भिन्न होनेके कारण अच्छा नहीं समझते। तथापि यदि जगन्मोहनजी चाहें और केवल तर्कों द्वारा प्रश्न करें वा अन्य कोई भी पुरुष जैसे प्रश्न करे तो भी हम उत्तर देंगे। परन्तु आस्तिक ऋषि महर्षियों की मर्यादा यह है कि—

व्यवस्थापुनरग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामइति लौ-
किकस्य स्वर्गे न लिङ्गदर्शनं न प्रत्यक्षम् । वात्स्या-
यन भा० १ । १ । ३ ।

यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य वत्त तेकामकारतः ।

नससिद्धिमवाप्नोति न सुखं नयराङ्गतिम् ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
 ज्ञात्वाशास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहाहसि ॥
 भ० गीतायांम् ।

अर्थ-स्वर्ग चाहने वाला मनुष्य अग्निहोत्र करे तो इस प्रमाण में
 कहें स्वर्गको संसारी मनुष्य अनुमान वा प्रत्यक्षसे नहीं जान सकता ।
 इस कारण शास्त्र विधिको छोड़कर अपनी इच्छामात्रसे किसी बात
 का निर्णय न करें क्योंकि ऐसा करनेसे कुछ भी हाथ न लगेगा ।
 इस लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये इस
 फसल के लिये शास्त्र को ही प्रमाण मानना उचित है । शास्त्रोक्त
 विधानका जानकर हमको संसार में अपना कर्तव्य कर्म करना चा-
 हिये । सा शास्त्रविधिसे तो श्राद्ध पिण्डदान सबसम्मत निर्विकल्प
 सिद्ध हो गया है । हमारे जन्मोद्देहने जी भी मन्त्र ब्राह्मण दोनों को
 स्वतः प्रमाण बंध मनुष्यके हैं हमें विशेष आवश्यकता होने पर मन्त्र
 ब्राह्मण के सैकड़ों प्रमाण पिण्डदानादि की सिद्धिमें दे सकते हैं ॥

श्राद्धविषयमें आर्यसमाजियोंसे प्रश्न ।

१-तुम लोग श्राद्ध किसी खास कर्मको मानते हो तो विवाह
 यज्ञोपवीतादि के तुल्य उस का विधान किस ग्रन्थमें है । और उस
 को पढ़ति कहाँ है ? ॥

२-"श्रद्धया यत्क्रियते तच्छ्राद्धम्", ऐसा अर्थ मानते हो तो यह
 श्राद्धका शाब्दिक अर्थ हुआ । तब श्राद्धका लाक्षणिक अर्थ क्या है ?
 अथवा क्या लाक्षणिकार्थ है ही नहीं । यदि शब्दार्थ को ही मुख्य
 मानते हो तो क्या विशेष प्राप्ति विशेष मेल अर्थात् किसी बालकको
 छातीसे लिपटा लेने पर उस के साथ विवाह मानोगे ? । और उप
 नाम समीप बुला लेना क्या उपनयन मानोगे ? ॥

३-क्या समाजी मतके अन्य कामों को श्राद्ध से करना तुम नहीं
 मानते हो ? तब उन सबका नाम श्राद्ध क्यों नहीं है । जब नित्य २
 श्राद्धसे भोजन करते हो तो क्या वह भी श्राद्ध है ॥

४-तुम ज़ीवितों का श्राद्ध मानते हो तो सरीं का विवाह करना
 क्यों नहीं मानते । यदि सरीं के विवाह को असंभव तथा व्यर्थ

कहो तो वैसा ही जीवितों का श्राद्ध तर्पण व्यर्थ वा असम्भव क्यों नहीं है क्या जीवितों का श्राद्ध कभी कहीं हुआ वा किसी ने किया और कहीं लिखा है ? ।

५-स्वा० द० ने सन् ७५ के सत्यार्थप्रकाश में जितने जीवित हों उनके नाम से तर्पण न करे किन्तु जो २ मर गये हों उनके नाम से तर्पण करे ऐसा लिखा है सो इसको तुम प्रमाण क्यों नहीं मानते ? यदि मानते हो तो जीवितों का श्राद्ध तर्पण करना मिथ्या क्यों नहीं है यदि कहो कि स्वा० द० ने ऐसा नहीं लिखा किन्तु छपाने शोधने वालों ने वैसा बना दिया है तो क्या तुम में से कोई भी समाजी वेद पुस्तक हाथ में लेकर शपथ के साथ कह देगा कि यह सत्य है ? ॥

६-जब अथर्ववेद १८ । १ । ४४ । (असुंयस्युः०) मन्त्रांश का अर्थ प्राण वायु मात्र सूक्ष्म देहधारी पितर निरुक्त के अनुसार सिद्ध हो चुके हैं तो जीवित स्थूल देहधारियोंमें वह अर्थ कैसे बट सकेगा क्या उससे मृत पितर सिद्ध नहीं हैं ? ॥

७-जब अथर्ववेद १८ । २ । ४६ में लिखा है कि (य आविविगु-रुवन्तरिक्षम्) जो पितर बड़े अन्तरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुके हैं । तब क्या तुम्हारे जीवित ही पितर अन्तरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं ? यदि नहीं कर लेते तो मृत पितरोंका श्राद्ध तर्पण उक्त मन्त्रसे सिद्ध क्यों नहीं है ? ॥

८-जब अथर्ववेद १८।३।४४ में (अग्निष्वात्ताः पितर एहगच्छत) यहाँ हविष जानने के लिये उन पितरों को बुलाया गया है कि जो संस्नानान्तर अग्नि में जलाये गये थे । क्योंकि (यानाग्निरेवदहनत्स-दयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः) जिन को जलता हुआ अग्नि खाट जाना है वे पितर अग्निष्वात्त कहाते हैं यह अग्निष्वात्त पद का अर्थ शान्पथ काण्ड-२ में लिखा है तब वे अग्निष्वात्त पितर जीवित कैसे हो सकते हैं ? इस प्रमाण से भी मरोंका श्राद्ध होना सिद्ध क्यों नहीं है । क्या तुम्हारे मत में जीवित ही जला दिये जाते हैं और क्या जल जाने पर भी वे लोग जीवित ही बने रहते हैं । यदि ऐसा हो तो किसी समाजीको दाहकर्म होजाने पर क्या जांचित दिखा दोगे ।

६-जय अथर्व १८।३।६६ (यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः सधायतीः) यहां तिल मिले जी पितरों के लिये चिखेरना लिखे हैं सो क्या जीधितों के सामने चिखेरना उचित है और क्या इस से मृतक श्राद्ध सिद्ध नहीं होता ? ॥

१०-१८।३।७२.में (येतेपूर्वेपरागताः) जो पहिले पितर पूर्व काल में व्यतीत हो गये उनके लिये भी तर्पण करना चाहिये । क्या इस प्रमाण से मरे हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण सिद्ध नहीं होता और क्या ऐसा कथन जीधितों में घट सकता है ? ॥

११-अथर्व १८।४।४८ में (मृताः पितृषु संभवन्तु) मरे हुए मनुष्य पितृयोनि में प्रकट हों उन्हीं के लिये श्राद्ध तर्पण होता है । क्या यहां मूल वेद में मृत शब्द नहीं है और क्या इस से मरों का श्राद्ध तर्पण सिद्ध नहीं होता ? ॥

१२-अथर्व १८।४।६३ में (अध्रामासिपुनरायातनो गृहान्) यहां पावणादि मासिक श्राद्ध में पितरों का विसर्जन करके महीने भर बाद फिर बुलाना कहा है सो क्या जीधित पितरों को तुम महीने में एक ही बार भोजन देते हो ? । क्या वे ऐसा करने से जीधित रह सकते हैं । यदि हां कहां तो वे कौन हैं ? (नमः पितृभ्यो दिचिपदभ्यः) अथर्व १८।४।८० दिव्यनाम स्वर्ग में रहने वाले पितरों को यहां नमस्कार कहा गया है । सो क्या जीधित ही समाजियों के प्रितर स्वर्ग में जाते हैं यदि कोई जीधित स्वर्ग में जाते नहीं देखे जाते तो इससे मरों का श्राद्ध करना सिद्ध क्यों नहीं है ? ॥

१३-क्या तुम्हारे मतमें जीधित पितरोंको अपसव्य हो वायां घोंदू पृथिवी में टेक के, वक्षिणको मुख करके भोजन दिया जाता है और ऐसा क्यों करना चाहिये, क्या इसका कुछ फल वा प्रयोजन प्रत्यक्ष में दिखाने सकते हो, क्या इस प्रकार दिये भोजन को तुम्हारे जीधित पितर खा लेते हैं । क्या अशुभ नहीं मानते और ऐसा कृत्य प्रोत्सहीला क्यों नहीं है ॥

१४-क्या तुम लोग (अपराहः पितृणाम्) इस शतपथ प्रमाणके अनुसार भूखे पिता को भी दोपहर के बाद ही भोजन दोगी और

मनुष्य के भोजन का समय मध्याह्न लिखा है क्या तुम्हारे जीवित पितर मनुष्य नहीं हैं जब कि मनुष्य हैं तो मनुष्यों और पितरों का भिन्न-२ समय क्यों रखा है क्या इससे जीवित मनुष्यों से पितरों का भिन्न होना सिद्ध नहीं है ॥

१५-जब शतपथ काण्ड २ । ३ । ४ में लिखा है कि (तिरव घ पितरो मनुष्येभ्यः) मनुष्यों से पितर छिपे नाम अद्रश्य होते हैं । सो क्या जीवित मनुष्य पितर मनुष्यों से कभी छिपे नाम अद्रष्ट रह सकते हैं । क्या इससे मृत पितरों के लिये श्राद्ध रूपट्ट सिद्ध नहीं है । शतपथ में पिरहदान के बाद पीठ फेर लेना लिखा है सो क्या तुम जीवित पितरों को भोजन परोस कर उनकी ओर पीठ कर देना ठीक समझते और क्या वंसा करते हो ॥

१६-(सनिदधातिये रूपाणि०) शतपथ २ । ३ । ४ में लिखा है कि (ये रूपाणि०) मन्त्र पढ़के पिरहों के स्थान से दक्षिण में एक अङ्गुर रखे । सो क्या जीवित पितरों के पास तुम मन्त्र पढ़के एक अङ्गुर रखते हो ? तब क्या गर्मी के दिनों में तुम्हारे पितर घबडाते नहीं हैं ॥

१७-अग्निवेदादि भा० भूमिकामे स्त्रा० द० ने अग्निष्वात्त शब्दका अर्थ अग्निविद्या को जानने वा अग्निसे विशेष कार्य साधन करने वाले एजिनके ड्राइवर आदि किया और आगेके शास्त्रार्थमें समाजों उपदेशकों ने जले हुए मुर्दा के परमाणु अर्थ किया है । इन परस्पर विरुद्ध दोनोंमें कौन अर्थ सत्य है और दो में कौन एक मिथ्या है ? ॥

१८-क्या समाजियों लोग अग्निष्वात्त पितरों को बुलाने के समर्थ फाले २ : एजिनके ड्राइवरों का आवाहन करते हैं अथवा तु० रा० के किये अर्थानुसार जले मुर्दा के परमाणुओं से (अग्निष्वात्ताः पितर एहगच्छतः सदः सदः सदतः) कहते हैं कि हे जलो हुए मुर्दा के परमाणुओ ! तुम लोग यहाँ आओ, अपने २ आसन पर बैठो और भोजन करो तथा भोजन को वाँद हमको बहुत सा धन दे जाओ, सो क्या मुर्दाके जले हुए परमाणु आते, आसनों पर बैठते, और भोजन करके धन दे जाते हैं । इससे क्या समाजियोंके पितर मुर्दाके जले हुए परमाणु सिद्ध नहीं हैं ? ॥

१६-ऋ० मा० भू० में स्वा० द० ने प्रतिज्ञा की है हम विरुद्ध श-
तपथादि प्राचीन जार्प ग्रन्थोंके अनुकूल वेदार्थ करते और मानते हैं
फिर अग्निष्यास्त पदका शतपथ से विरुद्ध मनमाना व्याकरण की
स्वरप्रकिया से भी विरुद्ध अर्थ किया है सो मिथ्या क्यों नहीं और
पेसा करनेसे स्वा० द० की पहिली प्रतिज्ञा का खरडन क्या नहीं हो
गया । इसका तुम क्या जज्ञोय रखते हो ।

२०-संस्कार विधि समानुत्तन प्रकरणमें लिखा है कि "हाथमें
जल ले अपसव्य और दक्षिण मुख होके (औपितरः शुन्धध्वम्) इस
मन्त्र से जल भूमि पर छोड़े, तुम क्या इससे भी जीवितों को ज-
लदान मानोगे ? । यदि जीवितों का ही तर्पण मानना चाहते हो तो
(भूमि पर जल छोड़े) को काटकर (पिताको भूमिमें लिटाके उस
के मुख में जल छोड़े) पेसा क्यों नहीं बना देते हो । क्या स्वा० द०
के पेसे लिखने से सरीं का तर्पण मानना सिद्ध नहीं ? ॥

२१-संस्कार वि० और पञ्चमहायज्ञ विधि में (पितृभ्यः स्वधा-
यिभ्यः स्वधानमः मन्त्र से एक ग्रास दक्षिण में रखने को लिखा है
सो यह ग्रास वा भाग कितको दिया जाता और दक्षिण में क्यों
धरा जाता है । क्या इससे मृत श्राद्ध मानना सिद्ध नहीं है ? ॥

२२-(आत्राश्रासिकाः पितरश्चतुसा एकाक्रिया द्वयर्थकरी
प्रसिद्धा) व्याकरण महाभाष्य के इस प्रमाण से भी मृत पितरों का
तर्पण करना सिद्ध है । तब पेसे प्रमाण वेदोक्त होने पर भी सरींका
श्राद्ध तर्पण मानने में तुम क्यों हिचकिचाते हो । क्या हमने मृत
पुरुषों के श्राद्ध तर्पण की सिद्धि में वेदादि के जो अनेक प्रमाण दिये
हैं उनके लिये तुम्हारा कोई उपदेशक वा पण्डित हाथ में वेद पुस्तक
लेके शपथ कर सकेगा कि वे श्राद्ध के लिये सत्य २ प्रमाण नहीं हैं ।

२३-(तृतीया इ प्रचीरिति यस्यां पितर आसते । अथर्व० १८
२ । ४८) यहाँ से ऊपर प्रची नामक तीसरा लोक है जिसमें पितर
रहते हैं सो क्या तुम्हारे जीवित पितर कहीं आकाश में लटका
करते हैं और मन्त्र में कहे वे ही पितर हैं जिनके लिये श्राद्ध तर्पण
किया जाता है । तब क्या इस से जीवितों के श्राद्ध मानने का
खरडन नहीं होता ॥

२४-सिद्धान्तशिरोमणि पु० को स्वा० द० ने प्रामाणिक माना है उसमें लिखा है कि (ततःशेषाणि कन्यायाः यान्यद्वानि तु षोडश । कतुभिस्तानितुल्यानि पितृभ्योऽत्तमक्षयम्) क्या यह कन्याओं के सूर्य में होने वाले कनागत श्राद्धों के लिये आर्षे प्रमाण पर्यप्त नहीं है ॥
 २५-क्या तुम लोगोंने यह मिथ्या कृतक नहीं किया है कि राजा कर्ण से चलने के कारण कर्णागत कहाये फिर कनागत अपभ्रंश हो गया ? इससे कर्ण राजा से पहिले कनागत श्राद्ध नहीं थे । क्योंकि जब सिद्धान्त शिरोमणि के प्रमाणानुसार कन्यागत शब्द से कनागत हुआ तब कनागत श्राद्ध संनातेन अनादिकाल से सिद्ध होने पर तुम्हारा कृतक मिथ्या सिद्ध क्यों नहीं होगया ? क्या अपनी ऐसी २ मिथ्या कल्पनाओं का निर्मूल खरडन हो जाने से अब भी लजित नहीं होंगे ॥

२६-(श्राद्ध शब्दः । पा० ४ । ३ । २२ । शरदि भव शारदिकं श्राद्धम्) पाणिनि आचार्य के व्याकरण का यह सूत्र है । अर्थ यह है कि शरद् नाम कार कालिक में होने वाले श्राद्ध शारदिक कहाते हैं । यहाँ अन्य ऋतुओं के श्राद्धों का विचार छोड़के शरद् ऋतु के खास श्राद्धोंका प्रमाण होनेसे क्या इन कनागतोंका प्रचार पाणिनि आचार्य से भी पहिले बलि प्राचीन काल से चला आना सिद्ध नहीं है ? ॥

२७-यदि तुम्हारा यह मत है कि पुत्र के दिये श्राद्धका फल पिता को नहीं प्राप्त हो सकता तो—

मृतानामिहजन्तूनां, श्राद्धं चेत्प्रतिकारणम् ।

जीवतामिहजन्तूनां, वृथापाथेयकल्पनम् ॥

मरे हुए प्राणियों को यदि श्राद्ध का फल मिल सकता है तो जीवित मनुष्य जब मुसाफिरीमें जावे तब उसके मनुष्य श्राद्ध द्वारा उस की वृत्ति मार्गमें क्यों नहीं कर सकते । इस नास्तिक जातिके और तुम्हारे मतमें क्या भेद है ? यदि कुछ भेद नहीं तो तुम भी नास्तिक सिद्ध क्यों नहीं हुए ॥

२८-तुम कहते हो कि मरे हुए पितादिको जन्मान्तरमें श्राद्धतर्पणका फल मिलनेका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या उक्तके हीर्थ की रसीद

नहीं आती तो फल पहुंचता है यह कैसे मान लें ? तब तुमसे पूछा जाता है कि अपने किये शुभाशुभ कर्मों का फल जन्मान्तर में अपने का मिल जाता है इसमें क्या प्रमाण है ? क्या इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण या रसीद दिखाना संभव है ? जब नहीं दिखा सकते तो यहां भी चार्वाक नास्तिकका मन (ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्) क्यों नहीं मान लेते ? ॥

२६-तुम कहते हो कि पितादिने बुरे कर्म किये तो उनको अपने कर्मानुसार ईश्वरव्यवस्था से दुःख मिलना नियत है तब पुत्र यदि उनको दुःखसे छुड़ाना चाहता है तो ईश्वर की व्यवस्था नष्ट होगी ईश्वरकी इच्छा से विकृत होगा। यदि तुम्हारा ऐसा मन्तव्य है तो जीवन माता पिता गुरु आदिकी सेवा सुधूपा भी तुमको नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पिछले जन्मके कर्मों का जैसा २ शुभाशुभ फल ईश्वरने उनका देना नियत किया है उस ईश्वरीय व्यवस्था में बाधा डालने वाले तुम क्यों नहीं मुर ? ऐसी दशामें जीवित माता पितादिकी सेवा भी तुमको छाड़नी क्यों नहीं पड़ेगी ॥

३०-यदि कहां कि अन्यके द्वारा प्रत्यक्षमें तो फल मिल सकता है परीक्षमें नहीं। तब हम पूछते हैं कि तुम अपने निज घरु स्त्री पुत्रादि की कोई वस्तु उठालेने समय क्या यह विचारते हो कि अन्यके वस्तु को लेनेका अपराध हमको लगेगा। यदि नहीं विचारते और ऐसा कहते मानते हो कि पुत्रादिका वस्तु अन्य का नहीं, किन्तु हमारा ही है। हमारे स्त्री पुत्रादि हैं अन्य नहीं किन्तु हम सब एक ही हैं। तो पुत्रादि जो उसके अंशरूप हैं उनको अन्य क्यों कहते मानते हो।

३१-जब कि (आत्मा धै पुंत्र नामासि) (आत्मा वै जायते पुत्रः) इत्यादि श्रुति और (गर्भोभूत्वेहजायतेः) (भार्यापुत्रः स्वकातनूः) इत्यादि स्मृतियों में पुत्रसे पिताका अभेद वा एकता दिखाई है तब तुम फूटरूप भेद वा अन्य २ होने का झगड़ा क्यों लगाते हो ॥

३२-क्या तुम पिताका अंश पुत्रको नहीं मानते। जब अवयवरूप है तो हाथ मिहनत करके रोटी बनाता, मुख चवाने महीन करनेमें श्रम करता है पर हाथ कुछभी नहीं खाता, मुखको स्वाद आता और पेट कुछ भी मिहनत नहीं करता परन्तु भूख निवृत्तिरूप मुख्य फल पेट को ही होता है तब अन्य हाथके किये कर्म का फल अन्य पेटको क्यों पहुंचता है। क्या इन हाथ मुख पेटमें लड़ाई कराओगे ? ॥

३३-तुम कहते हो कि मरजाने पर अन्य के किये कर्मका फल अन्य को नहीं पहुंचता तो यदि कोई राजा रईम दश लाख रुपया का किसी शासके नाम वा सभा के नाम वसीयतनामा कर जावे कि इस धनसे अनाथालय, सदावर्त्त, वा पाठशाला आदि धर्म के अमुक २ काम किये जाया करें । और वे काम ठीक २ वैसे ही हों तो क्या उन कामोंसे होने वाले उपकारोंका फल उस धनदाता को जन्मान्तरमें नहीं मिलेगा यदि कर्त्ताओं को मिलना कहां तो उनका कमाया धन नहीं है और जिसने वसीयतनामा किया उसको फल न मिले तो क्या ऐसा पुण्य का काम निष्फल होगा । फल पहुंचना मानना पड़ा तो उसी कायदे से श्राद्धादि धर्म करनेके लिये पिता अपने पुत्रको धनादि सर्वस्व सौंपता है तब पुत्रकृत श्राद्धादि का फल पिताको क्यों नहीं मिलेगा ? ॥

३४-जब उत्सर्गपवादादि वा सामान्य विशेष की व्यवस्था को माने बिना वेदादि किसी शास्त्र का काम नहीं चलता तो अन्यकृत कर्म का फल अन्य को नहीं होता । इसको उत्सर्ग वा सामान्य कथन मानके विशेषांशमें पुत्रादि सपिण्ड वा दौहित्रादि कृत श्राद्धादि का फल पितादिको पहुंचना अपवादरूप मानकर सब शास्त्रों का विरोध मिटजाता और व्यवस्था लगजाती है । ऐसा मान लेने में तुम्हारी क्या हानि है ? ।

३५-यदि तुम नास्तिकों के सामने प्रत्यक्षादि से श्राद्धादिको सिद्ध न कर सकने के कारण वेदोक्त श्राद्धादि के खण्डन का पाप अपने शिर लांढते हो तो क्या उसी कायदे से तुम्हारे अन्य मन्तव्य वेदादिका खण्डन नहीं हो सकता ।

३६-यदि तुम्हारा दावा हो तो अभ्युपगम सिद्धान्त को लेकर हम तुम्हारे वेदादि मन्तव्य के खण्डन करने का नोटिस तुमको देते हैं । तब क्या तुम वेदका मण्डन करने की शक्ति रखते हो ॥

३७-जब स्वामी शङ्कराचार्य जी तथा कुमारिल भट्टादि बड़े २ नामी विद्वानों ने नास्तिकों के साथ बड़े २ प्रबल शास्त्रार्थ करते हुए भी श्राद्धादि सत्कर्मों का त्याग वा खण्डन नहीं किया तो नास्तिकों के भयसे अपने वेदोक्त धर्म का त्याग करना क्या यह तुम्हारी निचलता नहीं है ॥ * इति । *

ब्रह्मप्रेस-इटावाकी उत्तमोत्तम पुस्तकें अष्टादशस्मृति ।

अत्रि, विष्णु, हारीत, उशना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब, सर्वर्ष, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शंभु, लिखित, दक्ष, गौतम गानानप, और वशिष्ठ इन अठारह महर्षियोंके नाम प्राचीन कालसे चले आते हैं, इन ऋषियों ने धर्म ग्रन्थांदा और लोक व्यवहार के अनुष्ण स्थापित रखने के लिये अपने २ नाम से एक २ स्मृति की रचना की है। इन में सनातन वैदिक धर्म की महिमा और विधि अनेक प्रकार से ऐसी उत्तमतासे लिखी है कि जिन के देखने तथा कथा श्रवण करने से भी श्रद्धालु मनुष्योंके पापोंकी निवृत्ति पूर्वक कल्याण होता है तब लिखे अनुसार काम करने से परम कल्याण अवश्यमेव होगा। इसलिये जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन को धर्मशास्त्रों का अवलोकन वा श्रवण अवश्य करना चाहिये। बहुत उत्तम भाषाटीका सहित मोटे चिकने कागज पर शुद्ध छपा ८०० पेज का पुस्तक है। मूल्य प्रति पुस्तक ३) है।

याज्ञवल्क्यस्मृति भाषाटीका ।

मनुष्य के कल्याणकारी २० धर्मशास्त्रों में याज्ञवल्क्य स्मृति अन्यतम है यद्यपि दो एक प्रेसों में इसका भाषानुवाद छपा भी है पर वह अल्पश्लोक का चनाया होने से मूल के यथार्थ भाव को व्यक्त नहीं करता इसके सिवाय उन टीकाओं में आवश्यक स्थलों पर न तो नोट हैं और न सन्देहास्पद शङ्काओं का समाधान है और मूल्य भी इतना अधिक है कि सर्वसाधारण खरीद नहीं सकते इन्हीं सब कारणों को विचार कर श्रीयुत पण्डित भीमसेन शर्मा जी ने इसका स्वयं भाषानुवाद किया है। प्रत्येक श्लोक का स्पष्ट और विशद भाषानुवाद किया गया है; आवश्यक स्थलों पर टिप्पणियां दी गई हैं शंकास्पद विषयों का समाधान किया गया है पुष्ट सफेद कागज पर उत्तम टाइप में पुस्तक छापी गई है। इतने पर भी मू० केवल २) ६० ही है।

उपनिषद् का उपदेश ।

जिन विद्वानों ने स्वा० शङ्कराचार्य जी के संस्कृत भाष्य [जो उन्होंने उपनिषदों पर किया है] को देखा है उनसे यह छिपा नहीं है कि वेदान्त की गम्भीर से गम्भीर बातों पर उन्होंने कौन प्रकाश डाला है। वस्तुतः यहाँ तो यह है कि सचमुच संस्कृत साहित्य में उससे उच्च भाषा का यदि कोई आकर है यदि सुगन्धिमय प्रसूनों की कोई वाटिका है तो वह उपनिषद् है, इन उपनिषदों पर शोषण, हार, अरस्तु, आदि पाश्चात्य विद्वान् इतने मोहित हो गये थे कि उन्होंने इसकी प्रशंसा में पुल बांध दिये थे, इस बीसवीं शताब्दि में यूरोप और अमेरिका में हिन्दुधर्म का महत्त्व इन्हीं उपनिषदों के बल से स्वा० विवेकानन्द और स्वा० रामतीर्थ ने उन २ देशवासियों के हृदय में बिठा दिया है, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उपनिषदोंको पढ़े विचारे और मनन करे, इसमें कठ और मुण्डक उपनिषद् की स्वा० शङ्कराचार्य के भाष्य के आधार पर टीका की गई है, प्रारम्भमें विस्तृत अवतरणिका है जिसमें सभी जानने योग्य बातों का समावेश है मू० १) वंगभाषा में इसका बड़ा आदर है।

षोडशसंस्कारविधि *

हिन्दी भाषा में अद्यतक संस्कारोंके विषय में सांगोपांग पुस्तक कोई नहीं छपी, द्विजातियों के लिये संस्कार बड़ी प्यारी वस्तु है और वर्तमान में संस्कारोंकी दशा प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ के यहाँ बड़ी शोचनीय हो रही है। शायद ही किसी भाग्यवान् के यहाँ पूरे पूरे सोलह संस्कार होते हैं नहीं तो ४। ६ मुख्य २ संस्कारों का कर लेना ही आजकल मुख्य कर्तव्य समझा जाता है, इसमें एक कारण यह भी है कि संस्कारोंकी अद्यतक पूर्ण पुस्तक कोई नहीं छपी। संस्कार भास्कर आदि जो पुस्तकें बम्बई आदिमें छपी हैं वे संस्कृत में होनेसे सर्वसाधारण के उपयोगी नहीं ऐसी कठिनताओं को देख कर पं० भीमसेन जी शर्मा ने इस पुस्तक की रचना की है ऊपर मूल संस्कृत और नीचे भाषा में उन के करने की पूर्ण विधि लिखी गई है जिस के सहारे थोड़े पढ़े लिखे भी संस्कार करा सकते हैं, बड़ी उपयोगी पुस्तक है मू० २) है पर सर्वसाधारण के सुभीते के लिये की० घटाकर १॥) ही करदी है।

पुस्तकें मिलने का पता-

मैनेजर-ब्रह्मप्रेस

इटावा

आर्यमतनिराकरणप्रश्नावली

सनातनधर्मा मज्जनः को विपत्तियोंसे शास्त्रार्थ और शंका समाधान करनेके लिये दैवी दुस्तकको आर्य-यफता दी यह यंत्री ही दुस्तक है इसमें प्रश्नों को संख्या ५०० से भी ऊपर है। इस दुस्तक को हाथमें लेकर आर्यसमाजियों के कट्टर से कट्टर पांडित को बातचीत यातर्म पछाड़ सकते हैं इसमें जो प्रश्न छाप गये हैं उन का जवाब आ० स० एक जन्ममें तो दया सात जन्मों में भी नहीं दे सकता मू०।=)

विधवाविवाह मीमांसा ।

इसमें विधवाविवाह आर नियोग के दृष्टमें जितने वेद मन्त्र आर्यसमाजी आदि विधर्मा पश करने हैं उन सब का भाष्य करके सिद्ध कर दिया है कि वेद में कहीं भी विधवा विवाह या नियोग का उल्लेख नहीं है इसमें रमृति सम्बन्धी प्रमाणों की आलोचना है जो दलीलें आदि विधवाविवाह के विषय में विपक्षी पेश करते हैं उनका समाधान भी है। मू०।=)

